



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 15—अक्टूबर 21, 2005 (आश्विन 23, 1927)  
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 15—OCTOBER 21, 2005 (ASVINA 23, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएँ]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय  
(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्टूबर 2005

सं. 486, दिनांक 8 सितम्बर 2005—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के श्री बी. दत्त, सहायक वित्तीय सलाहकार को रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में तदर्थ आधार पर दिनांक 12 अगस्त 2005 (पूर्वाह्न) से उप वित्तीय सलाहकार के रूप में सलाहकार नियुक्त करते हैं।

एम. सी. लूथर  
उप वित्तीय सलाहकार (स्थापना)

रक्षा (एम एस)

सं. 487, दिनांक 9 सितम्बर 2005—भारत के राष्ट्रपति, अपने अवैतनिक वैयक्तिक स्टाफ में 01 मई 2005 से निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

अवैतनिक वायु सेना एडीसी

एयर मार्शल, एस भोजवानी, प वि से मै, अ वि से मै, वि से मै (9734)

एफ (पी)

एयर मार्शल, ए भावनानी, प वि से मै, अ वि से मै, वी मै (10440) एफ

(पी)

एस डी बांगा  
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं. 488, दिनांक 14 सितम्बर 2005—थल सेना अनुदेश 37/78 तथा उसमें जारी किये गए संशोधनों के अधीन राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

स्थाई कमीशन

लैफ्टि के पद पर (परख पर)

डी आर-10579वाई युवराज ईसर, 19 मई 2005

परमजीत सिंह

मेजर जनरल

एडीशनल डीजीडीएस

थल सेना विभाग

सं. 489, दिनांक 14 सितम्बर 2005—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित सेना दन्त कोर अधिकारी को दो वर्ष की परखावधि सफलतापूर्वक समाप्त करने पर सेना अनुदेश 37/78 के अन्तर्गत स्थाई कमीशन में पदका करते हैं :--

<p>डीआर-10555पी (ए एफ-26942एल) फ्लाईट लैफ्ट शालीन एयरोन, 17 मई 2003</p>	<p>नियमित सेना सैनिक दन्त चिकित्सा कोर (स्थाईकरण)</p> <p>परमजीत सिंह मेजर जनरल एडीशनल डीजीडीएस</p>	<p>नायब सूबेदार सोहन लाल (जेसी-419688ए), 22 मई 2005* *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)</p> <p>नायब सूबेदार हरी दासन पी (जेसी-419479एच), 16 मई 2005* *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 अप्रैल 2005 से दी जाती है)</p>
<p>सं. 490, दिनांक 8 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--</p>	<p>सेना शाखा</p>	<p>नायब सूबेदार मोहन सिंह (जेसी-419439एफ), 01 मई 2005* नायब सूबेदार हरक सिंह (जेसी-419312वाई), 10 जुलाई 2005* *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)</p>
<p>सूबेदार राज भान सिंह (जेसी-418161वाई), 21 मार्च 2005*</p>	<p>नियमित सेना इन्फैन्ट्री मैकानाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट सूबेदार मेजर के रैंक में</p>	<p>नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-419355एन), 10 जुलाई 2005* *(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)</p> <p>जोस थोमस अवर सचिव</p>
<p>*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)</p>	<p>सूबेदार के जी स्कारीया (जेसी-216442एम), 07 मार्च 2005*</p>	<p>सं. 491, दिनांक 9 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--</p> <p>नियमित सेना पायनियर कोर स्थाई सूबेदार (जी डी) के रैंक में</p>
<p>सूबेदार हवा सिंह (जेसी-418619एक्स), 01 मई 2005</p>	<p>सूबेदार के रैंक में</p>	<p>नायब सूबेदार जी डी रुदल रजक (जेसी-829236एक्स), 01 अप्रैल 2005</p>
<p>नायब सूबेदार राम चन्द्र (जेसी-419448एच), 26 अप्रैल 2005*</p>	<p>नायब सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)</p>	<p>नायब सूबेदार जी डी बिजय कुमार लाल (जेसी-829239एम), 21 अप्रैल 2005@</p>
<p>नायब सूबेदार ललीत बहादुर सारंगकोटी (जेसी-419820एफ), 20 जून 2005*</p>	<p>नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)</p>	<p>नायब सूबेदार जी डी सनिस्वर नायक (जेसी-829241के), 01 अप्रैल 2005</p>
<p>*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)</p>	<p>नायब सूबेदार बेग बहादुर थापा (जेसी-419821एक्स), 16 जून 2005*</p>	<p>नायब सूबेदार जी डी प्रेम सिंह (जेसी-829242एम), 09 मई 2005# @वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना #वरिष्ठता 01 मई 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना</p>
<p>नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2005 से दी जाती है)</p>	<p>नायब सूबेदार के रैंक में</p>	<p>नायब सूबेदार (जी डी) के रैंक में</p>
<p>नायब सूबेदार जसनबीर सिंह (जेसी-418852एल), 01 मई 2005*</p>	<p>*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)</p>	<p>हवलदार जी डी गौतम कुमार चौधरी (सं. 8029082एन जेसी-829321एफ), 11 फरवरी 2005*</p>
<p>*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)</p>	<p>नायब सूबेदार बनारसी दास (जेसी-419250के), 03 जून 2005*</p>	<p>हवलदार जी डी संतोश कुमार (सं. 8029139एक्स जेसी-829322के), 09 फरवरी 2005*</p>
<p>*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)</p>	<p>नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2005 से दी जाती है)</p>	<p>हवलदार जी डी रतन सिंह (सं. 8029191ए जेसी-829323एम), 01 मार्च 2005 हवलदार जी डी अमर सिंह (सं. 8029313वाई जेसी-829324पी), 11 मार्च 2005@</p>

हवलदार जी डी सुबोध सागर चौरसिया (सं. 8029363के जेसी-829325एक्स), 14 मार्च 2005@

हवलदार जी डी एलएस लक्रा (सं. 8029226एल जेसी-829327एच), 07 अप्रैल 2005#

हवलदार जी डी के कार्तिकेयन (सं. 8029153के जेसी-829328एल), 01 अप्रैल 2005

हवलदार जी डी अवधेश प्रसाद सिंह (सं. 8029012पी जेसी-829329एन), 08 अप्रैल 2005#

हवलदार जी डी लल्लन सिंह (सं. 8029764वाई जेसी-829330एच), 11 अप्रैल 2005#

\*वरिष्ठता 01 फरवरी 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

@वरिष्ठता 01 मार्च 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

#वरिष्ठता 01 अप्रैल 2005 से वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना

#### तोपखाना रेजीमेंट

नायब सूबेदार (क्लर्क जी डी/एस के टी) के पद में

हवलदार (क्लर्क) रमेश कुमार (सं. 14467999एफ अब जेसी-267656एल), 01 जनवरी 2005/12 नवम्बर 2003 \*

हवलदार (क्लर्क) लाल कुमार रॉय (सं. 14358191ए अब जेसी-267478एन), 01 जनवरी 2005/12 नवम्बर 2003 \*

हवलदार (क्लर्क) उग्र नारायण यादव (सं. 14483614एच अब जेसी-267552के), 01 फरवरी 2005/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) अवधेश कुमार (सं. 14484171वाई अब जेसी-267657एन), 04 फरवरी 2005/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) अतर सिंह (सं. 14356400एन अब जेसी-267479डब्ल्यू), 10 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

हवलदार (क्लर्क) सेवियर पी एस (सं. 14475700वाई अब जेसी-267480एल), 01 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) श्यामल कुमार बनर्जी (सं. 14476858एन अब जेसी-267547वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) श्री कृष्ण (सं. 14483585वाई अब जेसी-267481एन), 01 जनवरी 2005

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) गिरधारी लाल (सं. 14369435एच अब जेसी-267658डब्ल्यू), 04 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

हवलदार (क्लर्क) प्रदीप भगत (सं. 14371012एन अब जेसी-267548एफ), 11 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

हवलदार (क्लर्क) सुदिश कुमार शर्मा (सं. 14472232वाई अब जेसी-267549के), 01 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) एम चन्द्रशेखरन (सं. 14350138ए अब जेसी-267859पी), 05 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

हवलदार (क्लर्क) नरेश कुमार शर्मा (सं. 14369184के अब जेसी-267550वाई), 01 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) जय प्रकाश तिवारी (सं. 14470207एफ अब जेसी-267551एफ), 11 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

हवलदार (क्लर्क) महेन्द्र सिंह जाट (सं. 14359957एल अब जेसी-267482डब्ल्यू), 01 जनवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) अब्दुश सेलिम (सं. 14393004पी अब जेसी-267659वाई), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) मामन सिंह (सं. 14348186एफ अब जेसी-267553एम), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) नलिनी कान्तपानी (सं. 14370704डब्ल्यू अब जेसी-267660एन), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) रामशिरोमणि (सं. 1483617डब्ल्यू अब जेसी-267661डब्ल्यू), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) सन्तोष कुमार एस (सं. 14476861एन अब जेसी-267554पी), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) रामजस सिंह (सं. 14366742पी अब जेसी-267769एन), 05 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

हवलदार (क्लर्क) प्रशान्तकुमार हजारिका (सं. 14484101ए अब जेसी-267662वाई), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) सखन कुमार (सं. 14465165डब्ल्यू अब जेसी-267663एफ), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) राज बहादुर मिश्रा (सं. 14361107ए अब जेसी-267555एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) दीपचन्द (सं. 14468507के अब जेसी-267770एच), 17 फरवरी 2005/01 फरवरी 2005 \*

हवलदार (एस के टी) गंगा सागर पांडेय (सं. 14484182एल अब जेसी-267664के), 01 फरवरी 2005

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार (एस के टी) अमर प्रकाश (सं. 14484848वाई अब जेसी-267665एम), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) गुरुदियाल सिंह (सं. 14477755एफ अब जेसी-267666पी), 01 फरवरी 2005

हवलदार (एस के टी) राम पाल (सं. 14485171एल अब जेसी-267667एक्स), 01 फरवरी 2005

हवलदार (क्लर्क) स्वरूप चन्द (सं. 14352546के अब जेसी-267771एल), 01 मार्च 2005

हवलदार (क्लर्क) राजिन्दर कुमार शर्मा (सं. 14353780एम अब जेसी-267772एन), 01 मार्च 2005

हवलदार (क्लर्क) करन सिंह पुन्डोर (सं. 14470141 डब्ल्यू अब जेसी-267773 डब्ल्यू), 01 मार्च 2005

हवलदार (क्लर्क) वामन राव सिराजलाल (सं. 14354275 डब्ल्यू अब जेसी-267774 वाई), 01 मार्च 2005

हवलदार (क्लर्क) प्यारे लाल (सं. 14471032 डब्ल्यू अब जेसी-267775 एफ), 01 मार्च 2005

हवलदार (क्लर्क) मोहन सिंह (सं. 14355453 ए अब जेसी-267776 के), 01 मार्च 2005

हवलदार (क्लर्क) प्रेम सिंह (सं. 14355850 वाई अब जेसी-267777 एम), 01 मार्च 2005

हवलदार (एसकेटी) वकुल साकिया (सं. 14346486 के अब जेसी-267778 पी), 01 मार्च 2005

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) सुब्रमन्यम (सं. 14356305 एफ अब जेसी-267860 के), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (क्लर्क) वी अयप्पन (सं. 14356607 एन अब जेसी-267861 एम), 02 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

हवलदार (क्लर्क) लक्ष्मनन ऐ. सी. (सं. 14472953 एच अब जेसी-267862 पी), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (क्लर्क) भोला दत्त चाहली (सं. 14356816 एल अब जेसी-267863 एक्स), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (क्लर्क) दुर्गेस बाबु (सं. 14357522 के अब जेसी-267779 एक्स), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (क्लर्क) राधा मोहन शर्मा (सं. 14357662 डब्ल्यू अब जेसी-267864 ए), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) राकेश चन्द्र (सं. 14483986 एन अब जेसी-267865 एच), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) हुकुम सिंह (सं. 14372459 एक्स अब जेसी-267963 एच) 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) सुरेश चन्द्र (सं. 14372461 पी अब जेसी-267866 एल), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) उदय सिंह (सं. 14485296 एच अब जेसी-267867 डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2005

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार (एसकेटी) राजेन्द्र कुमार (सं. 14485316 एल अब जेसी-267964 एल), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) तरून चन्द्र दास (सं. 14353348 एल अब जेसी-267868 डब्ल्यू), 03 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

हवलदार (एसकेटी) मोहन लाल (सं. 14371691 डब्ल्यू अब जेसी-267965 एन), 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) प्रकाश (सं. 14485298 एन अब जेसी-267966 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) राज मोहन सिंह (सं. 14354030 ए अब जेसी-267869 वाई) 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) बनारसी दास (सं. 14470686 एन अब जेसी-267870 एन) 01 अप्रैल 2005

हवलदार (एसकेटी) मनफूल सिंह सहरावत (सं. 14355071 डब्ल्यू अब जेसी-267967 वाई) 04 अप्रैल 2005/01 अप्रैल 2005\*

हवलदार (क्लर्क) बाबू राम (सं. 14358799 पी अब जेसी-267871 डब्ल्यू) 01 अप्रैल 2005

हवलदार (क्लर्क) गनपती भट ए (सं. 14358923 एल अब जेसी-267968 एफ) 16 मई 2005/01 मई 2005\*

हवलदार (क्लर्क) कल्याण चन्द वर्मा (सं. 14359345 एन अब जेसी-267969 के) 01 मई 2005

हवलदार (क्लर्क) रूप सिंह राठौर (सं. 14475743 एन अब जेसी-267970 वाई) 01 मई 2005

\*(ज्येष्ठता वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) हिरेमथ गुश्लिंगप्पा (सं. 14355337 एक्स अब जेसी-267000 डब्ल्यू) 01 जुलाई 2004

हवलदार (क्लर्क) उम्नी कृष्ण पी (सं. 14475684 एम अब जेसी-267001 वाई) 01 जुलाई 2004

हवलदार (क्लर्क) रामा चन्द्रन नायरजी (सं. 14355576 एम अब जेसी-267002 एफ) 01 जुलाई 2004

हवलदार (क्लर्क) बलराज सिंह (सं. 14471501 एन अब जेसी-267003 के) 06 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) सत्यनारायन झा (सं. 14471871 एन अब जेसी-267004 एम) 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) जगन नाथ (सं. 14471993 एक्स अब जेसी-267075 एन) 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) नन्द सिंह (सं. 14356113 के अब जेसी-267005 पी) 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

हवलदार (क्लर्क) रनवीर सिंह (सं. 14472650 एन अब जेसी-267006 एक्स) 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) धीरेन्द्र कुमार भट्ट (सं. 14472661 ए अब जेसी-267007 ए) 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) रविन बनर्जी (सं. 14356644 एफ अब जेसी-267008 एच) 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) हंस राज सिंह (सं. 14370680 एक्स अब जेसी-267177 के) 06 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004\*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) गुरमीत सिंह (सं. 14370994वाई अब जेसी-267076डब्ल्यू), 02 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) रमेश सिंह करेडपा (सं. 14484043एफ अब जेसी-267009एल), 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) हिम्मत सिंह (सं. 14483990डब्ल्यू अब जेसी-267010ए), 07 अगस्त 2004/01 अगस्त 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) रविन्द्र कुमार (सं. 14371169एन अब जेसी-267077वाई), 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) नरिन्द्रजीत सिंह (सं. 14371041एच अब जेसी-267277पी), 01 अगस्त 2004

हवलदार (क्लर्क) ब्रदीप कुमार दास (सं. 14371113एफ अब जेसी-267178एम), 03 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004

हवलदार (क्लर्क) अमी चन्द (सं. 14371120एक्स अब जेसी-267078एफ), 01 सितम्बर 2004

हवलदार (क्लर्क) विनोद कुमार राय (सं. 14484173के अब जेसी-267079के), 01 सितम्बर 2004

हवलदार (क्लर्क) सन्तोष सिंह (सं. 14371167एच अब जेसी-267080वाई), 01 सितम्बर 2004

हवलदार (क्लर्क) रोटन सिंह रावत (सं. 14483581एच अब जेसी-267179पी), 01 सितम्बर 2004

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) राजवीर सिंह (सं. 14483564एच अब जेसी-267180के), 11 सितम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) अशोक कुमार (सं. 14396180एक्स अब जेसी-267278एक्स), 01 अक्टूबर 2004

हवलदार (क्लर्क) तपन आइच (सं. 14358072के अब जेसी-267394ए), 13 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) सियाराम (सं. 14483572एफ अब जेसी-267279ए), 14 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) चन्द्रवली चौबे (सं. 14353267एल अब जेसी-267181एम), 04 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) मान सिंह (सं. 14354450एम अब जेसी-267395एच), 10 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) रनवीर सिंह यादव (सं. 14354654एम अब जेसी-267280पी), 08 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) प्रदीप कुमार नरयल (सं. 14470620एक्स अब जेसी-267361पी), 12 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

हवलदार (क्लर्क) दयाल हरी पौल (सं. 14355501पी अब जेसी-267396एल), 11 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार (क्लर्क) रामधन (सं. 14472880एफ अब जेसी-267362एक्स), 01 नवम्बर 2004

हवलदार (क्लर्क) राज सिंह (सं. 14473299के अब जेसी-267397एन), 01 नवम्बर 2004

\*(नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता दी जायेगी)

नायब सूबेदार (जी डी) के पद में

हवलदार ओम प्रकाश (सं. 14396937पी अब जेसी-267483वाई), 18 सितम्बर 2004/01 मई 2004 \*

हवलदार रनबीर सिंह (सं. 15108043एल अब जेसी-267484एफ), 04 सितम्बर 2004/06 जून 2004 \*

हवलदार राजेन्द्र सिंह (सं. 14467827एम अब जेसी-267485के), 26 जुलाई 2004

हवलदार अंगद मिश्रा (सं. 14476121वाई अब जेसी-267486एम), 22 नवम्बर 2004/25 अगस्त 2004 \*

बी एच एम बी वेनूगोपाल (सं. 14468478ए अब जेसी-267487पी), 01 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

हवलदार कृष्ण लाल (सं. 14495424एच अब जेसी-267488एक्स), 17 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 \*

हवलदार परमिन्द्र सिंह (सं. 15104142डब्ल्यू अब जेसी-267489ए), 14 नवम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

हवलदार विजेन्द्र पाल सिंह (सं. 14353614वाई अब जेसी-267490पी), 16 नवम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 \*

आर एच एम तरसेम सिंह (सं. 14469404एक्स अब जेसी-267491एक्स), 12 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

बी एच एम कनकरंजन पी टी (सं. 14471370एन अब जेसी-267492ए), 02 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार राम शरन सिंह (सं. 14469851पी अब जेसी-267493एच), 16 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

हवलदार चैन सिंह (सं. 14353866एल अब जेसी-267494एल), 30 अक्टूबर 2004/28 अक्टूबर 2004 \*

आर एच एम सुभाष चन्द्र शर्मा (सं. 14496026एन अब जेसी-267495एन), 11 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 \*

बी एच एम कृष्ण गोपाल धोष (सं. 14352135एल अब जेसी-267496डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2004

बी एच एम के वेंकटरामन (सं. 14368618एम अब जेसी-267497वाई), 24 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 \*

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 14349018पी अब जेसी-267498एफ), 23 दिसम्बर 2004/17 दिसम्बर 2004 \*

बी एच एम गुरदीप सिंह (सं. 14491011एफ अब जेसी-267499के), 17 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004 *	बीएचएम राजबीर सिंह (सं. 14482672ए अब जेसी-267560एच), 29 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004 *
हवलदार जगरूप सिंह (सं. 14466655डब्ल्यू अब जेसी-267500एन), 19 नवम्बर 2004/07 अगस्त 2004 *	आरएचएम राज सिंह (सं. 14359252वाई अब जेसी-267561एल), 29 नवम्बर 2004/01 अगस्त 2004 *
हवलदार मुनी राज (सं. 14362691पी अब जेसी-267501डब्ल्यू), 19 नवम्बर 2004/07 अगस्त 2004 *	हवलदार सचेन राम (सं. 14366490एन अब जेसी-267562एन), 22 नवम्बर 2004/22 अगस्त 2004 *
हवलदार काटकर कुमार हरीबा (सं. 14483800वाई अब जेसी-267502वाई), 18 अक्टूबर 2004/23 अगस्त 2004 *	हवलदार रामधर ठाकुर (सं. 14475912के अब जेसी-267563डब्ल्यू), 19 सितम्बर 2004/25 अगस्त 2004 *
आरएचएम राजेन्द्र कुमार (सं. 14341652एच अब जेसी-267503एफ), 12 नवम्बर 2004/29 अगस्त 2004 *	हवलदार जमुना प्रसाद विश्वकर्मा (सं. 14363911ए अब जेसी-267564वाई), 14 दिसम्बर 2004/26 अगस्त 2004 *
हवलदार हरी सिंह (सं. 14350155ए अब जेसी-267504के), 16 नवम्बर 2004/30 अगस्त 2004 *	हवलदार राम फल (सं. 14340915के अब जेसी-267565एफ), 16 दिसम्बर 2004/31 अगस्त 2004 *
हवलदार दुनी चन्द (सं. 14476193एच अब जेसी-267505एम), 10 दिसम्बर 2004/31 अगस्त 2004 *	हवलदार थॉमसन वीजे (सं. 14350556पी अब जेसी-267566के), 08 नवम्बर 2004/31 अगस्त 2004 *
हवलदार बुद्ध राम (सं. 14476105एफ अब जेसी-267506पी), 09 नवम्बर 2004/01 सितम्बर 2004 *	हवलदार अनंत राम (सं. 15103564पी अब जेसी-267567एम), 17 नवम्बर 2004/08 सितम्बर 2004 *
हवलदार सरदारी लाल (सं. 14360068ए अब जेसी-267507एक्स), 11 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 *	बीएचएम रमेश चन्द्र (सं. 14484461डब्ल्यू अब जेसी-267568पी), 23 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 *
हवलदार सुरजीत सिंह (सं. 14481284डब्ल्यू अब जेसी-267508ए), 15 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 *	हवलदार के वी शंकरन (सं. 14480555डब्ल्यू अब जेसी-267569एक्स), 10 नवम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 *
आरएचएम राजवंत सिंह (सं. 14344295डब्ल्यू अब जेसी-267509एच), 21 दिसम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 *	बीएचएम बाबू लाल (सं. 14474480एन अब जेसी-267570एम), 16 दिसम्बर 2004/01 अक्टूबर 2004 *
हवलदार रामानन्द (सं. 14371572ए अब जेसी-267510एक्स), 01 नवम्बर 2004	हवलदार जी पलानीवेल (सं. 14343981एक्स अब जेसी-267571पी), 06 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 *
हवलदार धुरलोक के आर फुकौन (सं. 15112152पी अब जेसी-267511ए), 26 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 *	हवलदार नरेन्द्र सिंह (सं. 14376883एक्स अब जेसी-267572एक्स), 11 दिसम्बर 2004/01 अप्रैल 2004 *
हवलदार मिथिलेश कुमार यागीक (सं. 14365458एम अब जेसी-267512एच), 26 नवम्बर 2004/01 नवम्बर 2004 *	हवलदार गगन थापा (सं. 14348624वाई अब जेसी-267573ए), 06 सितम्बर 2004/28 मई 2004 *
बी एच एम रंजन झगटी (सं. 14471506एम अब जेसी-267513एल), 3 दिसम्बर 2004/03 नवम्बर 2004 *	हवलदार रविन्द्र ए (सं. 14486357एफ अब जेसी-267574एच), 14 अगस्त 2004/01 जून 2004 *
आर एच एम धनेश कुमार तरगी (सं. 14345286एफ अब जेसी-267514एन), 05 दिसम्बर 2004/29 नवम्बर 2004 *	आरएचएम गिरिश चन्द्र (सं. 14466381डब्ल्यू अब जेसी-267575एल), 17 जनवरी 2005/17 अगस्त 2004 *
बीएचएम सत्य रंजन पात्रा (सं. 14369695एन अब जेसी-267556ए), 08 अक्टूबर 2004/01 अप्रैल 2004 *	हवलदार लाल चन्द (सं. 14467159एफ अब जेसी-267576एन), 25 नवम्बर 2004/24 अगस्त 2004 *
हवलदार पूरन चन्द यादव (सं. 14354240ए अब जेसी-267557एच), 01 जून 2004	हवलदार कानेरकर राजाराम तुकाराम (सं. 14373579एच अब जेसी-267577डब्ल्यू), 03 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004 *
हवलदार गंगा दर्शन कुमार (सं. 14480203वाई अब जेसी-267558एल), 04 अक्टूबर 2004/01 जुलाई 2004 *	हवलदार सुखदेव पाल (सं. 14488402एफ अब जेसी-267578वाई), 01 जनवरी 2005/01 सितम्बर 2004 *
हवलदार चन्द्र भान यादव (सं. 14487046ए अब जेसी-267559एन), 22 नवम्बर 2004/19 जुलाई 2004 *	बीएचएम शारदा नन्द (सं. 14482658एन अब जेसी-267579एफ), 30 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 *

हवलदार हरी कुमार (सं. 14486452एन अब जेसी-267580डब्ल्यू),  
30 अक्टूबर 2004/01 अक्टूबर 2004 \*

आरएचएम लंगोटे पोपट प्रह्लाद (सं. 14467707एन अब जेसी-  
267581वाई), 16 जनवरी 2005/06 अक्टूबर 2004 \*

बीएचएम महेन्द्र प्रसाद (सं. 14482830के अब जेसी-267582एफ),  
01 जनवरी 2005/01 नवम्बर 2004 \*

बीएचएम नारायणन पी (सं. 14375102एम अब जेसी-267583के),  
20 जनवरी 2005/17 नवम्बर 2004 \*

हवलदार महेश चन्द शर्मा (सं. 14478177के अब जेसी-267584एम),  
17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004 \*

बीएचएम रामप्रीती सिंह यादव (सं. 14364798एच अब जेसी-  
267585पी), 17 जनवरी 2005/01 दिसम्बर 2004 \*

बीएचएम शोख महाबू सुभानी (सं. 14362581ए अब जेसी-  
267586एक्स), 01 जनवरी 2005

हवलदार रमेश चन्द्र (सं. 14391257एल अब जेसी-267587ए),  
14 जनवरी 2005/01 जनवरी 2005 \*

(\*ज्येष्ठता प्राप्त)

एम एम सिंह  
अवर सचिव

सं. 492, दिनांक 14 सितम्बर 2005--थल सेना अनुदेश 37/78 व थल  
सेना अनुदेश 11/02 द्वारा उसमें जारी संशोधनों के अन्तर्गत राष्ट्रपति, सहर्ष  
निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

सैनिक दन्त चिकित्सा कोर

(स्थाई कमीशन)

लैफ्टि. से मेजर के पद पर

डी आर-10563एन वीनूगोपाल एम जी, 21 मार्च 2005

परमजीत सिंह  
मेजर जनरल  
ए डी जी डी एस

सं. 493, दिनांक 13 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित  
अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं :--

नियमित सेना

स्थाई कमीशन

(सेना चिकित्सा कोर)

ब्रिगेडियर (व समकक्ष) से मेजर जनरल (व समकक्ष) के रैंक में

ए बी चट्टोपाध्याय (एम आर-03267ए), 02 जुलाई 2004 वेतन व पेंशन  
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 02 जून 2004 से दी जाती है।

एन के भण्डारी (एम आर-02668एच), 18 नवम्बर 2004 वेतन व पेंशन  
पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 01 अक्टूबर 2004 से दी जाती है।

एम श्रीवास्तवा (एम आर-02670ए), 01 मार्च 2005

ले. कर्नल (व समकक्ष) से ग्रुप कौंटन (व समकक्ष) रैंक में

एस एच ऐथल (एम आर-04509के) (वा. से. 26948बी), 15 नवम्बर  
2003 वेतन व पेंशन पर बिना प्रभाव डाले काल्पनिक वरीयता 19 अक्टूबर  
2003 से दी जाती है।

आर कामरान

ब्रिगेडियर

उपम.नि.स. से.चि.से. (का.)

सं. 494, दिनांक 13 सितम्बर 2005--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां  
करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले. कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समयमान द्वारा)

आई सी सं.	नाम	आर्म	सब्सर्टेक्टिव तिथि
1	2	3	4
36546एल	पी जी गोविन्दा कुमार	ए डी आर्टी	16 दिसम्बर 2004
37058पी	एच आर तिवारी	ए डी आर्टी	16 दिसम्बर 2004
30955एच	फूल सिंह	ए ई सी	16 दिसम्बर 2004
35705एल	बिरेन्द्र कुमार	ए ओ सी	16 दिसम्बर 2004
33993के	पी के अहलूवालिया	ए डी ए	16 दिसम्बर 2004
33351पी	रामदेव पिल्लई	ए ओ सी	16 दिसम्बर 2004
25117के	ए के प्रसाद	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
25603एफ	सिद्धार्थ बोस	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
27477वाई	आर के बग्गा	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
30188पी	डी के चौधरी	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
30394वाई	सुमित सेन	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
35319वाई	एन एन सिंह	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
35592एन	गुरविन्दर सिंह	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
35642एन	डीपी सिंह	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
35759एम	सुधीर सूद	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
36374एफ	अब्राहम हब्बी	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
36838एन	के वी एल नरसिम्हन	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
37272एक्स	एन्टो चावको	आर्टी	16 दिसम्बर 2004
31905के	यू एस अगाशी	ए एस सी	16 दिसम्बर 2004
36097एफ	रजिन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004

1	2	3	4	आई सी सं.	नाम	आर्म
36490के	ए बी जाधव	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004	37755	अरुल देन्नीस	इन्फैन्ट्री
36851एक्स	बी एस रावत	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004	37759	अमरदीप नारायण	इन्फैन्ट्री
37187पी	के पी एस राणा	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004	37762	तेजीन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
34656एफ	आर शर्मा	सिगनल	16 दिसम्बर 2004	37769	आर जी वेंगेल	सिगनल्स
37066एन	नरिन्द्र कुमार	सिगनल	16 दिसम्बर 2004	37782	राजीव गुप्ता	ए डी ए
31803एन	ए के तिनजानी	मैक इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004	37789	जी पी एस साहनी	इन्फैन्ट्री
33016एल	ए के पाण्डे	मैक इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004	37790	रजनीश नागपाल	ए ओ सी
37180एल	वी के एस मलिक	मैक इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004	37793	नवनीत खन्ना	जैग
25570	आर सिंह	गार्ड्स	16 दिसम्बर 2004	37805	विजय सिंह	इन्फैन्ट्री
36997	जे कुमार	सिगनल	16 दिसम्बर 2004	37811	एस टी रेड्डी	आर्टी
30224	बीएस सिन्धु	आर्टी	16 दिसम्बर 2004	37816	आर पी एस राय	ए ओ सी
31354के	भोपाल सिंह	ए सी	16 दिसम्बर 2004	37819	पाण्डे शीशीर	ए ओ सी
31397वाई	आर शर्मा	ए सी	16 दिसम्बर 2004	37828	श्री ओम सिंह	इन्फैन्ट्री
31439ए	जी एम सिंह	ए सी	16 दिसम्बर 2004	37830	राजेश सिंह	इन्फैन्ट्री
31814ए	एन रमनन	ए सी	16 दिसम्बर 2004	37833	पवन कुमार	इन्फैन्ट्री
33394के	वाई के सिंह	ए सी	16 दिसम्बर 2004	37836	एन के मोहन	आर्टी
35758के	एन चतुर्वेदी	ए सी	16 दिसम्बर 2004	37838	नरेश कुमार	ए ओ सी
37262एन	एस के चतुर्वेदी	इन्फैन्ट्री	16 दिसम्बर 2004	37840	राजेश गांगले	आर्टी
			अजय गोयल	37851	सुशील सिंह	इन्फैन्ट्री
			उप निदेशक	37853	के वी पी एस हुंडल	ए एस सी
			एम एस-8ए	37855	तिरबंत प्रसाद	जैग
//	-----			37856	एन के कोहली	जैग
	सं. 495, दिनांक 12 सितम्बर 2005-- राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--			37857	अतुल हरकौली	जैग
	नियमित सेना			37865	एस सुरेश कुमार	इन्फैन्ट्री
	स्थायी कमीशन			37868	पी एस गिल	इन्फैन्ट्री
	मेजर ले. कर्नल			37869	पी के गंजू	ए एस सी
आई सी सं.	नाम	आर्म		37879	भवानी सिंह	इन्फैन्ट्री
37736	ललित पाण्डे	मैक इन्फैन्ट्री		37882	दलीप सिंह	ए ओ सी
37738	पी के शर्मा	इन्फैन्ट्री		37885	वीरीन्द्र कुमार सैनी	आर्टी
37739	एस एस यादव	इन्फैन्ट्री		37886	अवतार सिंह	सिगनल्स
37740	अनिल पास्सी	आर्टी		37888	जोसी विनोद चन्द	इन्फैन्ट्री
37742	बलवान सिंह	इन्फैन्ट्री		37890	काश्मीर सिंह	इन्फैन्ट्री
37743	एस एस यादव	ए सी		37892	अश्विनी कुमार	आर्मी ए वी एन
37745	अरविन्द ठाकुर	ए सी		37894	दिलेश्वर नाथ	आर्टी
37746	एम एस गौर	ए एस सी		37895	हरीश जोशी	इन्फैन्ट्री
37751	के सी महाजन	ए ओ सी		37897	दिलिप प्रेम नाथ सोपोरी	इन्फैन्ट्री
37752	जी एस धनोआ	आर्टी		37907	मलूक सिंह	सिगनल्स



आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
37913	पिल्लई मार्क जैसुस एशले एरोन	इन्फैन्ट्री	39455	जी पी सिंह	ए एस सी
37930	एस के वर्मा	इन्फैन्ट्री	39457	एम एस घोरा	इन्फैन्ट्री
37931	एन कुमार	इन्फैन्ट्री	39458	ए पी देरे	ए सी
37932	एन के नारायण	इन्फैन्ट्री	39461	ए पी एस रावत	इन्फैन्ट्री
37937	एन वी रामचन्द्रा	आर्टी	39462	रनजीत सिंह	सिग्नल्स
37940	एस रमन	इन्फैन्ट्री	39464	एम एच ठाकुर	ए एस सी
37944	अरविन्द सिंह	ए एस सी	39465	ए जे एस बेदी	इन्फैन्ट्री
37947	ए रामाचन्द्रन	सिग्नल्स	39466	के बी माल	इन्फैन्ट्री
37955	रवि कांत पोपली	आर्टी	39468	एच एस भगत	इन्फैन्ट्री
37956	नवदीप माथुर	ए सी	39470	मनमोहन गुप्ता	इन्फैन्ट्री
37960	एल सेकर	ई एम ई	39471	वेंकटरामा अशोक	इन्फैन्ट्री
37962	अमरजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	39472	जे के मरवाल	इन्फैन्ट्री
37964	राजेश आनन्द	आर्टी	39476	रवि बेदी	ए सी
37966	आर के त्रिपाठी	जैग	39478	सुनील कपिल	सिग्नल्स
37968	प्रेवाल मंदीप	इन्फैन्ट्री	39480	आर एस ओजला	इन्फैन्ट्री
37969	एन सिंह	जाट	39481	एस आर चौधरी	ए ओ सी
37970	अशोक उमर चौहान	इन्फैन्ट्री	39482	पी एस राठोर	आर्टी
37977	उमर फारुक ए	सिग्नल्स	39484	हरचरण सिंह	इन्फैन्ट्री
37981	संजीव उपाध्याय	ई एम ई	39485	एस एस यादव	इन्फैन्ट्री
38851	कोहली हरवीन्दर सिंह	आर्टी	39486	शीशुपाल सिंह	इन्ट
39433	के पी भट्ट	सिग्नल्स	39488	अरुण कुमार	इंजीनियर्स
39434	एम एस कोहली	ए सी	39489	हरभोपिन्दर सिंह	ए एस सी
39435	संजीव बजाज	इंजीनियर्स	39490	वी एस शेखावत	इन्फैन्ट्री
39436	एस के सैनी	इन्फैन्ट्री	39491	अजय कुमार दास	इन्फैन्ट्री
39437	एस टी उपासनी	इन्फैन्ट्री	39492	अनिल चौहान	इन्फैन्ट्री
39438	पी सी थीम्मैया	मैक इन्फैन्ट्री	39496	सत्य पाल	इन्फैन्ट्री
39439	वी जार्ज	आर्टी	39499	महेश रामाचन्द्रन	सिग्नल्स
39440	एस एस बैस	इन्फैन्ट्री	39500	सी ए फर्नांडीस	इन्फैन्ट्री
39441	राजबीर सिंह	इन्फैन्ट्री	39501	ए पी सिंह	आर्टी
39443	एम एस खारा	आर्टी	39504	एस एस काले	इन्फैन्ट्री
39444	सी के सूद	ई एम ई	39506	एस बी सज्जन	इन्फैन्ट्री
39445	एस एस हसबनीस	इंजीनियर्स	39508	रजत जयरथ	ए डी ए
39446	के के कपूर	ए सी	39510	सुधीर लाम्बा	आर्टी
39447	जगमोहन सिंह	इन्फैन्ट्री	39512	नीरज वर्मा	आर्टी
39450	अमृतपाल सिंह	ए सी	39517	करुणाकरण गोपाल	इन्फैन्ट्री
39453	विनीश राय	मैक इन्फैन्ट्री	39518	रवि प्रसाद	ए सी
39454	एस के थापा	इन्फैन्ट्री	39521	वाई टी जैन	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
39522	जे एस नेगी	इन्फैन्ट्री	39617	पी एस संवल	इन्फैन्ट्री
39523	ए के राघवा	आर्टी	39618	सुरिन्दर कुमार	आर्टी
39525	संजय कुमार	ए डी ए	39621	आर के भारद्वाज	आर्टी
39537	एन सी मेहता	आर्टी	39625	अश्विनी गुलाटी	ई एम ई
39538	विक्रम महाजन	ई एम ई	39636	एस एस रुहिल	इन्फैन्ट्री
39545	जे के डांग	इन्फैन्ट्री	39637	सी पी सिंह	ए ओ सी
39546	हविजय सिंह	सिग्नल्स	39642	एन एम के जी नायर	इन्फैन्ट्री
39548	एस एस देओरा	इन्फैन्ट्री	39643	राजीव एडवर्ड्स	ए सी
39550	नूतन परभात	सिग्नल्स	39646	सनल कुमार एन	इन्फैन्ट्री
39555	के जगन्नाथन	ए डी ए	39650	रोमेश घई	इन्फैन्ट्री
39556	कैवर जगमोहनजीत सिंह	आर्टी	39653	दीपक अरोरा	आर्टी
39557	पुरुषोत्तम सिंह	जाट	39655	जुनेजा हेमन्त	इन्फैन्ट्री
39560	वी एस वर्मा	इन्फैन्ट्री	39656	शर्मा दिनेश	इन्फैन्ट्री
39562	एस पी अहलावत	इन्फैन्ट्री	39661	एस पी कुलकर्णी	इन्फैन्ट्री
39565	विनोद पंत	सिग्नल्स	39665	करुणाकरण पी	ईन्ट
39566	गुप्रीत मंगत	इंजीनियर्स	39666	एस सी पाठक	इन्फैन्ट्री
39569	पी आर एस चौधरी	आर्टी	39669	एच पी एस पाल	इन्फैन्ट्री
39570	आर एन पाण्डे	आर्टी	39673	जे एस यादव	ए सी
39575	एस एस हंसरा	इन्फैन्ट्री	39675	विजय सिंह	इन्फैन्ट्री
39577	हरिहरन रवि	सिग्नल्स	39676	डी वी एस राणा	इन्फैन्ट्री
39579	राजीव चोपरा	आर्टी	39678	शोम बिश्वजीत	आर्टी
39581	बलराज सिंह	इंजीनियर्स	39681	के ए मोहन	पैरा
39583	जे एन नायर	ई एम ई	39682	एस के सिंह	आर्टी
39590	हरीश टुकराल	इन्फैन्ट्री	39683	बलविन्दर सिंह	ए एस सी
39591	सुनील कुमार	आर्टी	39693	राकेश हुरा	इन्फैन्ट्री
39594	जे आर चन्द्रा	इन्फैन्ट्री	39696	जे टी चाको	ए ओ सी
39596	पी एस नरवाल	इंजीनियर्स	39698	राजीव नाथ सिंह	इन्फैन्ट्री
39598	जी जयशंकर	इन्फैन्ट्री	39700	असिफ हुसैन	आर्टी
39600	एस सी डब्ल्यू घाटपाण्डे	इन्फैन्ट्री	39709	एस एस सलूजा	ए ओ सी
39603	जे एस पठानिया	ए ओ सी	39739	आर श्रीवास्तव	आर्टी
39604	अस्थाना अमूल	इन्फैन्ट्री	39747	पाठक गौतम	इन्फैन्ट्री
39605	एस एस चिल्लर	आर्टी	39751	हरपाल सिंह	ए सी
39606	राजीव छिब	ए सी	39756	नरेन्द्र पाल सिंह	ए ओ सी
39607	आई एस घुमान	इन्फैन्ट्री	39769	आर डी वील्लीवलम	इन्फैन्ट्री
39608	एन के भाटिया	ईन्ट	39775	एस श्रीनिवासन	ई एम ई
39609	ओहरी अजय	इन्फैन्ट्री	39780	के के पंत	इन्फैन्ट्री
39616	आर के गुप्ता	ए डी ए	39820	एम के भारद्वाज	ई एम ई

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
39864	वी डी डोगरा	ए सी	39959	कवलजीत सिंह	आर्टी
39865	माइकल मेथ्यूस	इंजीनियर्स	39965	बिजय मुखर्जी	इन्फैन्ट्री
39867	अतुल श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री	39966	वी एस रंधावा	ई एम ई
39868	सुनील श्रीवास्तव	आर्टी	39967	पंकज मेहरोत्रा	ए डी ए
39869	ए के अहुजा	इन्फैन्ट्री	39968	सी के रमेश	इन्फैन्ट्री
39870	एस के माथुर	ई एम ई	39970	आपटे संदीप	आर्टी
39871	एस के उपाध्याय	इन्फैन्ट्री	39971	चमकौर सिंह	ए एस सी
39872	अनिल कपूर	ई एम ई	39972	ए माथुर	इन्फैन्ट्री
39874	तरनजीत सिंह	ए सी	39975	के वी कुबेर	सिग्नल्स
39875	जी एस बैस	पैरा	39977	एन श्रीनिवास रॉव	आर्टी
39876	एस डी एस हायर	ए सी	39980	डी एस कलेर	इन्फैन्ट्री
39879	ए के धर	पैरा	39988	एम के यादव	इन्फैन्ट्री
39883	विक्रम तिवतिया	सिग्नल्स	39990	अश्विनी सिंधवानी	ए डी ए
39885	एच के कालरा	इन्फैन्ट्री	39992	अनूप कुमार वी	इन्फैन्ट्री
39888	अश्विनी शर्मा	ई एम ई	39993	वरघीश पॉल	इन्फैन्ट्री
39894	कवलजीत सिंह	आर्टी	39995	एस एस ममक	आर्टी
39896	डी एस बिष्ट	इन्फैन्ट्री	39996	सभरवाल राजीव	सिग्नल्स
39897	बी बी वत्स	इन्फैन्ट्री	39998	वी के जैसवाल	इन्फैन्ट्री
39898	डी एस अहुजा	इंजीनियर्स	40000	एच एस रत्नपारखी	इन्फैन्ट्री
39904	एन एन सिंह	इन्फैन्ट्री	40001	एच एस राय	इन्फैन्ट्री
39906	मेहरोत्रा अक्षय	आर्टी	40003	संदीपन हांडा	आर्मी ए वी एन
39909	पी एस संधू	इन्फैन्ट्री	40004	पी एस संधू	इन्फैन्ट्री
39910	सी रामाचन्द्रन	इन्फैन्ट्री	40005	जे के बंसल	सिग्नल्स
39911	अनिल सफत	ए डी ए	40007	वाई वी के मोहन	इन्फैन्ट्री
39915	अमरजीत भारद्वाज	ए सी	40008	एस बी सिंह	आर्टी
39919	ए के शर्मा	इन्फैन्ट्री	40009	एस पी महुला	ए डी ए
39920	कोटनाला प्रदीप	इन्फैन्ट्री	40010	आर वी अथावले	ए सी
39921	के एस शाजी	इन्फैन्ट्री	40012	अमरदीप सिंह	ए एस सी
39922	पी सक्सेना	इन्फैन्ट्री	40013	ए के ठाकुर	आर्टी
39924	गुरुचरण सिंह	इन्फैन्ट्री	40014	अजय सिंह	ए सी
39927	प्रदीप कटोच	इन्फैन्ट्री	40019	ए के शर्मा	ए डी ए
39929	सरनजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	40022	ए के भट्ट	इन्फैन्ट्री
39930	वी पी एस भकुनी	इन्फैन्ट्री	40025	आर एस गिरि	ए ओ सी
39940	जगतबीर सिंह	ए सी	40028	एस पी एस कोहली	इंजीनियर्स
39943	अजय वाधवा	इंजीनियर्स	40030	के एस सेल्वन	इन्फैन्ट्री
39950	एस सी वर्मा	आर्टी	40031	संजीव कनल	आर्टी
39956	जी एस संघा	इन्फैन्ट्री	40032	ए एस चन्धोक	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
40033	सभरवाल शम्मी	आर्टी	40180	प्रदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
40035	एन बी थापा	इन्फैन्ट्री	40186	टी के सचदेव	आर्टी
40039	ए के मानराय	ए ओ सी	40189	कुमार डी रंजीत	ए डी ए
40040	खरे मुकुल	आर्टी	40198	प्रकाश तिवारी	इन्फैन्ट्री
40046	तरा चन्द	इन्फैन्ट्री	40202	एस के सिंह	इन्फैन्ट्री
40060	गुरीन्दर जीत सिंह	आर्टी	40206	संजय कॉल	इन्फैन्ट्री
40064	वी सी चित्रे	आर्टी	40216	जी एस तलवार	आर्टी
40073	वेद प्रकाश	इन्फैन्ट्री	40232	कुमार कांत	इन्फैन्ट्री
40074	दीपक बिष्ट	इन्फैन्ट्री	40238	यू सी ददवाल	इन्फैन्ट्री
40076	ए एस ओबराय	इन्फैन्ट्री	40240	वी नांगिया	इन्फैन्ट्री
40078	ए एस सिद्धू	आर्मी ए बी एन	40242	पी पी सिंह	इन्फैन्ट्री
40082	ए एस घुमान	इन्फैन्ट्री	40244	एस गोपालन	इन्फैन्ट्री
40083	बी रामाचन्द्रन	आर्टी	40257	एस के छाबरा	ए एस सी
40088	ए एस परमार	आर्टी	40290	बिपिन बक्शी	इन्जीनियर्स
40090	बिजय कुमार	ए सी	40291	आशीष उप्पल	आर्टी
40091	एम डी सिंह	इन्फैन्ट्री	40293	ए एस कलेर	ए सी
40094	मन्दीप सिंह	आर्टी	40294	आर बी गुप्ता	इन्जीनियर्स
40096	एम एम हुसैन	आर्टी	40295	ए के सपरा	इन्जीनियर्स
40097	राजन कोचर	ए ओ सी	40297	डी एस चौहान	ई एम ई
40098	दुष्यंत सिंह	इन्फैन्ट्री	40298	ए अनिल	इन्फैन्ट्री
40099	गिरीश गोगिआ	इन्फैन्ट्री	40299	संजय वर्मा	ई एम ई
40101	आर के जग्गा	ए सी	40302	आर पी सिंह	इन्फैन्ट्री
40102	बी एस चीमा	आर्टी	40303	एम पी एस मेंडोनका	आर्टी
40106	अनिल शर्मा	इन्फैन्ट्री	40304	राजेश अहुजा	इन्फैन्ट्री
40115	अरविन्द सेठी	इन्फैन्ट्री	40306	सुनील गुप्ता	ई एम ई
40120	कुलवीन्दरसिंह	आर्टी	40307	शेखर संजीव	इन्जीनियर्स
40125	ए एस नीज्जर	इन्फैन्ट्री	40308	एस के सक्सेना	सिग्नल्स
40133	एस सी मेसटॉन	इन्फैन्ट्री	40311	राजेश चोपरा	इन्फैन्ट्री
40136	अमित शर्मा	इन्फैन्ट्री	40312	ए ए महमूद	ए सी
40139	देशबीर सिंह	आर्टी	40313	एच एस झा	इन्फैन्ट्री
40140	आर एस घुमान	इन्फैन्ट्री	40314	पी मोहंती	इन्फैन्ट्री
40144	आर पी जोशी	इन्फैन्ट्री	40315	प्रेम प्रकाश	इन्फैन्ट्री
40151	रंजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	40319	ए के चुग	सिग्नल्स
40156	संदीप शर्मा	सिग्नल्स	40320	शंकर प्रसाद	आर्टी
40158	अनुज कौथला	इन्फैन्ट्री	40324	आर के सिंह	पैरा
40164	एम एल एन श्रवन कुमार	आर्टी	40326	अनिल पाण्डे	इन्फैन्ट्री
40167	डी एस ग्रेवाल	इन्फैन्ट्री	40328	निलेन्दर कुमार	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
40329	प्रतापसिंह	सिग्नल्स	40405	एस एस ओलख	ए डी ए
40330	एस एम सिंह	इन्फैन्ट्री	40406	नंदराज लामा	इन्फैन्ट्री
40331	एस सी शरन	आर्टी	40407	ए के अग्रवाल	इन्फैन्ट्री
40332	आर डी मुद्गिल	ए डी ए	40408	सी मनी	सिग्नल्स
40335	अशुन बहल	इन्जीनियर्स	40411	मेथिल श्रीकुमार	सिग्नल्स
40339	वाई के कटोच	इन्फैन्ट्री	40412	सुबोध कुमार	ए डी ए
40340	डेवीस पी पी	ए डी ए	40416	धीरेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
40343	संजीव धर	ए सी	40421	एस के भनोत	इन्फैन्ट्री
40345	लक्ष्मी नारायण	इन्फैन्ट्री	40422	नवतेज सिंह	इन्फैन्ट्री
40346	चन्द्रहास भारती	इन्जीनियर्स	40425	आर के रंजन	आर्टी
40347	ए एन गुडडी	सिग्नल्स	40426	आशुतोष झा	ए डी ए
40348	पंकज अवस्थी	पैरा	40428	एस एस रत्नापारखी	इन्फैन्ट्री
40352	राकेश अरोरा	इन्फैन्ट्री	40429	एस एस जोशी	इन्फैन्ट्री
40353	परमजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	40434	एम एस धानोआ	इन्फैन्ट्री
40355	अशोक चौहान	इन्फैन्ट्री	40435	जी वी जी प्रसाद	आर्टी
40359	ए के गोयल	इन्फैन्ट्री	40438	जी एन पुरन्द्रे	सिग्नल्स
40360	असीत बी मिस्त्री	इन्फैन्ट्री	40442	आर बाली	मैक इन्फैन्ट्री
40362	ओ पी सिंह	इन्फैन्ट्री	40446	एच एस फौजदार	इन्फैन्ट्री
40363	जे जी नरीमपरामबिल	इन्फैन्ट्री	40448	एस एस नेगी	ए एस सी
40364	गजेन्द्र प्रसाद	इन्फैन्ट्री	40471	मुकेश कुमार	इन्फैन्ट्री
40366	आनंद सिंह	इन्फैन्ट्री	40476	अशोक गहलोथ	इन्फैन्ट्री
40367	दलजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	40478	पी एम रथ	आर्टी
40371	प्रदीप कुमार	आर्टी	40487	वी एस धिमान	ए डी ए
40373	कवलजीत सिंह	ए डी ए	40489	ए एस अहलुवालिया	ए ओ सी
40377	नीरज सूरी	ए सी	40490	चन्दन कुमार	इन्जीनियर्स
40378	बी बी रॉव	इन्जीनियर्स	40500	वाई के जोशी	इन्जीनियर्स
40380	के जे एस गिल	इन्फैन्ट्री	40506	जी एन गोस्वामी	ए एस सी
40381	ए विजित मिश्रा	इन्फैन्ट्री	40508	संतोष कुमार साहनी	इन्फैन्ट्री
40382	अरविन्द दत्ता	इन्फैन्ट्री	40513	वारीन्दर सिंह	ए एस सी
40384	जार्ज जैकब	इन्फैन्ट्री	40514	आर एस घनवत	सिग्नल्स
40385	के बी के केशव	इन्फैन्ट्री	40515	सुबोध कुमार	इन्फैन्ट्री
40389	एन के एस तोमर	मैक इन्फैन्ट्री	40516	बी पी भारद्वाज	इन्फैन्ट्री
40393	जे के शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री	40517	संदीप काला	इन्फैन्ट्री
40394	बिनीत बालिया	इन्फैन्ट्री	40519	बी बी सिंह	सिग्नल्स
40395	एन बलन	इन्फैन्ट्री	40527	ए जे एस बाजवा	मैक इन्फैन्ट्री
40400	कृष्णा मेनन	इन्फैन्ट्री	40530	गुरुमीत सिंह	इन्फैन्ट्री
40403	संतोष कुमार	इन्फैन्ट्री	40531	एस एस राय	इन्जीनियर्स

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
40534	मिर्चिंद एन भुरके	सिग्नल्स	40704	राना गजराज सिंह	ई एम ई
40538	एस एस ठाकुर	ई एम ई	40707	डी एस गिल्ल	आर्टी
40545	ए के गेरा	इन्फैन्ट्री	40709	अजय अहलुवालिया	इंजीनियर्स
40548	सोबन सिंह	इन्फैन्ट्री	40710	सुरेन्द्र मेहता	इन्फैन्ट्री
40550	तेजेन्द्र पाल सिंह	ए एस सी	40711	टी सी मेथ्यू	इन्जीनियर्स
40561	एम टी ऑगस्टाइन	आर्टी	40713	कुलदीप मेहता	इन्फैन्ट्री
40564	डी के बिशनोई	इन्फैन्ट्री	40714	बी जी गिलगाची	सिग्नल्स
40567	अग्नि कुमार सिंह	ए एस सी	40715	आर एस राथोड़	इन्फैन्ट्री
40568	यू कदूंकुरी	आर्टी	40716	एम सी पाण्डे	इन्जीनियर्स
40574	हितेश कुमार लव	इन्फैन्ट्री	40717	संदीप धवन	इन्फैन्ट्री
40585	एल के मताई	मैक इन्फैन्ट्री	40720	संदीप शर्मा	इन्फैन्ट्री
40590	जुगेश चौधरी	सिग्नल्स	40721	प्रीथी सिंह	इन्फैन्ट्री
40597	विष्णु गुप्ता	ए एस सी	40722	कुलप्रीत सिंह	ए सी
40599	एस जेसफ	आर्टी	40724	आर एस पठानिया	इन्जीनियर्स
40600	वाई एस कुमार	आर्टी	40727	आर के चौधरी	सिग्नल्स
40615	आशोक मग्गु	इन्जीनियर्स	40729	डी जे एस काटकर	मैक इन्फैन्ट्री
40623	पी के सिंह	आर्टी	40732	सूर दशरथ	इन्फैन्ट्री
40638	राजेन्द्र कौल	इन्फैन्ट्री	40735	एम एस सलारिआ	इन्फैन्ट्री
40679	ए के सान्याल	ए सी	40736	एम के मुखर्जी	आर्टी
40680	पी नागेश रॉव	इन्फैन्ट्री	40741	बी एस संधू	इन्फैन्ट्री
40682	ए एस कार्की	मैक इन्फैन्ट्री	40742	विजय रावत	ई एम ई
40683	एस पी यादव	ई एम ई	40744	संदीप थापर	इन्फैन्ट्री
40684	संजीव सेहगल	इन्जीनियर्स	40746	के ए चिनप्पा	मैक इन्फैन्ट्री
40685	राज शुक्ला	आर्टी	40748	एच के अरोरा	इन्जीनियर्स
40686	के ए वी भास्कर	इन्जीनियर्स	40750	श्रीनिवासन एम	इन्जीनियर्स
40688	आर वी सिंह	इन्फैन्ट्री	40752	दीपक सैनी	आर्टी
40689	आर एस कोच्चर	ई एम ई	40753	एम जे एस कहलोन	ए सी
40691	अजय शर्मा	इन्जीनियर्स	40755	शशांक प्रताप	इन्फैन्ट्री
40692	एस वैधनयगम	मैक इन्फैन्ट्री	40757	विकल साहनी	इन्फैन्ट्री
40693	एस के पानीगराही	आर्टी	40760	वी एस श्रीनिवास	इन्फैन्ट्री
40694	राम अवतार	इन्फैन्ट्री	40761	गौतम शौनिक	ए सी
40695	जे एस बिरक	ए सी	40763	भूपिन्दर सिंह	सिग्नल्स
40699	केमराज सीताराम	इन्जीनियर्स	40764	रवि मेनोन	आर्टी
40700	संजय थापा	आर्टी	40769	एम जी हरिमोहन	आर्टी
40701	के एस शेखावत	आर्मी ए वी एन	40772	सैयद अजीमुद्दीन	इन्फैन्ट्री
40702	ए तन्वार	मैक इन्फैन्ट्री	40773	नरेश रजोरा	इन्फैन्ट्री
40703	हरपाल सिंह	इन्जीनियर्स	40777	एम एस जसवाल	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
40778	बलबीर सिंह	इन्फैन्ट्री	40852	बी भट्टाचार्य	इन्जीनियर्स
40779	सुरेश कुमार	ए एस सी	40853	सुबीर चक्रवर्ती	ए एस सी
40781	एस एस चौहान	इन्फैन्ट्री	40854	आर एस भाटिया	ए सी
40782	एम एस मान	इन्फैन्ट्री	40861	संजय प्रसाद	ई एम ई
40783	पी के एच पिंघले	इन्फैन्ट्री	40862	ए एस रावत	इन्फैन्ट्री
40787	आर के सुब्रामनी	ई एम ई	40864	एस डी वजे	इन्फैन्ट्री
40792	डी ए चतुर्वेदी	इन्फैन्ट्री	40867	के जे एस धालीवाल	ए डी ए
40794	वी एस नारंग	सिग्नल्स	40871	सुरेश चन्द्र	इन्फैन्ट्री
40795	संजीव नारायण	इन्फैन्ट्री	40873	आर नागराज	सिग्नल्स
40796	आर पी एस संधू	इन्फैन्ट्री	40874	डी वी राजू	इन्फैन्ट्री
40798	के पी आर हरि	इन्फैन्ट्री	40876	शरभ पचौरी	इन्फैन्ट्री
40800	वी डी अब्राहम	ई एम ई	40880	राजेश दिक्षित	सिग्नल्स
40802	राजीव घई	ई एम ई	40882	जे के तिवारी	इन्फैन्ट्री
40804	दिग विजय सेतिआ	इन्जीनियर्स	40884	ए एस हरगे	इन्फैन्ट्री
40805	जी एम सनकर	आर्टी	40885	आर सी वरगीश	इन्जीनियर्स
40806	आई जे एस हुडल	ए डी ए	40887	टी एस संधू	ए सी
40807	जी के शर्मा	इन्फैन्ट्री	40889	एन के उन्नी	सिग्नल्स
40811	एस जे चितले	इन्जीनियर्स	40894	वीरेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
40812	पी एम वत्स	मैक इन्फैन्ट्री	40900	ए के माल	आर्टी
40813	मनदीप सिंह	ए डी ए	40901	केविन मेंडोन्का	ए एस सी
40815	अनूप भास्कर	सिग्नल्स	40904	के एस निज्जर	आर्टी
40818	आर एस मान	मैक इन्फैन्ट्री	40906	नन्द कुमार राजा	इन्फैन्ट्री
40819	आर के चोपरा	सिग्नल्स	40909	नीलेश लाल	ए सी
40822	एस रामाकृष्णन	सिग्नल्स	40918	बद्री विट्टल	इन्जीनियर्स
40824	अजय सेठ	इन्फैन्ट्री	40923	विजय कोहली	आर्टी
40825	जे एस रांगरा	इन्फैन्ट्री	40926	एस एल जागीड	ए एस सी
40826	एस के तिवारी	इन्जीनियर्स	40933	एम विनय चन्द्रन	इन्फैन्ट्री
40833	नवनीत मित्तल	इन्जीनियर्स	40934	ए के शर्मा	इन्फैन्ट्री
40835	रमन भाटिया	इन्फैन्ट्री	40936	एन पी चन्द्रन	ए एस सी
40836	सौमित्रा मुखर्जी	आर्टी	40952	के डी प्रसाद	इन्फैन्ट्री
40837	दिपेन्द्र सरीन	इन्फैन्ट्री	40958	आर के शर्मा	इन्जीनियर्स
40838	बी पटनायक	इन्फैन्ट्री	40963	अमिताभ अमित	इन्फैन्ट्री
40841	ए ए भट	सिग्नल्स	40966	शचिन सुरी	ए डी ए
40844	एम एम नेहरू	इन्फैन्ट्री	40968	वाई एस राणा	ए डी ए
40847	राजीव सेठी	आर्टी	40974	पी पी सिंह	ए एस सी
40849	परमीन्दर सिंह	ए सी	40977	एस एस डिल्लन	ई एम ई
40851	आर के नायर	आर्टी	40981	नरीन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
40982	जी एस ओल	आर्टी	41131	प्रेम प्रसाद मल्होत्रा	इन्जीनियर्स
41004	रमन मनहास	इन्फैन्ट्री	41133	रविन्द्रनाथ तिवारी	इन्जीनियर्स
41005	पी सी पटनायक	आर्टी	41135	सुनील बी बोधे	इन्फैन्ट्री
41007	नितिन कुमार	इन्फैन्ट्री	41137	अजय कुमार दत्ता	ए एस सी
41024	सी जी नन्दानन	इन्फैन्ट्री	41139	महेश मूलरी	सिगनल्स
41025	टी एस अनन्था नारायणन	ई एम ई	41141	अशोक कुमार नरूला	इन्फैन्ट्री
41034	वाई बी आर विजय	ई एम ई	41144	शैलेन्द्र सिंह नेगी	ए एस सी
41041	पुनम बाली	एम एफ	41145	अखलेश भार्गव	ए डी ए
41066	जगबीर सिंह धुल्ल	ई एम ई	41147	मलय शंकर काला	ए डी ए
41067	जय सिंह नैन	इन्फैन्ट्री	41148	भारत भूषन पाण्डेय	ए सी
41068	अनिल चौधरी	मैक इन्फैन्ट्री	41154	आलोक राज गोयल	इन्फैन्ट्री
41069	सुनील सिंह सुहाग	ई एम ई	41155	शम्भू प्रसाद मेहता	आर्टी
41072	राजीव सिरौही	इन्फैन्ट्री	41156	राम गोपाल राम तिवारी	आर्टी
41073	हरिन्द्र सिंह चहल	ए सी	41159	सुहास शंकरप्पा जाटकर	ई एम ई
41074	मनोहर लाल गुप्ता	मैक इन्फैन्ट्री	41161	हरबीर सिंह बाच्चल	ई एम ई
41075	सुभद्रा बनेर्जी	इन्जीनियर्स	41165	टनिल कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
41080	गोपाल गुरुंग	इन्फैन्ट्री	41166	सतीन्द्र सिंह	ए डी ए
41081	संजीव गोविला	ई एम ई	41169	एस के गरोवर	इन्जीनियर्स
41083	अमर दीप सिंह भिन्डर	ए सी	41170	विवेक कुमार पंडित	इन्फैन्ट्री
41087	शशि शेखर प्रसाद	इन्फैन्ट्री	41175	ए वी कृष्ण	इन्जीनियर्स
41088	मोहित बावा	ए सी	41185	संजीव जैन	इन्जीनियर्स
41089	रमेश कुमार रैना	इन्फैन्ट्री	41196	सुधाकर जी	इन्फैन्ट्री
41091	शशिक शेखर मिश्रा	इन्फैन्ट्री	41203	प्रफुल्ला चन्द्रक पुस्टी	ए सी
41093	जोय डेनिएल	आर्टी	41206	विनोद कुमार	इन्फैन्ट्री
41102	जारकेन गमलिन	इन्फैन्ट्री	41207	अश्विनी वर्मा	इन्जीनियर्स
41104	ए के मित्रा	इन्जीनियर्स	41211	मोथी जार्ज जेकब	ए डी ए
41105	इन्दीवर सूद	इन्जीनियर्स	41212	देवीन्द्र सिंह	सिगनल्स
41107	के टी श्रीकुमार	सिगनल्स	41218	संजीव वी भोइटे	इन्फैन्ट्री
41110	अतुल मिश्रा	आर्टी	41219	के नन्दकुमारन	इन्फैन्ट्री
41111	एनईडरुउ अंगेलो फरनंडेस	ए सी	41220	राजीव साहनी	इन्जीनियर्स
41117	गनेश सिंह बिष्ट	इन्फैन्ट्री	41223	रविन्द्र सिंह रावत	इन्फैन्ट्री
41119	सुनील कुमार अग्रवाल	सिगनल्स	41224	गुरीन्द्र पाल सिंह संधू	इन्फैन्ट्री
41121	राज कुमार शर्मा	आर्टी	41225	नीरज पारशा	इन्जीनियर्स
41123	जीवान किशोर सताठय	इन्जीनियर्स	41228	अतानू कुमार पटनायक	आर्टी
41125	विश्वनाथ दाबर	इन्जीनियर्स	41230	सुनील दत्त मेहता	इन्फैन्ट्री
41126	राजेश किशोर ठाकुर	ए डी ए	41239	वीरेन्द्र सिंह कटारिया	इन्जीनियर्स
41128	पुष्कर हिनेश	इन्फैन्ट्री	41240	संजीव कुमार	इन्जीनियर्स



आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
41245	भरत मलिक	इन्जीनियर्स	41471	सुरिन्द्र कुमार पराशर	इन्फैन्ट्री
41246	सतीश कुमार दत्ता	आर्टी	41473	कंचेल राजाशेखर	ए सी
41249	टालोक मूद	इन्जीनियर्स	41475	नवीन कुमार ऐरी	इन्फैन्ट्री
41251	सुधांशु वर्मा	इन्फैन्ट्री	41476	अशोक कुमार द्वीगरा	इन्फैन्ट्री
41253	सुरेन्द्रा सिंह	आर्टी	41477	अर्जुन रावत	इन्जीनियर्स
41256	एसुलरी सेश साई	आर्टी	41478	तिनेकर शैलेश सदाशिव	इन्फैन्ट्री
41257	सोम प्रकाश शर्मा	इन्फैन्ट्री	41479	संजीव सोदी	सिग्नल्स
41259	नवल कोहली	ए एस सी	41481	तरुनदीप कुमार	ए सी
41260	अनन्त वसंत तालपल्लीकर	सिग्नल्स	41483	राजीव नारसिंह राव यादव	इन्जीनियर्स
41266	मोहम्मद हैदर रिजवी	इन्जीनियर्स	41484	विकास गर्ग	मैक इन्फैन्ट्री
41271	संजय मल्होत्रा	ए डी ए	41485	संजय सांगवान	ए सी
41273	येयोला श्रीनिवास राव	ए डी ए	41486	मधुसुदन दवे	इन्जीनियर्स
41289	विवेक काशीनाथ छात्रे	आर्टी	41488	रजीव चौधरी	इन्जीनियर्स
41299	पत्री गोपाल कृष्ण	इन्फैन्ट्री	41491	सतपाल अहलावत	इन्जीनियर्स
41320	दलजीत सिंह रुप्ल	इन्फैन्ट्री	41492	कीस्टोफर कोरिया	इन्फैन्ट्री
41321	सुनील गोयल	आर्टी	41493	शिरीश कुमार जे धोबले	आर्टी
41323	संजय साह	इन्फैन्ट्री	41495	नव कुमार खांडुरी	ए डी ए
41326	एन्ना राव वेसंगी	आर्टी	41497	अनिल चौधरी	सिग्नल्स
41330	कमलेश चन्द्र बहुगुना	इन्फैन्ट्री	41498	सोमनाथ बनर्जी	ए डी ए
41367	उदय सिंह	आर्टी	41499	कंवल राजीव आनन्द	सिग्नल्स
41374	बिक्रम सिंह	आर्टी	41501	रणजीत घोष	ई एम ई
41411	चन्दर बल्लभ शर्मा	इन्फैन्ट्री	41505	बलराम सिंह	इन्जीनियर्स
41413	रोहित शुक्ला	आर्टी	41507	अरविन्द कपूर	इन्फैन्ट्री
41419	सुनील खोसला	ए एस सी	41508	जयदीप सेनगुप्ता	इन्फैन्ट्री
41437	रबी शंकर शर्मा	इन्जीनियर्स	41509	कनवल जीत सिंह ढिल्लन	इन्फैन्ट्री
41439	मधुसूदन वाधवा	ई एम ई	41510	रामेश कुमार डंडरीयल	इन्जीनियर्स
41442	ताजबर सिंह नेगी	सिग्नल्स	41511	मोहन जीत सिंह सयली	ई एम ई
41444	अशित कुमार बिश्वास	इन्जीनियर्स	41517	रिचार्ड सुन्दरम	सिग्नल्स
41445	भूपिन्दर सिंह	इन्जीनियर्स	41518	दया चन्द	इन्फैन्ट्री
41456	राकेश कुमार आनन्द	सिग्नल्स	41520	प्रदीप अरोरा	सिग्नल्स
41461	योगेन्द्र डिमरी	इन्जीनियर्स	41524	श्याम सुन्दर शर्मा	ई एम ई
41463	पवन आनन्द	इन्जीनियर्स	41528	हरिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
41464	तेजपाल सिंह रावत	इन्जीनियर्स	41529	नीरज कपूर	ए सी
41465	अजय सिंह	ए सी	41530	मनदीप सिंह	आर्टी
41466	मुकेश के दत्ता	ई एम ई	41541	अशोक कुमार अरोरा	इन्फैन्ट्री
41469	विनोद कुमार बिष्ट	ई एम ई	41544	दीपक	आर्टी
41470	वीरेन्द्रा सिंह	इन्फैन्ट्री	41546	गुलजीत सिंह सरोया	सिग्नल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
41548	समीर मान सिंह	इन्जीनियर्स	41639	विजय कुमार	ए डी ए
41549	अनुराग भासीन	इन्जीनियर्स	41641	सुभाष दीक्षित	आर्टी
41551	त्रिभुवन चन्द्र यूनियल	ए एस सी	41646	नवीन कुमार खजुरिआ	ई एम ई
41553	श्रीनिवास राय	इन्जीनियर्स	41649	बलविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
41554	देबाशीश मित्रा	ए डी ए	41651	शुम्मला साम्बया	इन्फैन्ट्री
41555	पमोलपति विश्व मोहन	आर्टी	41652	विरिन्दर सिंह	आर्टी
41556	राकेश कुमार राणा	ई एम ई	41659	प्रदीप कुमार	आर्टी
41557	राजकुमार भट्ट	आर्टी	41662	अतुल नन्दा	ए सी
41563	वी के शर्मा	ई एम ई	41664	रमीन्दर चिमणी	ए सी
41564	अनुज भल्ला	इन्फैन्ट्री	41665	हेमंत भारद्वाज	इन्जीनियर्स
41565	दिलिप बनर्जी	इन्जीनियर्स	41668	अशीम कुमार कोहली	आर्टी
41566	विवेक कृष्ण सिंह	ए सी	41672	संजीव कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री
41567	रमेन्द्रा नारायण घोष	आर्टी	41683	राकेश बन्धु	इन्फैन्ट्री
41570	राकेश कुमार द्विवेदी	इन्फैन्ट्री	41686	इन्दर पाल सिंह रेखी	इन्जीनियर्स
41573	प्रबीर सेनगुप्ता	इन्फैन्ट्री	41688	गोपाल शरण शर्मा	ए डी ए
41582	लेफाकपम ईवटोवी सिंह	इन्फैन्ट्री	41695	पंकज कुमार नैथानी	इन्जीनियर्स
41583	मंजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	41696	राजेन्द्र कुमार हौड़ा	आर्टी
41585	महादेवन कृष्ण कुमार अय्यर	ए डी ए	41698	चंडी राणा दलाल	ए एस सी
41587	दिनेश लाल चन्दानी	ई एम ई	41701	अजय गुप्ता	आर्टी
41592	संजीव जसवाल	सिग्नल्स	41702	मरधानी लक्ष्मी मोहन बाबू	आर्टी
41594	पृथ्वीराज	आर्टी	41704	एम के अजीत कुमार	इन्फैन्ट्री
41595	मनोज कुमार सिंह यादव	ए एस सी	41717	प्रदीप सिंह बैस	इन्फैन्ट्री
41597	भास्कर भूषण चौहान	आर्टी	41720	सुधीर कुमार भोला	ई एम ई
41598	एस जगपाल	आर्टी	41722	संजय शर्मा	आर्टी
41602	कैलाश चन्द्र दिक्षित	सिग्नल्स	41732	नवनीत कुमार घई	ई एम ई
41603	बिजु एम थॉमस	आर्टी	41738	जसदीप सिंह	ए एस सी
41604	रोय ए योसेफ	आर्टी	41741	संतोष कुमार कुरूप	इन्फैन्ट्री
41610	मनोज ऋषि	इन्जीनियर्स	41742	विनोद शर्मा	ए सी
41613	संजय कुमार आचार्य	इन्फैन्ट्री	41752	परमजीत सिंह	आर्टी
41620	दिनेश कुमार दास	ए डी ए	41755	रजनीश शर्मा	इन्फैन्ट्री
41623	कविनकल सत्यनारायण	सिग्नल्स	41758	राजेश्वर सिंह ठाकुर	इन्फैन्ट्री
41624	हरमीत सिंह छटवल	ए सी	41760	इकबाल सिंह	ई एम ई
41625	बिश्वाजीत मुखर्जी	ई एम ई	41762	गोविन्द मुरली	आर्टी
41628	गंगाधरण वेनु	इन्फैन्ट्री	41765	अश्वनी कपूर	आर्टी
41629	असण सभरवाल	सिग्नल्स	41769	संजय कपूर	मैक इन्फैन्ट्री
41631	रविन्दर सिंह	ए एस सी	41790	अरविन्द माथुर	ई एम ई
41636	जसप्रीत सिंह गुजराल	आर्टी	41791	पदम प्रबोद प्रकाश सिंह	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
41802	शबीर सिंह जज	इन्फैन्ट्री	41921	टोलटथी रविन्द्र	आर्टी
41803	अम्ब्रोस जेवियर अमुलराज	आर्टी	41923	उमेद सिंह मिथार्वल	ए एस सी
41814	दीपक शर्मा	इन्जीनियर्स	41924	संजीव घोवर	आर्टी
41819	उपकार सिंह नेरवल	ई एम ई	41930	रकेश कुमार सिंह	आर्टी
41820	राजेन्द्र कुमार जोशी	सिग्नल्स	41937	महेन्द्र सिंह यादव	इन्फैन्ट्री
41824	रविन्द्र सिंह	इन्जीनियर्स	41940	प्रदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
41838	सतेन्द्रा कुमार सिंह	सिग्नल्स	41945	दीबेयेंदु भट्टाचार्जी	सिग्नल्स
41839	रमेश छिब्बर	सिग्नल्स	41947	दिनेश चन्द्र मजुमदार	आर्टी
41844	दिनेश कुमार	सिग्नल्स	41952	संजीव चौधरी	आर्टी
41850	सुनील प्रेम	इन्जीनियर्स	41957	ओम सिंह	इन्जीनियर्स
41852	शिव कुमार राय	ए डी ए	41958	संजय अरोरा	आर्टी
41858	सी पी करियप्पा	इन्फैन्ट्री	41963	दीपक शर्मा	सिग्नल्स
41859	एस राधाकृष्ण	इन्जीनियर्स	41969	कृपिनेनी जाहवर बाबू	इन्फैन्ट्री
41860	शांतनु दयाल	इन्फैन्ट्री	41972	मोहिन्द्र सिंह	ए एस सी
41861	राजेश सूद	ई एम ई	41973	राजीव लोचन शर्मा	इन्फैन्ट्री
41864	रवि सीतारामैय्या	ई एम ई	41979	प्रदीप कुमार पटनायक	इन्जीनियर्स
41867	मुकतीरा नयन देवय	इन्फैन्ट्री	41982	टी थोमस	इन्जीनियर्स
41868	राम विश्वास	ई एम ई	41987	संजय कुमार एस शर्मा	ई एम ई
41870	अनिल जोशी	इन्जीनियर्स	41994	अरुण जोशी	इन्जीनियर्स
41871	परमजीत सिंह ढिल्लौं	इन्जीनियर्स	42000	संजय गुप्ता	इन्फैन्ट्री
41874	अरुण सहगल	ई एम ई	42003	अनिल कुमार गन्होत्रा	सिग्नल्स
41875	वी पी पाल	इन्फैन्ट्री	42004	राणा प्रताप कलिता	इन्फैन्ट्री
41877	रणजीत सिंह देसवाल	इन्फैन्ट्री	42012	अमित सक्सेना	इन्जीनियर्स
41878	जे पी आर इसमाइल	इन्फैन्ट्री	42019	प्रशांत मनोहर शेओड़े	सिग्नल्स
41883	राकेश नायर	ए एस सी	42020	अरविन्दम	आर्टी
41885	यू सुरेश कुमार	इन्फैन्ट्री	42022	रवि कुमार गुप्ता	ए डी ए
41886	गोबिन्दर सिंह	इन्जीनियर्स	42027	रवादा रवि	इन्फैन्ट्री
41887	प्रबोद शरन राना	सिग्नल्स	42029	ज्ञान स्वरूप पुरी	ए एस सी
41894	सुरीन्द्र सिंह धनखार	इन्फैन्ट्री	42031	हरिकीरत सिंह	आर्टी
41896	रजेन्द्र वी देसाई	इन्फैन्ट्री	42032	संजय दीक्षित	सिग्नल्स
41898	गुरकिरपाल सिंह बसरा	आर्टी	42033	सुरिन्द्र सिंह कादयान	इन्जीनियर्स
41899	सिमरजीत सिंह मुलतानी	इन्जीनियर्स		ज्योतुलबेंकला शेषा नौका	
41905	रविन्द्र मलिक	ए एस सी	42040	वारा प्रसाद	इन्फैन्ट्री
41907	राज कुमार बलवदा	सिग्नल्स	42047	साजी अब्राहम	आर्टी
41909	सैय्यद अजीजुर रेहमान	इन्फैन्ट्री	42055	प्रभजोत सिंह बिन्द्रा	ए एस सी
41915	रोहित कपूर	इन्जीनियर्स	42057	मुकुल भंडारी	इन्फैन्ट्री
41919	रविन्द्र कुमार ढींगरा	सिग्नल्स	42059	जेक्सन मेथ्यू	इन्जीनियर्स
41920	अश्विन नागेश बेंदुर	इन्जीनियर्स			

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
42065	एस एम गनिमि	ई एम ई	42273	बी के रेपसवाल	ए एस सी
42076	देव कुमार हरिदास	ई एम ई	42278	बी डी राय	इन्फैन्ट्री
42079	भितेन्द्र कुमार शुक्ला	ए डी ए	42283	डी एस काम्बो	इन्जीनियर्स
42081	चावली बद्रीनारायण मूर्ति	इन्जीनियर्स	42285	एस पी रावत	इन्फैन्ट्री
42084	मोहन चन्द कुमार	सिग्नल्स	42287	राजेश जोशी	इन्फैन्ट्री
42089	त्रिजय कुमार एस पाटिल	इन्जीनियर्स	42288	अनिल पुरी	इन्जीनियर्स
42095	मोहन दास के बोउथा वैकटरामा भवानी	इन्फैन्ट्री	42289	नारिन्द्र सिंह	ए एस सी
42099	प्रसाद	सिग्नल्स	42299	आई ए खान	इन्जीनियर्स
42105	उमेश शर्मा	इन्जीनियर्स	42300	पी एन अनन्थानारायण	इन्फैन्ट्री
42123	शाजी कुरिआचन	आर्टी	42305	टी मिसरा	आर्टी
42133	कोली जगन मोहन राय	इन्फैन्ट्री	42308	ए एस कटोच	ई एम ई
42136	राजागोपालन के एस	इन्फैन्ट्री	42309	एम एस निकम	आर्टी
42138	इन्दरजीत सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री	42310	वी एस रनाडे	आर्टी
42142	रवि गोपाल कृष्णन	इन्फैन्ट्री	42311	संजीव बाली	इन्जीनियर्स
42145	राजिन्दर कुमार कोच्चारा	ए एस सी	42312	मनोज मेहता	इन्जीनियर्स
42148	बलविन्दर सिंह	इन्जीनियर्स	42314	जे एस धालीवल	आर्टी
42149	त्रिजयंत कुमार	इन्फैन्ट्री	42318	के ए एस रंधावा	ए एस सी
42150	जानकी पंत	ई एम ई	42322	एस जी चव्वान	इन्फैन्ट्री
42156	सुजाय कौशल	इन्फैन्ट्री	42323	अरुण गांगुली	ई एम ई
42163	कुलदीप सिंह धनखार	ई एम ई	42325	एल डी मिनोचा	ए एस सी
42165	अशोक कुमार	ए डी ए	42327	अरविन्द कटोच	ए एस सी
42169	भिरेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री	42329	परितोष डांडरियाल	ई एम ई
42173	कोलापार्ती भास्कर	इन्फैन्ट्री	42331	अरुण कुमार ससमाल	आर्टी
42178	त्रिजेन्द्र सिंह भाटी	ए एस सी	42332	एस वाई देवास्थली	ई एम ई
42179	मनिन्दर जीत सिंह टिवाना	आर्टी	42336	ए के सिंह	इन्फैन्ट्री
42180	राजीव कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री	42339	प्रदीप नारायणन ई एन	इन्फैन्ट्री
42186	संजीव सिरोही	ई एम ई	42343	ऋषि देव शर्मा	इन्फैन्ट्री
42187	परितोष पंत	इन्फैन्ट्री	42347	नवनीत कुमार	इन्फैन्ट्री
42192	मनोज कुमार	इन्जीनियर्स	42350	टी सी राय	इन्फैन्ट्री
42194	भिरेन्द्र सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री	42351	एस एस ग्रेवाल	ए एस सी
42204	अनुराग बहुखंडी	ई एम ई	42360	कबिन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
42229	राजीव कुमार भाटली	इन्फैन्ट्री	42361	एस श्रीवास्तव	इन्जीनियर्स
42241	आशिष कुमार	ई एम ई	42363	ए के यादव	इन्फैन्ट्री
42269	गौरिश जोशी	इन्जीनियर्स	42372	विनीत सूद	इन्फैन्ट्री
42270	के के रेपसवाल	इन्जीनियर्स	42376	रमन कक्कर	इन्जीनियर्स
42271	राकेश राणा	इन्जीनियर्स	42377	एस के चतुर्वेदी	इन्जीनियर्स
			42385	वी एस माथुर	इन्जीनियर्स

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
42389	बी एस राजू	इन्फैन्ट्री	42628	जे एस सोखी	सिग्नल्स
42390	एम यू नायर	सिग्नल्स	42683	के आर बाबू	इन्जीनियर्स
42391	राकेश कौल	सिग्नल्स	42686	एच के त्रिवेदी	सिग्नल्स
42394	आर के गुप्ता	ए एस सी	42688	डी जे पाठक	इन्जीनियर्स
42400	तुमुल वर्मा	ई एम ई	42690	ए के सुर	ई एम ई
42402	आर के योसफ	ई एम ई	42692	ए के शर्मा	इन्जीनियर्स
42404	जय सिंह	इन्फैन्ट्री	42693	अशोक कुमार कोक्षर	सिग्नल्स
42407	एस बी माथुर	सिग्नल्स	42698	एस राजाराम	सिग्नल्स
42416	निरज सेठ	इन्फैन्ट्री	42699	ए के जिंदाल	इन्जीनियर्स
42420	जे नायर	इन्फैन्ट्री	42700	श्रीधरन नायर पी जी	इन्जीनियर्स
42425	अरविन्द वर्मा	इन्जीनियर्स	42703	जगमोहन दुर्गापाल	सिग्नल्स
42449	दीपक कपाटिया	इन्फैन्ट्री	42708	संजय बाजपाई	इन्जीनियर्स
42455	एस पी यादव	ए एस सी	42716	वी एन मुर्शी	इन्जीनियर्स
42464	ए एस चौहान	इन्फैन्ट्री	42725	वी के सिंह	सिग्नल्स
42469	इंदराज सिंह	इन्फैन्ट्री	42748	बी एन नन्जुंदा रॉव	इन्जीनियर्स
42471	जयंत मिश्रा	ई एम ई	43164	संजय चन्द्र	सिग्नल्स
42475	सवनीत सिंह	इन्फैन्ट्री	43165	डी के देशमुख	ई एम ई
42485	राज सिन्हा	इन्फैन्ट्री	43166	एस के खन्ना	इन्जीनियर्स
42489	वाई एस यादव	ई एम ई	43169	महिन्दर सिंह	इन्जीनियर्स
42491	सी पी सांगरा	इन्फैन्ट्री	43173	एम एस लाम्बा	सिग्नल्स
42492	अमित कथपालिआ	इन्जीनियर्स	43177	पी आर देशमुख	ई एम ई
42493	नगप्पा एस शानभाग	इन्फैन्ट्री	43189	ए के सिन्हा	ई एम ई
42504	एस के पांडेय	सिग्नल्स	43196	एस के पाठक	इन्जीनियर्स
42508	अमित वीर पंडिआ	इन्फैन्ट्री	43628	कुलदीप कुमार	सिग्नल्स
42512	पी बक्शी	सिग्नल्स	43630	एम सुरेश	सिग्नल्स
42517	जतिन्द्र सिंधू	इन्फैन्ट्री	43651	आर एस प्रसाद	सिग्नल्स
42542	एम के मागो	इन्फैन्ट्री	43695	राजीव जोशी	ई एम ई
42548	एस पाण्डे	इन्फैन्ट्री	43696	जी एस शानबाल	सिग्नल्स
42549	विकाश उनियाल	ई एम ई	43697	सुनील काला	सिग्नल्स
42552	सरवजीत सिंह	इन्जीनियर्स	43698	वी आर देशमुख	ई एम ई
42555	एस पी चौधरी	इन्फैन्ट्री	44003	साबु योसफ	इन्जीनियर्स
42574	कमलेश्वर सिंह	इन्फैन्ट्री	44004	एस के मुखर्जी	इन्जीनियर्स
42584	आर कौशल	इन्फैन्ट्री	44008	राकेश वर्मा	ई एम ई
42597	जी एस सिद्धू	इन्फैन्ट्री	44013	विनय कुमार सिंह	ई एम ई
42606	सम्पथ गोपाल	ई एम ई	44022	राकेश चोपरा	इन्जीनियर्स
42609	एस एस अहलावत	ए एस सी	44025	जितेन्द्र पाल	ई एम ई
42610	जे एस मकोल	इन्फैन्ट्री	44034	संजय दावर	ई एम ई

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
44429	डी एम जे राजू	ई एम ई	45188	शरद धिंडव	ए एस सी
44434	एस के शर्मा	इंजीनियर्स	45194	पी वी गाडरे	आर्टी
44436	श्रीनिवास मुर्लीधरन पिल्ललाई	सिग्नल्स	45210	अनिल जोशी	इन्फैन्ट्री
44438	पी एस सुरेश	इंजीनियर्स	45216	मनोहर सिंह राठौर	ई एम ई
44448	राकेश गोयल	ई एम ई	45232	सुरिन्दर पाल सिंह	ए डी ए
44449	ए के मुखर्जी	ई एम ई	45239	अनिल रंजन राय	ई एम ई
44458	बी श्रीनिवास	इन्जीनियर्स	45244	संजय कुमार रॉव	इन्फैन्ट्री
45006	आशुतोष सिरोधिआ	इन्फैन्ट्री	45253	विकटर राजामनी डी	इन्फैन्ट्री
45009	सुखवीप सिंह	इन्फैन्ट्री	45293	परमिन्दर सिंह गिल	आर्टी
45010	शशिबीर कुमार दास	ए डी ए	45297	शम्मी राज	आर्टी
45017	टमितसेहगल	इन्फैन्ट्री	45305	विजय कौल	ई एम ई
45019	पी एन वर्मा	इन्फैन्ट्री	45312	ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव	ए एस सी
45022	के एम सिंह	आर्टी	45316	गुलजीत सिंह चाड्डा	ई एम ई
45025	आर के शर्मा	ए एस सी	45329	शशि कांत सोनी	ई एम ई
45033	टी जी सुरिन्दरा कुमार	सिग्नल्स	42733	डी पी अहिलाजी	ए ई सी
45035	ए के शुक्ला	इन्फैन्ट्री	37741	एस एस सम्बयाल	इन्फैन्ट्री
45042	आर एस जोहल	ई एम ई	37744	आर एस ढिल्लोन	ए ओ सी
45046	कुलदीप बुधवार	ए सी	37748	सुशील शर्मा	इन्जीनियर्स
45050	तेजबीर सिंह	इन्फैन्ट्री	37758	टी एस रंधावा	आर्टी
45052	वी के पुनिया	इन्फैन्ट्री	37761	देवाकरन	आर्टी
45054	राकेश अवस्थी	ई एम ई	37763	आर सी नायर	ए डी ए
45056	एस के पांडे	आर्टी	37765	पी के सिन्हा	आर्टी
45066	सुनील मेहता	आर्टी	37773	एम एस गुरोन	ए सी
45067	मिलिंद एस रनाडे	आर्टी	37774	आर बी चिरुमामिल	इन्फैन्ट्री
45077	निरूपम बासु	आर्टी	37781	सिसिर भट्टाचार्य	इन्फैन्ट्री
45114	जडेज वनराज सिंह एम	इन्फैन्ट्री	37800	रंजन मगून	इन्जीनियर्स
45119	वीरेन्द्र कुमार त्यागी	ई एम ई	37803	रमेश मुर्ती	इन्फैन्ट्री
45121	जे एस सोइन	इन्फैन्ट्री	37807	आत्मा शरन	ए सी
45123	सन्तानु घोष	इन्फैन्ट्री	37809	कुलबीर सिंह चौहान	आर्टी
45125	जयनारायण सिंह बिष्ट	इन्फैन्ट्री	37810	के एम मेथ्यू	इन्फैन्ट्री
45129	वीरेन्द्रसिंह यादव	ए एस सी	37825	जय सिंह सुहाग	इन्फैन्ट्री
45133	ज्ञान सिंह	आर्टी	37827	एस एस फोगट	ईन्ट
45144	प्रकम चन्द मल्होत्रा	इन्जीनियर्स	37831	वी सुब्बिया	इन्फैन्ट्री
45161	राकेश कुमार सुदन	ए सी	37835	एस चक्रवर्ती	इन्फैन्ट्री
45183	राजीव कुमार	इन्फैन्ट्री	37837	एम एम वरघेश	आर्टी
45186	विश्व माल सिंह	आर्टी	37839	डी सी वी शाह	इन्फैन्ट्री
45187	अमरदीप ग्रेवाल	आर्टी	37841	किशोर कुमार	ए ओ सी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
37843	मोंटगोमेरी	इन्फैन्ट्री	39456	ए के सक्सेना	इन्फैन्ट्री
37849	शैलेन्द्र पंत	ए ओ सी	39460	एस डी सरिन	ए सी
37866	प्रहलाद सिंह दहिया	इन्फैन्ट्री	39474	शशि राणा	इन्फैन्ट्री
37867	पुरुषोत्तमन पी	इन्फैन्ट्री	39475	सतनाम सिंह	आर्टी
37873	अजीत राम राने	इन्जीनियर्स	39477	पी सी चंदेल	आर्टी
37874	पी राजन	इन्जीनियर्स	39487	एस एस औजला	इन्फैन्ट्री
37875	गुरदेव सिंह	ईन्ट	39494	ए के पांडेय	मैक इन्फैन्ट्री
37877	दिनेश शर्मा	इन्फैन्ट्री	39497	आर के सिन्हा	ए सी
37881	हरदीप शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री	39503	डी के पुन	ए एस सी
37883	अमरेक सिंह	इन्फैन्ट्री	39527	विवेक चौधरी	आर्टी
37887	दिनेश कुमार पी	ए डी ए	39532	वी के बत्रा	इन्फैन्ट्री
37889	कमलदीप सिंह	ए सी	39533	ए के राय	ए ओ सी
37893	रविन्द्रन सी नायर	इन्फैन्ट्री	39540	वी कुमार	ए ओ सी
37898	गजराज सिंह	ए सी	39541	दिवाकरन टी	आर्टी
37901	रंजीत सिंह दत्ता	आर्टी	39544	के के नैथानी	ए ओ सी
37909	नारायण अय्यर	ए ओ सी	39549	नसीब सिंह	इन्फैन्ट्री
37918	के सतीश ओमर	ई एम ई	39553	ए एस ग्रेवाल	इन्फैन्ट्री
37919	मरीओ मगिमा	ए ओ सी	39561	एस सी शर्मा	आर्टी
37920	मनजीत सिंह छिक्कारा	इन्फैन्ट्री	39574	जे पी सेनगुप्ता	इन्फैन्ट्री
37921	रविन्द्र कुमार भाटिया	ए ओ सी	39580	एम के राय	आर्टी
37933	जी एस चौमा	ई एम ई	39582	एम एस बिष्ट	ए ओ सी
37941	वेंकटेश्वरन एस	इन्फैन्ट्री	39589	टी एस मलारा	आर्टी
37943	डी ठाकुर	ए सी	39593	पी के शर्मा	इन्जीनियर्स
37953	महेश थापा	इन्फैन्ट्री	39610	पी एन प्रसाद	आर्टी
37954	एच एस नेगी	इन्फैन्ट्री	39611	एस के जोशी	इन्फैन्ट्री
37959	आर एस वर्मा	ए ओ सी	39613	सतिन्दर सिंह एस एस	ए सी
37967	एस एस नायर	मैक इन्फैन्ट्री	39619	जे पी साहू	इन्फैन्ट्री
37972	अरुण परासर	इन्फैन्ट्री	39634	ए बी बापट	सिगनल्स
37974	डी सिंह	ए सी	39644	वी के छात्रे	इन्फैन्ट्री
37978	लाजपत राय	इन्फैन्ट्री	39645	उदय कुमार राजीव	इन्फैन्ट्री
37979	वेनुगोपाल पी	आर्टी	39651	सुनील मिडा	आर्टी
37986	जी डी राय	ए एस सी	39654	एच पी सिंह	आर्टी
37987	राजेश्वर सिरोही	ए ओ सी	39657	एस के पांडेय	ई एम ई
37988	पी आर दास	आर्टी	39662	एफ बी पटेल	इन्फैन्ट्री
37990	वी के नैथानी	आर्टी	39680	ए के चन्द्रा	आर्टी
37992	के एस बरार	इन्फैन्ट्री	39687	आर एस टोकस	इन्फैन्ट्री
39452	एन त्यागराजन	आर्टी	39689	संजीव हरती	ए डी ए

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
39692	एस के शर्मा	इन्फैन्ट्री	39928	वी के पिल्ललाई के	आर्टी
39701	हरमिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री	39932	वी के मिश्रा	ए डी ए
39707	टी के चक्रवर्ती	आर्टी	39935	सतबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
39708	आर जियाडानी	आर्टी	39937	शिरांग जोशी	आर्मी ए वी एन
39711	मुरली नायर	ए ओ सी	39939	आर आर सेठ	आर्टी
39715	आर एस कहार	इन्फैन्ट्री	39941	राजेन्द्र त्रपासिया	इन्फैन्ट्री
39716	ए बी गोथ	इन्फैन्ट्री	39951	तेज सिंह	ए ओ सी
39722	प्रदीप भासबोला	इन्फैन्ट्री	39955	वाई एस यादव	आर्टी
39724	आर आर एस भाटी	ई एम ई	39958	देवानंद राय	इन्फैन्ट्री
39725	आर सी कटोच	इन्फैन्ट्री	39974	घनश्याम मिश्रा	आर्टी
39726	सी एस के कुंजु	ए डी ए	39984	जगरूप सिंह	आर्टी
39737	रूपिन्दर माल	ए सी	39986	डी पी सिंह	आर्टी
39744	गीरिश कामत	इन्फैन्ट्री	39989	अजीत सिंह	ए ओ सी
39759	डी के गुरुंग	इन्फैन्ट्री	39997	शामराव खोरे	इन्फैन्ट्री
39760	सी एन सुरेश	इन्फैन्ट्री	40002	वी प्रकाश अय्यर	ए डी ए
39762	ए बी राधा कृष्णन	इन्फैन्ट्री	40011	एम एम खान्बेते	इन्जीनियर्स
39763	आलोक चतुर्वेदी	आर्टी	40015	शशांक यादव	ए सी
39764	अशोक कुमार	इन्फैन्ट्री	40018	डी के बाहरी	इन्फैन्ट्री
39765	रविन्दर माथुर	ई एम ई	40026	राजेश शर्मा	इन्फैन्ट्री
39766	शांतना वर्डन आर	ए डी ए	40042	दिनेश गुप्ता	ए सी
39784	राकेश आइमा	आर्टी	40049	ए पी पांडेय	आर्टी
39807	बी ए कुमार	ए ई सी	40053	ए एन यादव	इन्फैन्ट्री
39815	एम मथई	ए ई सी	40062	एस बी कोनूर	मैक इन्फैन्ट्री
39819	सतबीर सिंह	ए ई सी	40063	एस आर वसंत	इन्फैन्ट्री
39832	जी के चोपरा	ए ई सी	40069	आर एस जून	इन्फैन्ट्री
39839	ए के मोहापात्रा	ए ई सी	40075	आर के सिंह	ए एस सी
39860	के मुखर्जी	ए ई सी	40079	डी सी बुर्जोय	आर्टी
39862	के रमन	ए ई सी	40100	वी उदामेशी	इन्फैन्ट्री
39873	रविन्द्र सापरे	ए सी	40104	आर एस रावत	इन्फैन्ट्री
39877	राजिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री	40107	मोहनन नायर पी एन	आर्टी
39899	राजीव मेहता	आर्टी	40109	एस के टेहलन	इन्फैन्ट्री
39903	एम डी एस मान	इन्फैन्ट्री	40110	ए एस धनजाल	इन्फैन्ट्री
39905	पी बी जाधव	इन्फैन्ट्री	40114	अनिल मल्होत्रा	इन्फैन्ट्री
39914	एफ एस विर्क	आर्टी	40121	सुनील जग्गी	ए डी ए
39925	एस जे बेरी	इन्फैन्ट्री	40126	एस ए झा	इन्फैन्ट्री
39926	बी एस बाबरा	आर्टी	40128	एच एस प्रेवाल	इन्फैन्ट्री
			40135	आर एस राजैन	ईन्ट



आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
40141	के जी लिम्बु	इन्फैन्ट्री	40387	प्रियरंजन पैन	ए ओ सी
40145	एस एस चड्ढा	आर्टी	40388	डी एन बोटला	आर्टी
40146	सुशील प्रधान	इन्फैन्ट्री	40391	जे एस खेरा	आर्टी
40154	बी आर पैयुला	ईन्ट	40399	दिनेश शर्मा	ईन्ट
40162	अजय गहलौत	ए ओ सी	40410	ए के सिन्हा	इन्फैन्ट्री
40165	के हरि दास	इन्फैन्ट्री	40413	के बी थापा	आर्टी
40170	ईसवरा बाबू एम सी	आर्टी	40415	एस एस यादव	ए एस सी
40174	हरेन्द्र सिंह	ए ओ सी	40417	लक्ष्मण सिंह	इन्फैन्ट्री
40176	के वर्धीस	ए सी	40419	बी एस कौडल	आर्टी
40192	सतीश टी	आर्टी	40424	गोविन्द ताहिल	मैक इन्फैन्ट्री
40196	राकेश शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री	40431	पी एस रेलहन	आर्टी
40203	राजेश दत्ता	इन्फैन्ट्री	40436	ए के सिंह	इन्फैन्ट्री
40207	एस के ऐच	ए डी ए	40439	एस के शर्मा	आर्टी
40209	अरुण कँथला	इन्फैन्ट्री	40443	आर एस भण्डारी	ए एस सी
40211	सी आई मारक्युस	ईन्ट	40445	जे एस गुलाटी	ए ओ सी
40212	बी एम एस रावत	ए सी	40447	के एस राठौर	ए एस सी
40214	एस के कोथियाल	इन्फैन्ट्री	40453	रंजीत सिंह	इन्फैन्ट्री
40215	गगनजीत सिंह	ए सी	40454	के एस चक्रवर्ती	सिग्नल्स
40218	प्रदीप धौल	इन्फैन्ट्री	40457	एस के कोच्चर	सिग्नल्स
40223	एस सी शर्मा	इन्फैन्ट्री	40464	आर एस गुलिया	इन्फैन्ट्री
40231	अजय सहाय	ए ओ सी	40465	जे पी उनियाल	आर्टी
40245	एस के रांगरा	इन्फैन्ट्री	40467	के एस मदन	इन्फैन्ट्री
40254	बी के थापा	इन्फैन्ट्री	40472	दिलीप कुमार डि एस	इन्फैन्ट्री
40264	जसविन्दर सिंह	ए ई सी	40480	राजू एन पाटिल	सिग्नल्स
40268	एस बी राँव	ए ई सी	40483	आर के नायर	आर्टी
40317	एम एस निरंजन	इन्फैन्ट्री	40485	पंकज कँवर	ईन्ट
40322	आलोक गुहा	इन्फैन्ट्री	40486	रवेन्द्र गोस्वामी	इन्फैन्ट्री
40323	एस सी चोपरा	इन्फैन्ट्री	40498	बी पी सुमन	ए डी ए
40325	एच एन कौशल	ई एम ई	40503	आर बी बी एस जगती	इन्फैन्ट्री
40334	टी एस रंग राँव	इन्जीनियर्स	40504	ओ टी राजू	आर्टी
40344	अनिल जयसवाल	इन्फैन्ट्री	40511	एन के अगुरु	ए ओ सी
40356	संजीव एम टी	इन्फैन्ट्री	40518	मनीक मन्ना	इन्जीनियर्स
40357	बी एस माल	ए ओ सी	40522	मोहन गोपालन	मैक इन्फैन्ट्री
40365	ए के जग्गी	मैक इन्फैन्ट्री	40524	के के कौशल	इन्फैन्ट्री
40369	एल बी खत्री	इन्फैन्ट्री	40528	पी एस चौहान	इन्फैन्ट्री
40370	सुरिन्दर सिंह	आर्टी	40533	सी एस हांडा	इन्फैन्ट्री
40375	एस बी वाजरा	इन्जीनियर्स	40536	आर सी गुप्ता	ए ओ सी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
40539	टी डी भूटिया	इन्फैन्ट्री	40830	के के अनिल कुमार	इन्जीनियर्स
40540	आर एस डूहन	इन्फैन्ट्री	40831	एफ ए फारुकी	आर्टी
40542	वी वीरेड्डी	इन्ट	40842	अतुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
40553	एम एस नेगी	ए ओ सी	40843	अशिष घोष	इन्जीनियर्स
40554	एस के शर्मा	आर्टी	40856	राजीव खन्ना	ए डी ए
40555	निशांत कौरा	इन्फैन्ट्री	40857	मनबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
40562	संजीव शर्मा	इन्फैन्ट्री	40859	एम एस घई	ए एस सी
40563	एन शैलेन्द्र रॉय	सिग्नल्स	40863	ए आर भंडारी	इन्फैन्ट्री
40565	नरिन्दर शर्मा	ए ओ सी	40868	राजीव मलिक	इन्जीनियर्स
40572	के पी सिंह अटवाल	ए ओ सी	40869	आर सी दिवेदी	इन्फैन्ट्री
40593	के एस बासरी	इन्फैन्ट्री	40883	बी बी चेरुकट	इन्फैन्ट्री
40607	वी वंदेय	आर्टी	40888	आर एस बठ	इन्फैन्ट्री
40617	एस के शर्मा	ए ओ सी	40890	रजनीश हांडा	इन्फैन्ट्री
40618	सुनील कुमार शर्मा	ई एम ई	40891	बोपाय एम पी	इन्जीनियर्स
40640	संजीव भाटी	इन्फैन्ट्री	40895	एन एन भट्टाचार्य	इन्फैन्ट्री
40687	राजसेकरन एस	ए ओ सी	40912	पी वाई पारबती	इन्फैन्ट्री
40698	एस के डी पटनायक	इन्फैन्ट्री	40913	आर के गोयल	आर्टी
40705	अरुण शर्मा	इन्जीनियर्स	40915	हरि ईसवरन	इन्जीनियर्स
40712	टी एस सिन्हा	इन्फैन्ट्री	40917	वी के बड़ोला	इन्जीनियर्स
40718	एम एस पेंवार	इन्फैन्ट्री	40919	पी एस गिल	इन्फैन्ट्री
40719	एस निरज रॉय	इन्ट	40924	एच एस रावत	इन्फैन्ट्री
40723	बी एस संधू	मैक इन्फैन्ट्री	40925	अमिताब जोशी	इन्ट
40726	आर पी एस ढिल्लोन	आर्टी	40927	अबिजीत भट्टाचार्य	इन्फैन्ट्री
40730	ए के मुखर्जी	सिग्नल्स	40938	निरंजन पति	आर्टी
40737	जगजीवे जी	आर्टी	40943	आर सी छिल्लर	इन्ट
40740	बी आर हूडा	इन्ट	40945	एस एस हूडा	इन्फैन्ट्री
40765	पी के मोहंती	सिग्नल्स	40948	कलिसिपुड़ी रवि प्रसाद	आर्टी
40768	वीरेन्द्र तोमर	इन्ट	40950	पी के एस रॉय	इन्फैन्ट्री
40770	बाबू यू टी	आर्टी	40956	ललित कपूर	इन्जीनियर्स
40774	विशेष जलान	इन्जीनियर्स	40961	राजीव श्रीवास्तव	इन्फैन्ट्री
40775	ए एस कंधारी	ई एम ई	40973	एन के शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री
40776	शिव दयाल	ए एस सी	40979	के एल दवेरा	ए एस सी
40797	डी एस दहिया	इन्जीनियर्स	40986	पंकज मित्तल	इन्जीनियर्स
40801	आर के बनसीवाल	इन्ट	40993	ए धवन	आर्टी
40814	कमल किशोर	ए एस	40994	सैबल बनर्जी	ए ओ सी
40821	टी सिमाकुमार	इन्फैन्ट्री	41000	नीरज शर्मा	ए डी ए
40828	जी आर एस राजन	इन्जीनियर्स	41002	योसेफ जोसी	ए एस सी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
41010	शेखर रॉय	इन्फैन्ट्री	41215	गोपाल कृष्ण पुरुषोत्तम कुमार	मैक इन्फैन्ट्री
41013	राजीव संधीर	इन्फैन्ट्री	41231	यशवंत रॉव रेनुशे	इन्फैन्ट्री
41016	आई पी एस वालिया	ए ओ सी	41233	अमृत सिंह रंधावा	मैक इन्फैन्ट्री
41018	रनवीर मड़ना	आर्टी	41235	संजीव सेनी	इन्फैन्ट्री
41071	बेजी मेथ्युस	ए सी	41244	रणवीर सिंह	आर्टी
41077	दिनेश चौधरी	ई एम ई	41247	डेगिनल श्रीशैल शरनप्पा	इंजीनियर्स
41078	तरसेम सिंह	ए ओ सी	41252	गुरिन्दर सिंह मान	इन्फैन्ट्री
41079	सतीश एन वासदे	इन्फैन्ट्री	41262	सुरिन्दर कुमार शर्मा	आर्टी
41084	सतीश कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री	41274	अजय कृष्ण कोचर	मैक इन्फैन्ट्री
41094	राजन बाटा	इन्जीनियर्स	41275	रवि कुमार पी जी	आर्टी
41097	हरजिन्दर सिंह बोपराय	ए सी	41287	प्रमोद खानीजोव	आर्टी
41100	केशव सिंह	इन्जीनियर्स	41293	अतर सिंह	इन्फैन्ट्री
41101	मनोज रावत	मैक इन्फैन्ट्री	41294	संजीव चोपरा	मैक इन्फैन्ट्री
41103	राकेश कुमार वर्मा	ए सी	41303	संजीव कौशल	ए सी
41113	पदमा लोचन वर्मा	इन्फैन्ट्री	41304	अनुज श्रीवास्तव	एएससी
41114	सूर्याकांत मिश्रा	इन्फैन्ट्री	41306	पुरुषोत्तम शरद	ए डी ए
41116	कुमार प्रनय रंजन	आर्मी ए वी एन	41307	राजेश कुमार	आर्टी
41124	नरेश कुमार खत्तर	आर्टी	41315	ईश्वर सिंह	इन्फैन्ट्री
41134	महेन्द्र सिंह	ए सी	41318	धुमोजी राजा नरेन्द्र चारी	इंजीनियर्स
41136	बल राज मेहता	इन्फैन्ट्री	41325	अरविन्द वैद	इन्फैन्ट्री
41143	धिरेन्द्र तंजदर	आर्टी	41342	शशिमोहनन टी वी	आर्टी
41158	संजीव दुबे	इन्जीनियर्स	41346	आर के सिंह	आर्टी
41167	रमेश कुमार गिल	इन्फैन्ट्री	41350	प्रवेश कुमार मेहता	सिग्नल्स
41168	अविनाश एम काकडे	इन्फैन्ट्री	41351	संजय कुमार	आर्टी
41171	अनिल दुबे	इन्जीनियर्स	41357	शिवानंदन सिंह	ए डी ए
41172	बलदेव सिंह	ए सी	41359	कमलेन्द्र दत्त मिश्रा	इन्फैन्ट्री
41174	मिल्टन अधिकारी	इन्फैन्ट्री	41365	सुब्रोतो मित्रा	आर्टी
41178	सुनील कुमार छाबरा	एडीए	41370	पुष्पिन्दर नाथ केसर	इन्फैन्ट्री
41180	ज्ञान चन्द शर्मा	इन्फैन्ट्री	41375	अनुपम वर्मा	इन्फैन्ट्री
41183	सुरेश चन्द्र मोहंती	इन्फैन्ट्री	41378	क्रिसटोफर मसी	इन्फैन्ट्री
41184	रमेश कुमार	एसी	41387	प्रदीप कुमार	आर्टी
41186	सतनाम सिंह धनहास	एसी	41390	हरजिन्दर सिंह	आर्टी
41187	इन्द्र मोहन सिंह	इन्फैन्ट्री	41400	दीलिप नाम्बियार	इन्फैन्ट्री
41193	डेविड स्वरूप राज	आर्टी	41429	विनोद कुमार जैन	ईएमई
41198	मदन गुरुंग	इन्फैन्ट्री	41433	प्रवत कुमार पांडे	इन्फैन्ट्री
41208	उल्हास एस कुलकर्णी	इन्फैन्ट्री	41435	मनविन्दर सिंह	ए डी ए
41210	डी जयदेव	इन्फैन्ट्री	41440	आर गनेशन	सिग्नल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
41448	खुशवन्त सिंह	इंजीनियर्स	41599	रविन्दर कुमार सिंह कुशवाह	ए ओ सी
41458	दीलिप कुमार रौट	ए ई सी	41605	राजबंस पाल सिंह कहलोन	आर्टी
41459	भूपिन्द्र कुमार दिसाई	ई एम ई	41612	मथार्ड वी सी	आर्टी
41462	दीपक दहिया	ए सी	41619	गुरबीर सिंह कालरा	इन्फैन्ट्री
41467	मलजीत सिंह	मैक इन्फैन्ट्री	41635	मैत्रा सौमित्रा	इंजीनियर्स
41482	बीरेन्दर सिंह धनोआ	ए सी	41640	कमल किशोर मिश्रा	इन्फैन्ट्री
41487	संदीप रावत	इंजीनियर्स	41643	दपिन्दर सिंह संधू	इन्फैन्ट्री
41489	राजेश चाबा	मैक इन्फैन्ट्री	41645	सुनील नरूला	इन्फैन्ट्री
41490	शमशेर सिंह दलाल	इन्फैन्ट्री	41650	रवि कांत बाली	ए सी
41494	प्रदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	41653	योगिन्दर सिंह यादव	ए ओ सी
41496	गुरविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री	41660	हरि कांत	इंजीनियर्स
41503	दलजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	41666	चन्दर दीप	आर्टी
41506	मनोज मेहरोत्रा	ए डी ए	41667	राजीव रैना	आर्मी एवीएन
41512	राजीव नंदा	सिग्नल्स	41669	दविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
41516	रावीन कुमार	ए सी	41670	विनोद कुमार खन्ना	आर्टी
41521	हर्ष गुप्ता	इन्फैन्ट्री	41673	राजन जामवाल	इन्फैन्ट्री
41522	आनंत भुयान	इन्फैन्ट्री	41681	बीरेन्द्र सिंह बंगारी	सिग्नल्स
41523	मिलिंद वामदेव चौधरी	इन्फैन्ट्री	41684	महेन्द्र	इन्फैन्ट्री
41525	बीरेन्द्र सिंह यादव	ए डी ए	41685	प्रवीन शर्मा	सिग्नल्स
41526	मन्तोष साहा	इंजीनियर्स	41687	दोप्लपुडी शिवराम प्रसाद	इन्फैन्ट्री
41527	राजिन्दर सिंह भानवाला	इंजीनियर्स	41689	कमल किशोर पंत	ए ओ सी
41534	लोकेश्वर सिंह बिष्ट	ए सी	41693	हरबीर सिंह	सिग्नल्स
41535	मोहन एस पाटिल	इन्फैन्ट्री	41697	शम्भूनाथ शर्मा	इन्फैन्ट्री
41536	वासुदेव पाण्डे	ईएमई	41700	देवव्रत मिश्रा	आर्टी
41537	रोहित कुमार	इन्फैन्ट्री	41705	शरण दीप	ई एम ई
41547	रोहित गुप्ता	मैक इन्फैन्ट्री	41707	मनमोहन सिंह विल्लु	सिग्नल्स
41560	अनुपम कुमार गुप्ता	इन्फैन्ट्री	41710	जया कुमार सिन्हा	आर्टी
41568	राजेश राणा	ए ओ सी	41714	संजय कुमार	ए एस सी
41572	अनिल कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री	41715	बीरेन्दर कुमार बगल	आर्टी
41576	गुरबिन्दर सिंह विक्र	इन्फैन्ट्री	41724	प्रभाकर रघुनाथ खाड़ी	इन्फैन्ट्री
41579	रतन कुमार दत्ता	ई एम ई	41726	सिंह राज वर्मा	इन्फैन्ट्री
41580	प्रभजोत सिंह मंगत	इंजीनियर्स	41728	जशवंत सिंह पंधेर	इन्फैन्ट्री
41586	निर्वाण भटनागर	इन्फैन्ट्री	41730	प्रकाश सी वस्टर्ड	इन्फैन्ट्री
41590	हितेश चौपरा	ए सी	41731	राजीव कुमार भोंगिया	इन्फैन्ट्री
41591	जगदीप सिंह लौटे	आर्टी	41735	गुरदीप सिंह भंडाल	सिग्नल्स
41593	देविन्दर जीत सिंह	ए ओ सी	41753	मंगल मूर्ति मसुर	आर्टी
41596	विश्वजीत चटर्जी	सिग्नल्स	41757	बसलीनगप्पा एस थारागती	सिग्नल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
41759	अंजन कुमार सिकदर	सिगनल्स	41925	आनंद एन ठाकुर	इंजीनियर्स
41763	विशु सिक्का	ए ओ सी	41926	अजय एच चौहान	मैक इन्फैन्ट्री
41767	गगनदीप सिंह कोच्चर	आर्टी	41927	शिवेन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
41782	उदय राज सिंह बिष्ट	ईन्ट	41928	प्रवेज कुमार हांडा	इंजीनियर्स
41786	राजीव हांडा	आर्टी	41929	रविन्द्र सिंह भादुरिआ	इन्फैन्ट्री
41811	सतपाल सगवाल	ए एस सी	41931	भूदेव सिंह गंगवार	इन्फैन्ट्री
41815	हरि किशोर दुबे	ए ई सी	41932	किंकर सिंह जून	इन्फैन्ट्री
41828	स्वरूप सिंह मिनहास	ए ई सी	41933	अजीत बी मेनन	इंजीनियर्स
41829	सुनीत चन्द्र नैथानी	ए ई सी	41934	सुनील पुरी गोस्वामी	ए डी ए
41830	वीरेन्द्र नाथ चतुर्वेदी	ए ई सी	41935	विजय बक्शी	ए सी
41836	आशोक कौल	ए ई सी	41938	सुरेश चन्द	ए एस सी
41841	आनंद स्वारूप पॉल	ए ई सी	41939	संजय साहनी	ई एम ई
41851	जगदेव सिंह	ए ओ सी	41941	संतोष कुमार शर्मा	सिगनल्स
41853	ललित जोशी	इन्फैन्ट्री	41942	एम वी अब्राहम	आर्टी
41854	गोविन्द सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री	41944	संसार चन्द कटोच	ए ओ सी
41855	मोहन चन्द्र मिश्रा	ए ओ सी	41946	सदानंद सिंह	इन्फैन्ट्री
41856	नवीन आहुजा	इंजीनियर्स	41948	हसमुखा पटेल	ईन्ट
41857	राजवीरेन्द्र सिंह खुर्ब	ईन्ट	41949	आर आई एस मेहता	ए सी
41865	पंकज के कुमारिया	ए सी	41951	राजू चौहान	इन्फैन्ट्री
41869	अरविन्द भाटिया	इन्फैन्ट्री	41955	मोहन लाल असवल	ए ओ सी
41876	अरविन्द सिंह	ए डी ए	41959	सरबजीत सिंह देउसी	इन्फैन्ट्री
41879	गुरप्रीत सिंह संघेरा	ए सी	41960	अश्वनि कुमार चान्नन	आर्टी
41880	महिन्द्र सिंह यादव	आर्टी	41964	अनुराग शुक्ला	इन्फैन्ट्री
41881	राकेश कपूर	ए ओ सी	41965	बहादुर सिंह कैरा	ई एम ई
41888	राजीव मिश्रा	आर्टी	41966	बालकृष्ण एन	सिगनल्स
41889	यदलापाली श्रीनिवास गनेश	आर्टी	41967	कोरथू वी मैथ्यू	इंजीनियर्स
41890	चन्द्र मोहन आर	आर्टी	41970	अनुपम शर्मा	ए सी
41891	अजय कुमार राय	इन्फैन्ट्री	41974	चैतन्या कुमार	ए डी ए
41892	सुरिन्दर पाल सिंह मल्होत्रा	इन्फैन्ट्री	41977	धर्मवीर सिंह सुहाग	इन्फैन्ट्री
41893	प्रफुल्ला जी पवार	इन्फैन्ट्री	41978	जय प्रकाश पोर्टलिया	इन्फैन्ट्री
41897	योगिन्दर कुमार चहर	इन्फैन्ट्री	41980	के एन राधाकृष्णन	इंजीनियर्स
41904	अमरजीत सिंह	ए ओ सी	41983	मुकेश संगुरी	इन्फैन्ट्री
41906	संजय राय	इन्फैन्ट्री	41984	सुभाष चन्द्र त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री
41908	सुधीर बहल	ए सी	41991	सुनील कुमार	इन्फैन्ट्री
41910	सुबीर के शर्मा	ई एम ई	41995	प्रेम तशेरिंग	इन्फैन्ट्री
41911	राजिन्दर पाल सिंह	इन्फैन्ट्री	41997	नरेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
41912	तरुण कुमार चावला	आर्टी	41998	संजय साह	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
41999	लोके वर्मा	इन्फैन्ट्री	42134	राम कुँवर लाल श्रीवास्तव	ईन्ट
42001	पंकला हर्ष वर्धन	इन्फैन्ट्री	42140	अनुपम सिन्हा	इन्फैन्ट्री
42007	राजेश कक्कर	ई एम ई	42143	पी वादया भास्कर	आर्टी
42013	सुभाष चन्द्र ढल	सिग्नल्स	42147	धर्म पाल सिंह राघवा	इन्फैन्ट्री
42016	सुरेश सिंह	इंजीनियर्स	42151	राजीव कुमार त्यागी	सिग्नल्स
42017	जसविन्दर सिंह	आर्मी ए वी एन	42153	आत्मा प्रकाश सेगन बक्शी	आर्टी
42018	रतन सिंह	ए ओ सी	42168	आर मलेवर	आर्टी
42023	संजीव विनोद पांडेय	आर्मी ए वी एन	42171	समीर काला	ए सी
42024	उदय एस हनमशेत	इन्फैन्ट्री	42181	सुनील शिव दास	ए सी
42025	राजेश सिंह बैस	इन्फैन्ट्री	42184	रघुबीर सिंह	ए डी ए
42028	रविन्द्र सिंह फोगट	ए सी	42189	नरेन्द्र सिंह परमार	इन्फैन्ट्री
42036	रणविजय सिंह	ई एम ई	42198	अशोक कुमार पाण्डेय	इंजीनियर्स
42037	सुलती राजू श्रीराम	आर्टी	42214	प्रह्लाद सिंह राठौर	ए एम सी
42038	विजय पाल सिंह पुनिया	ए ओ सी	42231	अनिल कुमार राय	ए एस सी
42041	गणेश राजकांथन	इन्फैन्ट्री	42243	ई एस दयाल	इंजीनियर्स
42042	राजीव राघव	मैक इन्फैन्ट्री	42244	अनुराग सलवान	इंजीनियर्स
42046	शिविन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री	42247	एस संगम	सिग्नल्स
42054	अरुण कुमार चंदेल	ए सी	42251	आर रामा राव	ई एम ई
42062	त्रिजय कुमार पति	इन्फैन्ट्री	42252	जे पी सिंह	सिग्नल्स
42068	कोमरनेनी पबेआ चौधरी	इन्फैन्ट्री	42268	आर एस ओजला	ए सी
42070	अनिल दूवेदी	आर्टी	42272	वाई पी सरोहा	ए डी ए
42074	राकेश के गढहोक	इंजीनियर्स	42274	पी भटनागर	ए डी ए
42080	राजीव बाली	ए ओ सी	42275	संदीप सिंह	ए सी
42083	अजाद सिंह रहेल	ईन्ट	42276	ए एस दुआ	ए सी
42088	अनिल राज	आर्टी	42277	एस सुधाकर	इन्फैन्ट्री
42098	राजिन्दर सिंह राठौर	आर्टी	42279	संजीव कुमार	ए सी
42101	जुगल किशोर शुक्ला	आर्टी	42280	गीरिश भंडारी	इन्फैन्ट्री
42103	रविन्द्र वी डोल	इन्फैन्ट्री	42281	हरि ओम जुनेजा	ई एम ई
42104	प्रवीण हीथ	ए सी	42282	आर जी पाटिल	इन्फैन्ट्री
42107	सुधीर शर्मा	ई एम ई	42284	रंजीत सिंह	ए डी ए
42110	महेश सिंह	इन्फैन्ट्री	42290	आनंद सिंह	ए ओ सी
42115	नरेंद्र शर्मा	सिग्नल्स	42291	आर एच देशमुख	ईन्ट
42116	करियाकोस ए के	इन्फैन्ट्री	42294	एस झा	ए सी
42119	रविन्दर माजुपदर	इन्फैन्ट्री	42295	एस जोशी	इन्फैन्ट्री
42120	चन्द्र कांत परुथी	सिग्नल्स	42296	एस सरदाना	ए डी ए
42121	नीलिङ्गल सिंह	ए ओ सी	42297	जी रामाचन्द्रन	इन्फैन्ट्री
42126	दीपक कुमार सासन	आर्टी	42298	यू द्विवेदी	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
42303	वेरिएर सुरेश	सिग्नल्स	42388	जी विनोद	इन्फैन्ट्री
42304	मुनीश नन्दा	इन्फैन्ट्री	42395	एम जी वेंकटेश	इन्फैन्ट्री
42306	विवेक पाठक	इन्फैन्ट्री	42397	कान्नन आर	आर्टी
42313	एन डी प्रसाद	मैक इन्फैन्ट्री	42406	एस के कपूर	इन्फैन्ट्री
42315	परमजीत सिंह	ए ओ सी	42410	मिसर आई गुंडागी	ए ओ सी
42316	अतुल्य सैनी	इन्फैन्ट्री	42413	बी एस मलिक	ए सी
42317	केशव राय	आर्टी	42419	आर एल मिथा	ए एस सी
42319	अजय दीक्षित	सिग्नल्स	42421	जोस पीटर	ईन्ट
42324	डी के नोटियाल	ए सी	42428	संजीव शौरिए	इन्फैन्ट्री
42326	अवतार सिंह	इन्फैन्ट्री	42429	रमेश आर	ए ओ सी
42328	अरविन्द गांगोली	ए ओ सी	42430	एस मनीश	आर्टी
42333	एन सी चिंचावाड़े	आर्टी	42434	डी एस बैसला	ए ओ सी
42334	राकेश गोथल	इन्फैन्ट्री	42442	सबरवाल एस	आर्टी
42337	के डी एस साहनी	आर्टी	42450	वरघीस एम पी	आर्टी
42342	दलबीर सिंह	मैक इन्फैन्ट्री	42454	भट्टाचार्य एस के	आर्टी
42345	एन शुक्ला	आर्टी	42456	एल के शर्मा	ई एम ई
42346	एस के मल्होत्रा	मैक इन्फैन्ट्री	42460	के एस संगवान	ए एस सी
42348	एस वाजपेई	इन्फैन्ट्री	42462	आर के गौतम	इन्फैन्ट्री
42349	वी जी भटनागर	आर्टी	42463	एस एस जून	इन्फैन्ट्री
42353	गोविन्द प्रसाद	ए एस सी	42470	वी के चमोली	इंजीनियर्स
42356	अजय पाल	आर्टी	42474	अनिल कुमार सेठी	सिग्नल्स
42357	एन के वेंकटेश	आर्मी ए बी एन	42478	आलोक वैद	ए एस सी
42362	ए एस संधू	ए सी	42479	परमजीत सिंह वर्मा	इन्फैन्ट्री
42364	जे एस नेहरा	इन्फैन्ट्री	42481	वर्मा ए के	आर्टी
42365	परलाद सिंह	इन्फैन्ट्री	42486	भाग सिंह	इन्फैन्ट्री
42366	केटन एन शाह	सिग्नल्स	42487	सावंत एस	ए डी ए
42370	अजय कुमार सिंह	आर्टी	42490	बी के साहू	इन्फैन्ट्री
42373	शरद पालिवाल	आर्मी ए बी एन	42497	श्रीनिवासन वी	ए डी ए
42374	बेदी पी एस	आर्टी	42498	विजय भगत	इन्फैन्ट्री
42378	ए एच छेत्री	आर्टी	42501	राजवीर सिंह	ए ओ सी
42379	क्षेत्री डी बी	आर्टी	42502	आर पी एम पंचाल	इन्फैन्ट्री
42380	ए के त्यागी	इन्फैन्ट्री	42503	राजीव शर्मा	सिग्नल्स
42381	ए के बन्दोपध्याय	इन्फैन्ट्री	42514	वीरेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
42383	आर एस राणा	इन्फैन्ट्री	42516	ओम प्रकाश गुलिया	इन्फैन्ट्री
42384	तिवारी बी के	आर्टी	42520	टी वर्मा	आर्टी
42386	राजू जार्ज	इन्फैन्ट्री	42521	आई एस दिल्लीन	आर्टी
42387	सुरिन्दर सिंह	ए सी	42530	एम के शर्मा	इंजीनियर्स

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
42532	वी एस प्रभाकर	इन्जीनियर्स	42660	तुषार राय	ए ओ सी
42538	ए सोलंकी	इन्फैन्ट्री	42666	ए एम केटारिया	ए ओ सी
42546	रमन शर्मा	इन्फैन्ट्री	42667	एम एन बी पी शर्मा	इन्फैन्ट्री
42553	महेन्द्र एस पाटिल	इन्फैन्ट्री	42676	जे संधू	इन्फैन्ट्री
42556	एम जे एस पठानिया	मैक इन्फैन्ट्री	42679	जे पी सिंह	ई एम ई
42557	टी एस गिल	ए डी ए	42682	के एस आजाद	इन्जीनियर्स
42559	ए डब्ल्यू निकम	आर्टी	42685	पुरुषोत्तम कुमार	इन्जीनियर्स
42560	ए मैसी	ए ओ सी	42696	अनिल कुमार	इन्जीनियर्स
42561	आई जी आनंतनारायणन	आर्टी	42704	ए के बारु	ई एम ई
42563	नंद लाल सिंह	ए एस सी	42741	आर पाण्डेय	सिग्नल्स
42572	बी पी शाही	आर्टी	42742	हेमंत	ईन्ट
42575	एस सिवाराम	इन्फैन्ट्री	43168	डी सी दहिया	ई एम ई
42577	संजीव एस वोहरा	इन्फैन्ट्री	43170	एम एस कट्रेक्टर	इन्जीनियर्स
42579	आर पी टुटेजा	इन्फैन्ट्री	43171	मोहन राम	इन्जीनियर्स
42583	करमिन्दर सिंह	मैक इन्फैन्ट्री	43174	वी के मलिक	इन्जीनियर्स
42585	ज्ञानोदय	इन्फैन्ट्री	43175	एस एन शरदचन्द्र	ई एम ई
42588	शरदेदु	आर्टी	43179	पी आर मेनन	सिग्नल्स
42590	एस के शर्मा	ए डी ए	43186	ए के सक्सेना	ई एम ई
42592	एस के एन दीक्षित	ए डी ए	43191	सी वी गोपाल	ई एम ई
42593	एम एल शर्मा	आर्टी	43192	विनीत एच डेनिएल	सिग्नल्स
42595	एस डी मिश्रा	ए एस सी	43195	जे एस चौहान	सिग्नल्स
42598	रोहित कुमार	इन्जीनियर्स	43197	अतुल कोहली	इन्जीनियर्स
42601	अमृत पाल सिंह	इन्फैन्ट्री	43199	के एस मुर्थी	ई एम ई
42603	पी एस भाटिया	ए डी ए	43202	जतिन्दर सिंह	इन्जीनियर्स
42614	अरविन्द कुमार	ए सी	43205	पी के जेना	ई एम ई
42616	वी के सिंह	ए सी	43211	गौतम नारायणन	ई एम ई
42617	सन्नी बक्शी	ए एस सी	43619	एस एम कुलकर्णी	ई एम ई
42621	राजेश धर	ई एम ई	43621	एस कुमारन	इन्जीनियर्स
42623	एस आर नायर	इन्फैन्ट्री	43622	एस एस हुंडल	इन्जीनियर्स
42629	वाई मैत्रे	ए डी ए	43626	शंतानु अनिखिंदी	इन्जीनियर्स
42630	सी एन राव	मैक इन्फैन्ट्री	43627	आर एस दलाल	ई एम ई
42634	आर के शर्मा	ए ओ सी	43632	चन्द्र पाल सिंह	इन्जीनियर्स
42635	एन बी मिशेन	ईन्ट	43635	वी एस बाबू बी एस	इन्जीनियर्स
42640	एस एस चोपरा	इन्फैन्ट्री	43645	कमल कांत	इन्जीनियर्स
42643	के बिश्नोई	इन्फैन्ट्री	44005	ए टी वर्धाश	सिग्नल्स
42654	ओमवीर सिंह	इन्फैन्ट्री	44006	वी के राथी	इन्जीनियर्स
42655	बी आर कृशावाहा	इन्फैन्ट्री	44010	सी डी सिन्हा	ई एम ई



आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
44017	किशोर गीर बावा	इन्जीनियर्स	45124	प्रदीप कुमार	इन्जीनियर्स
44021	बी वी रवि कुमार	इन्जीनियर्स	45126	नरेन्द्र कुमार	इन्फैन्ट्री
44028	श्रीनिवासन रामामुर्थी	ई एम ई	45127	जोगिन्दर सिंह	ए सी
44032	एस एस झा	सिग्नल्स	45130	कुलजिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
44425	एम आर शंकर ओजा	ई एम ई	45132	सुनील कुमार राठी	ए सी
44439	नरेन्द्र त्यागी	इन्जीनियर्स	45134	शिव शंकर प्रसाद सिंह	ईन्ट
44446	जी के मुखर्जी	इन्जीनियर्स	45138	सुन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
44454	कुलदीप सिंह	इन्जीनियर्स	45140	महेन्द्र सिंह यादव	ए सी
44466	राजीव शर्मा	इन्जीनियर्स	45141	दिनेश सिंह बिष्ट	आर्टी
45004	परवेश तालवर	इन्फैन्ट्री	45143	दलबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
45011	जगदीप सिंह भण्डारी	इन्फैन्ट्री	45147	कुमार एम वी	ई एम ई
45012	के पी शर्मा	इन्जीनियर्स	45151	शिवू सरकार	ईन्ट
45013	सुनील ढिंगरा	इन्फैन्ट्री	45152	वी के सिंह	ए सी
45016	मदन मोहन उनियाल	इन्फैन्ट्री	45162	अनिल रैना	इन्फैन्ट्री
45020	कृष्ण चन्द्र	ई एम ई	45168	रंजीत राय हांडा	ए ओ सी
45021	जसबीर सिंह	आर्टी	45170	आलोक अखोरी	ए ओ सी
45023	आर एस यादव	आर्मी एवीएन	45175	रणधीर सिंह	मैक इन्फैन्ट्री
45026	जूड डी रौक	इन्फैन्ट्री	45177	संदीप सिंह संधू	ए सी
45028	अनूप कुमार ठाकुर	इन्फैन्ट्री	45180	वीरेन्द्र मोहन	जैग
45034	ए कुमार	ए एस सी	45191	राजिन्दर सिंह शेखावत	इन्फैन्ट्री
45041	अजय कुमार सूद	सिग्नल्स	45193	अतुल कौशिक	इन्फैन्ट्री
45044	सोदरा पांडेयन	इन्फैन्ट्री	45197	गुरमिन्दर सिंह	आर्टी
45048	आर एन गोखले	इन्फैन्ट्री	45199	सतीशन पी वी	इन्फैन्ट्री
45049	स्टिफेन ए	इन्फैन्ट्री	45200	राजेन्दर कुमार	जैग
45070	देव राज सिंह	ए ओ सी	45201	सुनील दिवान	ए डी ए
45071	विनोद दत्ता	ए ओ सी	45206	सुरेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
45076	श्राम कुमार राजीव	ए ओ सी	45209	भूपिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
45083	अनुज सिंह सिद्धू	इन्फैन्ट्री	45211	राजेश कुदंरा	इन्फैन्ट्री
45085	कुलजीत सिंह	ए सी	45213	राघवन वी एस	ए सी
45090	डी एस कुशवाहा	ए एस सी	45215	रविन्द्र कुमार भण्डारी	इन्फैन्ट्री
45091	अश्वनि कुमार जी सी	ईन्ट	45219	सरबिन्दर पाल सिंह बुट्टर	आर्टी
45094	कुलभूषण भरद्वाज	ए ओ सी	45220	राजदीप आनंद	ए सी
45095	प्रदीप कुमार तिवारी	आर्टी	45221	नरेश कुमार	आर्टी
45097	एस बोस चौधरी	ईन्ट	45225	मनोज कुमार चानन	ए सी
45115	भरपुर सिंह	आर्टी	45229	जोशुआ डेविड अरुण कुमार	इन्जीनियर्स
45116	अशोकन के	ए डी ए	45234	हरिन्दर पाल सिंह	आर्टी
45117	रमेश एन	सिग्नल्स	45235	शशवंत कुमार सिंह	ईन्ट

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
45236	जातिन्दर सिंह चौहान	ए सी	00977	धौमस के एस	सिग्नल
45238	धोमस साबू	आर्टी	00978	ससीधरन नायर पी आर	इन्जीनियर
45241	निसार शरिफ	इन्फैन्ट्री	00979	प्रेम चन्द	ई एम ई
45242	परविन्दर सिंह	इन्जीनियर्स	00980	अरविन्द कृष्ण सी	सिग्नल
45246	ईश्विन्दर सिंह सहदेव	इन्फैन्ट्री	00981	बदमानाबन	इन्जीनियर
45247	हरबजन सिंह फागुरा	मैक इन्फैन्ट्री	00982	जयराम तनवर	मैक इन्फैन्ट्री
45250	हरमिन्दर सिंह मदान	इन्फैन्ट्री	00983	बाला कृष्ण एम	आर्टी
45252	राजेश तनेजा	इन्जीनियर्स	00985	ओम प्रकाश त्रिपाठी	ई एम ई
45255	रविचन्द्रन आर	इन्जीनियर्स	00986	बोधराज	इन्फैन्ट्री
45256	रवि श्रीनिवास एस	आर्टी	00987	अरविन्द कुमार थापा	इन्फैन्ट्री
45260	महेश आनंद	आर्टी	00988	प्रकाश चन्द वर्मा	इन्फैन्ट्री
45262	पलकमशेट्टी गणेश कुमार नाईडू	इन्फैन्ट्री	00989	गुरनाम सिंह	आर्टी
45263	कुलवंत सिंह नाडियाल	इंजीनियर्स	00990	शरत चन्द्र महान्त	ई एम ई
45273	उदय चन्द यादव	आर्टी	00991	कृष्ण लाल	मैक इन्फैन्ट्री
45275	इन्द्र सेन सिंह	जैग	00992	प्रफुल्ला चन्द्रन ई	ई एम ई
45291	पुनीत सलहोत्रा	मैक इन्फैन्ट्री	00994	आर कनानाई रेड्डी	इन्फैन्ट्री
45294	आनंद सोनटाके	ए सी	00995	जगदीश प्रसाद	इन्फैन्ट्री
45295	प्रसाद आर एफ डी सुरेन्द्र	इन्फैन्ट्री	00996	के मुर्गास्वामी	ए एस सी
45296	राजिन्दर सिंह मेहता	ई एम ई	00997	कृष्ण बहादुर	इन्फैन्ट्री
45301	मनोज कुमार वशिष्ठ	ई एम ई	00998	बलबीर सिंह	सी एम पी
45302	विनय कुमार सिंह	ए सी	00999	गुरचरण सिंह	इन्फैन्ट्री
45306	राजीव कुमार दरेहा	ई एम ई	01000	बलकार सिंह	इन्फैन्ट्री
45325	प्रदीप कुमार झा	ई एम ई	01001	घासीराम चौधरी	इन्फैन्ट्री
45332	रणबीर सिंह	ए सी	01003	धर्मपाल यादव	आर्टी
45336	पी के यादव	ए सी	01004	बच्चे सिंह मेहरा	इन्फैन्ट्री
45339	दलविन्दर सिंह	ई एम ई	01005	भवानी सिंह	इन्फैन्ट्री
45343	दीपक वशिष्ठ	ई एम ई	01006	जी सीनिराज	इन्फैन्ट्री
45345	आर आर एन शिंदे	ए सी	01007	धर्मपाल	सिग्नल
45352	राजीव सन्नन	जैग	01008	विरेन्द्र सिंह तोमर	इन्फैन्ट्री
--16 दिसम्बर 2004			01009	सुखबीर सिंह	इन्फैन्ट्री
नियमित सेना			01010	गणेश चन्द	इंजीनियर
रजिमेंटल कमीशन			01011	बलवालकर आर जी	सिग्नल
कप्तान से मेजर			01012	भौसले के पी	सिग्नल
आई सी सं.	नाम	आर्म	01013	इन्दर बहादुर गुरंग	सिग्नल
00974	दुराईस्वामी नायकर सुबरमनी	इन्फैन्ट्री	01014	एम मूथू राम	इंजीनियर
00975	परगासम	इंजीनियर	01015	विनोद कुमार सिंह	सिग्नल
00976	गोविन्द सिंह	इन्फैन्ट्री	01016	गुरू राम डोंगरा	ई एम ई

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
01017	बहादुर सिंह	ई एम ई	01056	सावंत अनन्त दामोदर	इंजीनियर
01018	जसमीन्दर सिंह बन्धेर	ई एम ई	01057	हृदय नन्द शर्मा	इन्फैन्ट्री
01019	मोहन एम आर	इंजीनियर	01058	ब्रह्म सिंह	इन्फैन्ट्री
01020	राममोहन पाण्डे	सिग्नल	01059	किशोर सिंह सेखावत	इन्फैन्ट्री
01021	मुरलीधरन नायर पी	इंजीनियर	01060	वसन्त कुमार बी के	सिग्नल
01022	हरबन्स लाल	इन्फैन्ट्री	01061	शिव विजय सिंह	ई एम ई
01023	उमा शंकर ठाकुर	इंजीनियर	01062	बाल करन सिंह मान	आर्टी
01024	प्रदीप कुमार बरुवा	ई एम ई	01063	राधे श्याम सिंह यादव	आर्टी
01025	कुलदीप सिंह	सिग्नल	01064	विजय पाल सिंह	ए एस सी
01026	बलविन्दर सिंह	आर्टी	01065	पी बी गुरंग	मैक इन्फैन्ट्री
01027	राजन सी ओ	ई एम ई	01066	जसमिन्दर पाल	ईन्ट
01028	श्रीधरन पिल्लई टी पी	सिग्नल	01067	राजिन्दर सिंह गुरंग	इन्फैन्ट्री
01030	पुरषोत्तमन सी	सिग्नल	01069	सुशील कुमार पाण्डे	ई एम ई
01031	सुखदेव सिंह	इन्फैन्ट्री	01070	जोसफ के पी	ई एम ई
01032	देवेन्द्र पाल	इन्फैन्ट्री	01071	सुरिन्दर सिंह	ई एम ई
01033	रघवीर सिंह	इन्फैन्ट्री	01073	बृम्हरबार साहू	सिग्नल
01034	विनोद कुमार थापा	इन्फैन्ट्री	01074	विजयपाल सिंह तोमर	इन्फैन्ट्री
01035	सी पी गोपीमोहन	इंजीनियर	01075	राधे श्याम पाण्डे	आर्टी
01036	पी देवदास	इंजीनियर	01076	अजीत सिंह शिवरेन	इन्फैन्ट्री
01037	श्रवण सिंह	इन्फैन्ट्री	01077	एस ए बाशा	ए सी
01038	पी शेखर	सिग्नल	01078	सत्यवीर सिंह डांगी	इन्फैन्ट्री
01039	सुखविन्दर सिंह	ए सी	01079	नोपे सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री
01040	चौक बहादुर थापा	इन्फैन्ट्री	01080	लुगड बाबा साहिब भागूजी	सिग्नल
01041	श्रीमन लाल	ए सी	01084	सुधाकरन नायर के पी	ई एम ई
01042	यसम सुब्बा रायडू	सी एम पी	01085	बच्चन सिंह चन्देल	ई एम ई
01043	कमलेश नन्दी	सी एम पी	01086	प्रताप सिंह	सिग्नल
01044	गजे सिंह	ए सी	01087	रामकुमार राम	ई एम ई
01045	बलविन्दर सिंह	सिग्नल	01088	बिरेन्दर कुमार तपबाल	इन्फैन्ट्री
01046	सुरेश चन्द्र यादव	ई एम ई	01089	रत्न सिंह	सिग्नल
01047	वरगीश पी सी	ई एम ई	01090	ए जोसेफ	आर्टी
01048	जारे भानुदास साम्बाजी	आर्टी	01091	चन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री
01050	विश्वानाथ चकलादर	आर्टी	01092	लीटा सन्डो	आर्टी
01051	राजवीर सिंह	आर्टी	01093	के एल शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री
01052	गुलाब सिंह	आर्टी	01095	रमेश कुमार रसैले	इन्फैन्ट्री
01053	नटबर जेना	सिग्नल	01096	सुरेश कुमार	मैक इन्फैन्ट्री
01054	चन्दन सिंह	इन्फैन्ट्री	01097	पवार साहेब राव रघुनाथ राव	सिग्नल
01055	सथीस कुमार एस	आर्टी	01098	अरविन्द कुमार	मैक इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म
01099	खम बहादुर गुरंग	इन्फैन्ट्री
01100	सुखदेव सिंह	सिग्नल
01101	कृष्ण कुमार झा	सिग्नल
01102	मोहनन ई पी	सिग्नल
01103	यू वेंकटेश्वरलू	सिग्नल
01104	एस मुर्गसन	सिग्नल
01105	प्रत्याप सिंह बिष्ट	सिग्नल
01106	चिदानन्दा प्रभु	सिग्नल
01107	बलबन्त सिंह	सिग्नल
01108	पुलक कुमार हाजरा	सिग्नल
01109	रेशम सिंह	सिग्नल
01110	सुदर्शन सिंह पठानिया	आर्टी
01111	नितिश चन्द्र घोष	सिग्नल
01112	रामदेव सिंह सगरसर	आर्टी
01113	ए के घोष	सिग्नल
01114	बिक्रम सिंह शर्मा	इन्फैन्ट्री
01115	नारायणन नायर के	ई एम ई
01116	हेम राज सकलानी	इन्फैन्ट्री
01117	मोहम्मद सलीम	इंजीनियर
01118	के सुजान सिंह	सिग्नल
01119	योहानन डेनियल	ई एम ई
01120	जय सिंह	ई एम ई
01121	के डी एस जामवाल	ए सी
01122	शमशेर सिंह	सिग्नल
01123	प्यार सिंह अत्री	इन्फैन्ट्री
01124	धन्नाराम	ए सी
01125	बलवीर सिंह	ए सी
01126	देवासीस सिंह	इन्फैन्ट्री
01127	कृष्ण बहादुर खत्री	इन्फैन्ट्री
01128	सुदेश सिंह जाट	इन्फैन्ट्री
01129	कृष्ण बहादुर राना	इन्फैन्ट्री
01130	राजिन्द्र प्रसाद गुलेरिया	इन्फैन्ट्री
01131	रोहतास सिंह	आर्टी

--16 दिसम्बर 2004

के एस वर्मा  
संयुक्त निदेशक  
एम एस 8 सी

सेना शाखा		
राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नत करते हैं :--		
नियमित सेना		
स्थाई कमीशन		
कप्तान से मेजर		
आई सी सं.	नाम	आर्म
56051	सन्दीप दुहान	ए डी आर्टी
56052	जोगिन्दर सिंह	ए डी आर्टी
56053	दीपक सन्धु	ए सी
56054	रोहित पाण्डे	मैक इन्फैन्ट्री
56055	राजेशवर सिंह बाजाद	इन्फैन्ट्री
56056	त्रिवेणकटसन शिर्णोय	इन्जीनियर्स
56057	शशांक कुशवाहा	इन्फैन्ट्री
56058	जी भास्कर	इन्फैन्ट्री
56059	पी सेन्थिल कुमार	आर्टी
56060	डेक्सटर नागले	इन्फैन्ट्री
56063	हिमान्शु पाण्डे	आर्टी
56064	जतिन्दर सिंह	आर्टी
56066	गिरीश सिंह	इन्फैन्ट्री
56067	गौरव छिब्बर	ई एम ई
56068	इवनीत सिंह बेदी	ए डी आर्टी
56069	अरविन्द चौधरी	इन्फैन्ट्री
56072	मानवेन्द्र सिंह मान	इन्फैन्ट्री
56073	अनिल कुमार	आर्टी
56074	राजेश मोर	आर्टी
56075	गौतम पठानिया	इन्फैन्ट्री
56076	अभय सिंह	इन्फैन्ट्री
56078	नितिन त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री
56079	किशन बहादुर गुरंग	इन्फैन्ट्री
56080	अनिल कुमार रैना	मैक इन्फैन्ट्री
56081	अनिल कुमार शर्मा	ए डी आर्टी
56083	आशीश अवस्थी	सिग्नलस
56084	आर एस राजीव	इन्फैन्ट्री
56085	प्रणव कान्त शाह	इन्फैन्ट्री
56086	निशीथ सहाय	मैक इन्फैन्ट्री
56087	रमेश सरियाल	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
56088	रोशन जमीर	ए डी आर्टी	56128	विभोर गुप्ता	ए सी
56089	अनुज मान	आर्टी	56129	अरूण कुमार चौची	इन्फैन्ट्री
56090	द्विज किशोर	ई एम ई	56130	क्लिफर्ड जार्ज	ई एम ई
56091	अरविन्दर पाल सिंह	इन्फैन्ट्री	56131	मुशफ़ीक अहमद खान	ए एस सी
56092	सच्चिदानन्द प्रभु	जैग	56132	अतुल चौधरी	आर्टी
56094	सुशान्त सेखर बोस	इन्जीनियर्स	56133	रोहिताशव पनवर	ए डी आर्टी
56095	नीरज साहनी	आर्टी	56134	समीर चौधरी	इन्फैन्ट्री
56096	जी एस विनोद	आर्टी	56135	अनुराग गंजवार	आर्टी
56097	विकास डिमरी	इन्जीनियर्स	56136	अरूण प्रकाश	ए डी आर्टी
56098	सूरज एस नायर	इन्फैन्ट्री	56137	योगेश कुमार	इन्फैन्ट्री
56099	स्कंद नाथल	इन्फैन्ट्री	56139	आशुतोश वेद्य	आर्टी
56100	रजनीश गुलिया	ए डी आर्टी	56140	अनुज कायस्था	आर्टी
56101	प्रदीप कुमार	इन्फैन्ट्री	56141	रितेश रंजन	इन्फैन्ट्री
56102	जसबीर सिंह	ए एस सी	56143	अमर शर्मा	इन्फैन्ट्री
56104	पवन शर्मा	इन्जीनियर्स	56144	राजेश मिश्रा	आर्टी
56105	राकेश कुमार	इन्फैन्ट्री	56145	योगेन्द्र चिनवान	इन्फैन्ट्री
56107	चन्द्र प्रकाश नगर कोटी	इन्जीनियर्स	56146	टोनी चेरियन	आर्टी
56108	शुभाजीत तरफदार	आर्टी	56147	विजयन थापा	इन्फैन्ट्री
56109	निर्मल जीत सिंह सिद्ध	इन्फैन्ट्री	56150	लक्ष्मन ओझा	ए ओ सी
56111	संजीव हरयाल	आर्टी	56151	अजीन कुमार के	जैग
56112	हिमान्शु कन्डपाल	आर्टी	56152	अवनिन्दर	इन्फैन्ट्री
56113	आशीश चतुर्वेदी	ए सी	56153	अमित कुमार शर्मा	ए एस सी
56114	धरमबीर सिंह रावत	इन्फैन्ट्री	56154	अमन बिष्ट	आर्टी
56115	यादविन्दर सिंह	इन्जीनियर्स	56155	दीपक कुमार दयाल	इन्फैन्ट्री
56116	विनीत सूदन	ए एस सी	56156	कुलदीप सिरोही	इन्फैन्ट्री
56117	उपेन्द्र प्रसाद	इन्फैन्ट्री	56157	मुथूप्पा एम डी	इन्फैन्ट्री
56118	मेडपल्ली सुधाकर	ई एम ई	56158	राकेश कुमार	ई एम ई
56119	सरबजीत सिंह	ए डी आर्टी	56159	अनीश शर्मा	ए डी आर्टी
56120	राने सुमित मधुसूदन	ई एम ई	56160	कौशिक कुमार सेन	इन्जीनियर्स
56121	शाशवत डोवल	ए एस सी	56161	अक्षय कुमार सिंह	ई एम ई
56122	अजय कन्डवाल	इन्फैन्ट्री	56162	सुरिन्दर पाल सिंह	इन्फैन्ट्री
56123	सौरभ शाह	इन्फैन्ट्री	56163	रमेश चन्दर	इन्फैन्ट्री
56125	अन्शु सहाय	मैक इन्फैन्ट्री	56164	नितेश कृष्णा	इन्फैन्ट्री
56126	अनवर शेख	आर्टी			
56127	विनय आलूवालिया	आर्टी			

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
56165	त्रिवेक कन्दारी	आर्टी	55570	सुबोध वर्मा	इन्फैन्ट्री
56166	शंकर पाण्डे	आर्टी	55572	पमलजीत	इंजीनियर्स
56167	नितिन चोपड़ा	आर्टी	55574	पी जोस	ई एम ई
56168	सौरभ शर्मा	इन्फैन्ट्री	55585	पी हनी	ई एम ई
-- 05 मई 2005			55588	जे एल श्रीनिवासन	इंजीनियर्स
स्थायी कमीशन कप्तान से मेजर			55596	अमरनाथ त्रिपाठी	ई एम ई
आई सी सं.	नाम	आर्म	55604	हिमान्शु पाण्डे	इंजीनियर्स
54311	अनुराग त्यागी	इंजीनियर्स	55610	राहुल कुमार गुप्ता	ई एम ई
54323	बिसाखादित्य रिमानी	सिग्नल्स	55613	संजय शेखर	इंजीनियर्स
54349	देवन्द्र सिंह	सिग्नल्स	55615	राजीव कुमार	ई एम ई
54359	शिन्दे कमलेश मानिक राव	इन्फैन्ट्री	55616	अग्रेश कुमार सिंह	सिग्नल्स
54373	अभीक कार	इंजीनियर्स	55618	आर लाजी पिल्लई	इंजीनियर्स
54378	सनगोल एस	सिग्नल्स	56615	हरदीप सन्धु	इंजीनियर्स
54394	कुमार रजनीश	सिग्नल्स	56632	मनोज कुमार	ई एम ई
54407	मनीश सहगल	ई एम ई	56635	विनय गुप्ता	सिग्नल्स
54414	साजू सी बी	सिग्नल्स	56649	रंजीत कुमार	सिग्नल्स
54436	हरिन्दर सिंह सन्धु	सिग्नल्स	56661	कर्वर सन्दीप पाल सिंह सोढी	सिग्नल्स
54474	अमित कुमार बत्रा	ई एम ई	56667	अरूण भण्डारी	सिग्नल्स
54518	अमर सिंह राजपूत	सिग्नल्स	56686	वी आनन्दन	सिग्नल्स
54537	जागतार सिंह	सिग्नल्स	56696	निखिल सिन्हा	सिग्नल्स
54547	शैलेन्द्र कुमार सिंह	ई एम ई	56715	सचिन भूषण	ई एम ई
54548	तरूण कांगसा बानिक	सिग्नल्स	56731	सन्दीप कुमार	इंजीनियर्स
54549	भास्कर देवदास भट्टाचार्य	इंजीनियर्स	56740	कृष्ण कान्त शर्मा	ई एम ई
55440	विजुप निनान	ई एम ई	56742	एम राजेश	सिग्नल्स
55445	एन सिवा कुमार	इंजीनियर्स	56754	चन्न प्रीत सिंह	सिग्नल्स
55447	राजीव जामवाल	इंजीनियर्स	56767	अनुराग वालिया	सिग्नल्स
55448	विक्रम सिंह ठाकुर	ए डी आर्टी	56809	कुलकर्णी आशुतोष चन्द्रकान्त	सिग्नल्स
55479	कुमार पंकज सिंह	ई एम ई	56811	प्रभात शंकर चन्द्र शेखर	सिग्नल्स
55484	एन श्री रमेश	ई एम ई	56828	डी मुखर्जी	सिग्नल्स
55536	हरमिन्दर सिंह	ई एम ई	56839	अनिल कुमार के वी	सिग्नल्स
55550	सन्दीप रोहिल्ला	सिग्नल्स	56842	नितिन कौल	सिग्नल्स
55552	विनय भारद्वाज	इंजीनियर्स	56847	मयंक त्रिपाठी	ए सी
55554	राजेश राना	ई एम ई	56854	नवजीत सिंह	सिग्नल्स
55567	पी जे प्रभाकरन	सिग्नल्स	56866	विशाल मिश्रा	सिग्नल्स
			56874	सेकत सरकार	सिग्नल्स

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
56885	मनीष थपलीयाल	सिग्नल्स	54315	विकास भोला	मैक इन्फैन्ट्री
56886	विकास प्रभाकर	सिग्नल्स	54316	महाशाबदे प्रभाकर हरी	आर्टी
56890	धीरेन्द्र सिंह कपूर	ई एम ई	54317	सौरभ वत्स	इन्फैन्ट्री
56906	गुरप्रीत सिंह ओवराय	ई एम ई	54318	विरेन्द्रा कुमार शर्मा	आर्टी
58081	जसविन्दर पाल सिंह	ई एम ई	54319	भारत यादव	ए ओ सी
58092	आलोक सिंह	ई एम ई	54320	कंवर जीतेन्द्र सिंह	ए एस सी
58095	विकास कुमारिया	ई एम ई	54321	अमन दीप सिंह धोदी	ए सी
58099	दलविन्दर सिंह अटवाल	इंजीनियर्स	54322	वेनगुरु रवि	ए डी आर्टी
58101	वांगखेम सोमोरजीत सिंह	ई एम ई	54324	राहुल द्विवेदी	आर्टी
58120	सुदीप लाला	इंजीनियर्स	54325	हतीश कुमार पराशर	ए डी आर्टी
54286	जी शिवा कुमार	इंजीनियर्स	54326	रमेश कृष्ण	इन्फैन्ट्री
54287	विकास सिंह	इन्फैन्ट्री	54327	पीताम्बर मनीश हीराजी	इन्फैन्ट्री
54288	अनिल कुमार मलिक	इन्फैन्ट्री	54328	रोहित गुलाटी	इन्फैन्ट्री
54289	अनुज रामपाल	ए सी	54330	हिमांशु तिवारी	आर्टी
54291	सुभाशिश मिश्रा	ए डी आर्टी	54331	ललित पंनवर	इन्फैन्ट्री
54292	राकेश यादव	मैक इन्फैन्ट्री	54332	आशिष खन्ना	आर्टी
54293	जीतेश रल्ली	मैक इन्फैन्ट्री	54333	आर नटराजन	इन्फैन्ट्री
54294	अरविन्द सिंह खिमता	इन्फैन्ट्री	54336	अनुपम गौतम	ए एस सी
54295	जोजन कोचरी	ए डी आर्टी	54337	रोहित चलपथी	सिग्नल्स
54297	शैलेश असाती	सिग्नल्स	54338	निखिल देसपाण्डे	इन्फैन्ट्री
54298	रोहित गुप्ता	इंजीनियर्स	54339	आशुतोष त्रिपाठी	ई एम ई
54299	रिविन्दर सिंह राणा	आर्टी	54340	चिराग घूरा	इंजीनियर्स
54300	रजनीश मोहन	इन्फैन्ट्री	54341	आशुतोष द्विवेदी	एसी
54302	मनप्रीत सिंह	आर्टी	54342	गुरकीरत सिंह पुरी	इंजीनियर्स
54303	सूर्या प्रताप सिंह रावत	आर्टी	54343	अनुराग अग्रवाल	आर्टी
54304	संजीव कुमार यादव	ई एम ई	54344	सुनील त्यागी	ए एस सी
54305	हरमनदीप सिंह बैदवान	इन्फैन्ट्री	54345	सी एस शिवप्रसाद	इन्फैन्ट्री
54306	प्रदीप सिंह	इन्फैन्ट्री	54346	किरपाल सिंह गिल	इन्फैन्ट्री
54307	राजविन्दर सिंह मंगत	आर्टी	54347	अरदमनजी सिंह जुहाल	ए ओ सी
54309	ईश्वन्त सिंह	आर्टी	54348	के त्रीरुनाकारसू	ए एस सी
54310	चौधरी रणधीर बहादुर	ए ओ सी	54351	संजीव कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
54312	अमित सिंह	इन्फैन्ट्री	54352	सौमीत पाठक	इन्फैन्ट्री
54313	तपन कुमार पन्त	इन्फैन्ट्री	54353	पल्लव मिश्रा	इन्फैन्ट्री
54314	सी एन नानजपा	इन्फैन्ट्री			

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
54354	सोमनाथ वशिष्ठ	आर्टी	54396	दुर्गा शंकर	ए एस सी
54355	अश्विन नागपाल	आर्टी	54397	रघुदीप मनहास	इंजीनियर्स
54356	दिनेश दहिया	ई एम ई	54398	सौरभ मुखर्जी	आर्टी
54357	गौरव जैन	आर्टी	54399	सुशील बुगालिया	ए एस सी
54360	बनीत सिंह नेगी	इन्फैन्ट्री	54400	गणेश नागाराजन	इन्फैन्ट्री
54361	एलदोस पाल	ए एस सी	54401	दोमू कर्म चन्द्र	इन्फैन्ट्री
54363	समीर अधिकारी	इंजीनियर्स	54402	संजीव ठाकुर	इन्फैन्ट्री
54365	संजीव कुमार सिंह	ए ओ सी	54404	सिधार्थ सिंह	इंजीनियर्स
54366	नरिन्द्र शरावत	इन्फैन्ट्री	54405	राम कुमार नरवाल	सिग्नल्स
54367	नवीन सूरी	ए एस सी	54406	पी वी जी एस जयाराम	आर्टी
54368	प्रनव कुमार	इन्फैन्ट्री	54409	मेहता अंकुर भीमवाल	ई एम ई
54369	सतीश कुमार	ए ओ सी	54410	शमशेर जुंग	इन्फैन्ट्री
54370	वार्गीसन आर	ई एम ई	54411	विक्रान्त सिंह बिलवारिया	आर्टी
54371	प्रीतमोहिन्दर सिंह	इन्फैन्ट्री	54412	वेद पाल यादव	इन्फैन्ट्री
54372	राहुल सिन्हा	मैक इन्फैन्ट्री	54413	राजीव कुमार	इन्फैन्ट्री
54374	शकील अहमद	ए सी	54415	राजपाल सिंह	आर्टी
54375	संदीप कुमार महलवार	इन्फैन्ट्री	54416	मनु मोहन	ए डी आर्टी
54376	आदित्या जान पाल	आर्टी	54417	राहुल मनकोटिया	ए एस सी
54377	अखिलेश कुमार मिश्रा	ए एस सी	54418	राजीवन आर्याम्बथ	ए सी
54379	जितेन्द्र दीप सिंह	आर्टी	54419	फलेक्स कोर्लटिन	इन्फैन्ट्री
54380	संजय कुमार छौकर	ए एस सी	54420	अरिदम मुखर्जी	आर्टी
54381	राज विजय राय	इन्फैन्ट्री	54421	अमित आर गोरे	इंजीनियर्स
54382	पुनीत गोगिया	सिग्नल्स	54422	सिधार्थ शंकर	ई एम ई
54383	विपन कुमार चौधरी	ए डी आर्टी	54423	अनुपम भट्ट्याचार्जी	इन्फैन्ट्री
54384	विकास राव चौहान	ए ओ सी	54424	सौरभ कुमार	इन्फैन्ट्री
54386	शैलेन्द्र विष्ट	इन्फैन्ट्री	54425	निखिल गनपती	ए सी
54387	अमित माथुर	ए सी	54426	सत्या नारायन	इन्फैन्ट्री
54389	वी नन्दा कुमार	आर्टी	54427	अनुज सिंघल	सिग्नल्स
54390	गौरव डिमरी	ए सी	54428	अरुण सिंह असवाल	ई एम ई
54391	अभिजीत सकसेना	ए एस सी	54429	कमलदीप सिंह गुमान	ए सी
54392	आशिष वर्मा	आर्टी	54430	राज कुमार	इन्फैन्ट्री
54393	नीकेत सिंह नेगी	इन्फैन्ट्री	54431	नीतिन सहगल	ए एस सी
54395	मोहित नारंग	इन्फैन्ट्री	54432	महाजन अभिजीत वासुदेव	इन्फैन्ट्री



आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
54433	महेश कुमार	आर्टी	54469	जोय बोस	आर्टी
54434	रवि मध्योक	इन्फैन्ट्री	54471	विजय भारती सलवान	इंजीनियर्स
54435	प्रोदिपतो गोस्वामी	आर्टी	54472	नवदीप सन्धु	इण्ट
54437	दीपू थोमस	ए सी	54473	मनप्रीत कलेर	ए एस सी
54438	सुशील कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री	54475	समीर के पालन्डे	इन्फैन्ट्री
54439	संदीप कुमार	इन्फैन्ट्री	54476	नीगल अदरेन बारीटो	ए एस सी
54440	कुलप्रीत सिंह बावा	आर्टी	54477	मनीष कुमार जैन	इन्फैन्ट्री
54441	सौरभ पाण्डे	इण्ट	54478	दीपू-सीरोही	मैक इन्फैन्ट्री
54442	ईशान दलाल	इन्फैन्ट्री	54479	राकेश सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
54443	जतिन्द्र पाल सिंह खैरा	इन्फैन्ट्री	54480	पी श्रीनिवास नायडु	इन्फैन्ट्री
54444	महेन्द्र सिंह शेखावत	ए सी	54481	गौरव पुरी	आर्टी
54445	जादव रघुनाथ रामचन्द्र	सिग्नल्स	54482	दिवेन्द्र नरहरी कोटनिस	इन्फैन्ट्री
54446	गौरव सहगल	आर्टी	54483	सुधान्धु दीक्षित	ए सी
54447	सुनील जैथालिया	आर्टी	54484	रंजन चेंगप्पा	आर्टी
54448	राणा विकान्त	इण्ट	54487	जगन्नाथ झा	ए डी आर्टी
54449	रवि वर्मा	ई एम ई	54488	अरविन्द नाथ झा	इन्फैन्ट्री
54450	मनोज बतरा	ए एस सी	54489	विकास बहुगुणा	इन्फैन्ट्री
54451	हरिओम सिंह दहिया	सिग्नल्स	54490	अभिषेक राय	ई एम ई
54452	एन वी नानजन देशवरा	आर्टी	54491	राजीव नारायन शर्मा	इन्फैन्ट्री
54453	राईज्दा राजेश चंदेल	इन्फैन्ट्री	54493	विजय बल	आर्टी
54454	आशोक कुमार अहलावत	ए ओ सी	54494	पदमानाभन केई	आर्टी
54455	प्रभजोत सिंह	ए एस सी	54495	कुन्दन शर्मा	इन्फैन्ट्री
54456	विनय सदाशिवन	इन्फैन्ट्री	54496	परारुम चौहान	ए सी
54457	पदमासाम्बा अचार्या	इन्फैन्ट्री	54497	शिवांक माथुर	ए एस सी
54458	अमरवीर सिंह	ए डी आर्टी	54498	नीतिन शर्मा	ए एस सी
54459	रोहित शर्मा	ए सी	54499	एन कुमार दास	इन्फैन्ट्री
54460	सीजी फिल्लर्ड	ए एस सी	54500	दीपक बेक्टर	आर्टी
54462	राहुल त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री	54501	नीरज खुराना	इन्फैन्ट्री
54463	ज्ञान प्रकाश	ए एस सी	54502	नीतिन शर्मा	ई एम ई
54464	सुमान्तो बनर्जी	आर्टी	54503	मनोज सक्सेना	ए ओ सी
54465	विवेक गोयल	ए डी आर्टी	54504	कुलदीप सिंह दहिया	इन्फैन्ट्री
54466	टी एम लक्शा रेड्डी	ए डी आर्टी	54505	राजीव मेहता	इन्फैन्ट्री
54468	पारकर अमर सुधीर	सिग्नल्स	54506	डोनाल्ड सीमन पीटरस्	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
54508	के राजेश	ए ओ सी	54544	जोगिन्दर सिंह नेगी	ए एस सी
54509	पंकज कुमार साउल	इन्फैन्ट्री	54545	राहुल दलाल	ए ओ सी
54510	शम्भु नाथ ठाकुर	ए एस सी	54546	राहुल जयप्रकाश शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री
54511	संजीव कुमार यादव	ए डी आर्टी	54550	नारायण सिंह	इन्फैन्ट्री
54512	विक्रम सैणी	इन्फैन्ट्री	54551	देवीप्रसाद साहू	ए डी आर्टी
54513	संजय सिंह	इन्फैन्ट्री	54552	राजेश वनोट	इन्फैन्ट्री
54514	अमित शर्मा	आर्टी	54553	सुदीप सिन्हा	इंजीनियर्स
54515	सुजय राय	आर्टी	54554	प्राचीर नायर	आर्टी
54516	अभिनव कुमार	आर्टी	54555	कुमार विक्रम	आर्टी
54517	राहुल सिंह	ए सी	54556	समीक घोष	ए सी
54519	विवेक जामवाल	इन्फैन्ट्री	54560	दिगवेन्द्र सिंह	ए सी
54520	शिकार सोम शर्मा	इन्फैन्ट्री	54561	प्रशांत ध्यानती	ए एस सी
54521	विनोद मेहता	ई एम ई	54562	शान्तनु राय	इंजीनियर्स
54522	शिरशेन्दू मुखर्जी	इन्फैन्ट्री	54563	राजीव घोष	इन्फैन्ट्री
54523	समीर कुमार कौशिक	इन्फैन्ट्री	54564	अकाश शर्मा	इन्फैन्ट्री
54524	रामेन्द्रा दत्त शर्मा	आर्टी	54566	विनीत मेहता	ए ओ सी
54525	शमीन्दर सिंह जामवाल	ए डी आर्टी	54592	मोहम्मद ईकबाल हुसैन	ए ई सी
54526	अलोक गुप्ता	ए ओ सी	54594	मनोज कुमार लैंका	ए ई सी
54527	सुरेश नाथ	आर्टी	55302	राजेश सिंह चौहान	आर्टी
54529	राशी राज चरण	आर्टी	55304	राजीव सीरोही	ए सी
54530	हरशीन्द कुमार पाठक	इन्फैन्ट्री	55305	अमित पाल सिंह	ए डी आर्टी
54531	राजा जेसन सिंह	ए डी आर्टी	55306	तुषार मुखर्जी	इन्फैन्ट्री
54532	समीत वालिया	आर्टी	55307	राम चन्द्रन कुमार	आर्टी
54533	सागर कुमार मोहंती	ए सी	55308	वी जे एस रुपेरिया	आर्टी
54534	राव प्रशांत राममनोहर	इन्फैन्ट्री	55309	आनन्द आशोक पाठक	आर्टी
54535	अमरदीप सिंह	सिग्नल्स	55412	नागेन्द्र सिंह	ए ओ सी
54536	समीर भटनागर	ए ओ सी	55413	नीरज कुमार	आर्टी
54538	देवराज पात्रा	आर्टी	55414	परवेश कुमार मल्होत्रा	आर्टी
54539	नवीन शर्मा	इन्फैन्ट्री	55416	संजीव हडवाल	इन्फैन्ट्री
54540	श्याम कुमार शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री	55436	नसीब सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
54541	परमवीर सिंह जमवाल	मैक इन्फैन्ट्री	55437	जितेन्द्र मान	ए डी आर्टी
54542	अनुराग बाराकोटी	ई एम ई	55438	हरजोत सिंह राय	ए सी
54543	राम कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री	55439	अमर सिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
55441	राज कुमार गोधरा	ए एस सी	55480	संजय कुमार सलारिया	इन्फैन्ट्री
55442	प्रियंक त्रिपाठी	ए सी	55481	शशी धर दूबे	ए एस सी
55443	मनप्रवेश हेर	इन्फैन्ट्री	55482	राहील ईसरत	ए सी
55444	आलोक त्रिपाठी	मैक इन्फैन्ट्री	55483	सौरभ कुमार श्रीवास्तव	आर्टी
55446	धनजीत हुड्डरोम	इन्फैन्ट्री	55485	संजय जोशी	इन्फैन्ट्री
55449	सुशील कुमार मल्होत्रा	आर्टी	55486	रजनीकान्त सुदरीयाल	इंजीनियर्स
55450	संजय कुमार	इन्फैन्ट्री	55487	करण सिंह	इन्फैन्ट्री
55451	रवि दत्त शर्मा	इन्फैन्ट्री	55488	महेन्द्र सिंह	ए सी
55452	अतुल गोयल	ए एस सी	55489	अनिल कुमार छिकारा	ए एस सी
55453	समीर सिंह बिष्ट	इन्फैन्ट्री	55490	जीवन सन्धू	ए ओ सी
55454	हरपाल सिंह	सिग्नल्स	55491	अमित सिन्हा	इन्फैन्ट्री
55455	बलवन्त सिंह बोरा	इन्फैन्ट्री	55492	राजात्रुषि कार	आर्टी
55456	विनय रोथन	मैक इन्फैन्ट्री	55493	अनिल कुमार दिक्षित	ए डी आर्टी
55457	धीरेश त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री	55494	अमिताभ सिंह	आर्टी
55458	कृष्ण सिंह बधवार	इन्फैन्ट्री	55531	दुर्गा बीर राय	मैक इन्फैन्ट्री
55459	युधिष्ठिर संग्राम	इन्फैन्ट्री	55532	विवेक चौहान	मैक इन्फैन्ट्री
55460	विशाल सिंह राव	आर्टी	55533	नवराज सिंह मान	ए सी
55461	धनंजय एम भोसले	आर्टी	55534	दिवान सिंह धामी	इन्फैन्ट्री
55462	संदीप शर्मा	ए एस सी	55535	राजेश सिंह	इन्फैन्ट्री
55463	जैकव नीनन	आर्टी	55537	एस मलिक	मैक इन्फैन्ट्री
55464	रमाकांत शर्मा	इन्फैन्ट्री	55538	करण डोगरा	इन्फैन्ट्री
55465	निश्चल सलाथिया	आर्टी	55539	आशिष कुमार	आर्टी
55466	रजनीश जसरोटिया	इन्फैन्ट्री	55540	एच एस रावत	ए ओ सी
55467	भवदीप सिंह सिद्धू	ए डी आर्टी	55541	सतीश कुमार	आर्टी
55468	राहुल वर्मा	इन्फैन्ट्री	55542	एम मुशीर अहमद हैदरी	इन्फैन्ट्री
55469	टैरेंस एडविन दानिल	ए एस सी	55543	माईकल डिसूजा	इन्फैन्ट्री
55470	मुनीष तेजपाल	ए एस सी	55544	के एस नारायण	आर्टी
55471	सत्या देव पटीधर	सिग्नल्स	55545	एस आर दत्ता	ए डी आर्टी
55472	संदीप शर्मा	आर्टी	55546	समीर दीपक पावर	ए एस सी
55474	मोहित खोखरन	इन्फैन्ट्री	55547	विक्रम सिंह	इन्फैन्ट्री
55475	दिनेश एस शुक्ला	आर्टी	55548	कुलदीप सिंह	ए एस सी
55476	आंचल कुमार	इन्फैन्ट्री	55549	रत्नदेव सिंह बिलवारिया	ए सी
55478	विपन सौधी	ए एस सी	55551	एन आनन्द	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
55553	गैधात्री पराग रामचन्द्र	ए सी	55597	यतिन्द्र ननदल	आर्टी
55555	रोबी जार्ज	ए डी आर्टी	55598	रघु पठानिया	इन्फैन्ट्री
55556	दिवाकर मिश्रा	ए डी आर्टी	55599	जितेन्द्र शर्मा	ए एस सी
55557	अनिल चौधरी	ए ओ सी	55601	अमरदीप त्यागी	इन्फैन्ट्री
55558	कांदर जोगलेकर	ईण्ट	55602	सुदीप सिंह	आर्टी
55559	संजय कुमार मामगेन	आर्टी	55603	सतीश कुमार	आर्टी
55560	समीर एस बानेकर	आर्टी	55605	सरथ नायर वी एस आर	इन्फैन्ट्री
55561	पंकज कान्त खुनदूरी	इन्फैन्ट्री	55606	जय शंकर प्रसाद	आर्टी
55562	प्रभाल कुमार मिश्रा	आर्टी	55607	कुमार आर आर सिंह	इन्फैन्ट्री
55563	संजय एस कदम	ए एस सी	55608	विनीत मीधा	ए सी
55564	जगदीश कुमार	आर्टी	55609	ए एस बाजवा	ए डी आर्टी
55566	एस जेड ए रिजवी	इन्फैन्ट्री	55611	संजीव वर्मा	ए सी
55568	संदीप पाण्डे	इन्फैन्ट्री	55612	अब्बासी सादत नसीम	इन्फैन्ट्री
55569	डब्ल्यू प्रासून नाथ	आर्टी	55614	राजीव शर्मा	ए एस सी
55571	अमित परमार	इन्फैन्ट्री	55619	गौरव नोटियाल	आर्टी
55573	संजय यादव	आर्टी	55620	राजेश गोयल	ए एस सी
55575	राजीव चौधरी	इन्फैन्ट्री	55621	सुषान्त शुक्ला	इन्फैन्ट्री
55576	अदित्या श्रीवास्तव	ए डी आर्टी	55622	सुधीष चन्द्र	इन्फैन्ट्री
55577	अमिताभ शर्मा	ए सी	55623	कुशल राय	इन्फैन्ट्री
55580	पंकज कालरा	आर्टी	55624	अमित गणेश	इन्फैन्ट्री
55581	शंकर जी तिवारी	इन्फैन्ट्री	55626	रीप्पन त्रिपाठी	इन्फैन्ट्री
55582	मनोज कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री	55627	शक्ति कुमार सिंह	इन्फैन्ट्री
55583	ललन कुमार निशाद	इन्फैन्ट्री	56601	मिलन विनायक नालवाडे	इन्फैन्ट्री
55584	चिन्मया पाल स्मार्डल	इन्फैन्ट्री	56602	प्रशांत मलाहवत	ए सी
55586	तरुण कुमार	ए ओ सी	56603	निशान्त शर्मा	मैक इन्फैन्ट्री
55587	मनजीत मोहन मेलू	इन्फैन्ट्री	56604	राहुल केसर	ए टी आर्टी
55589	विजय कुमार	इन्फैन्ट्री	56605	नागीन्द्र रावत	मैक इन्फैन्ट्री
55590	अक्षय राणा	ए एस सी	56606	ए आर रामकृष्णा	इंजीनियर्स
55591	हिमांशु सावंत	इन्फैन्ट्री	56607	सी भरत कुमार	ए सी
55592	सुभाष चौहान	ए ओ सी	56608	मनेश नागपाल	इन्फैन्ट्री
55593	अरुण कुमार यादव	ए डी आर्टी	56609	अमित सागवान	इंजीनियर्स
55594	योगेश सेठी	ए डी आर्टी	56610	गौतम वी देसाई	इन्फैन्ट्री
55595	मनीष वर्मा	इन्फैन्ट्री	56611	दिनेश सिंह	इन्फैन्ट्री

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
56612	समीर धर	इन्फैन्ट्री	56651	रविन्दर सिंह छिब	ए एस सी
56613	नीपुन आनन्द	आर्टी	56652	संदीप कपूर	इन्फैन्ट्री
56614	सुमीत आर्या	आर्टी	56653	अमनदीप सिंह बैस	सिग्नल्स
56617	रवि कुमार	ए एस सी	56654	देवेन्दर कुमार मलिक	इन्फैन्ट्री
56618	जसवन्त सिंह नेगी	इन्फैन्ट्री	56655	सुखजिंदर सिंह	ई एम ई
56619	संदीप कुमार राकेश	इन्फैन्ट्री	56656	अमितोज सिंह	इन्फैन्ट्री
56620	मनीन्दर पाल सिंह	इन्फैन्ट्री	56657	रोहित उनियाल	ई एम ई
56621	सुरिन्दर सिंह मलिक	आर्टी	56658	विक्रम आनंत धोदापकर	ई एम ई
56622	अमित के शर्मा	इन्फैन्ट्री	56659	पंकज कोशिक	आर्टी
56624	राजेश नाम्बिआर	मेक इन्फैन्ट्री	56660	शर्मा संजीव विजय कुमार	आर्टी
56625	मनीष वाही	आर्टी	56662	कुलविन्दर सिंह ग्रेवाल	इन्फैन्ट्री
56626	विनय ढाका	ई एम ई	56663	अनिल कुमार गुप्ता	इन्फैन्ट्री
56627	पंकज शर्मा	ई एम ई	56664	अमित मेहना	सिग्नल्स
56628	मालविन्दर सिंह रंधावा	सिग्नल्स	56665	मुनीष जसरोटिया	ए एस सी
56629	विवेक कुमार गुप्ता	सिग्नल्स	56666	हरप्रीत सिंह लाबा	ई एम ई
56630	मनीष शर्मा	आर्टी	56668	गुरू कलसी	आर्टी
56631	सोनिन्दर सिंह	इंजीनियर्स	56669	दिपेन्द्र सिंह	इन्फैन्ट्री
56633	शशि भूषण गिलदयाल	आर्टी	56670	अलोक कुमार	ए सी
56634	अनुराग शर्मा	ई एम ई	56671	कमलेश कुमार पाण्डे	आर्टी
56636	राहुल मेकरल	आर्टी	56672	सुमेश पैनटिया	मेक इन्फैन्ट्री
56637	विशाल नायर	इंजीनियर्स	56673	विकास राज गुप्ता	ए डी आर्टी
56638	दीपक शीशोदिया	ई एम ई	56674	संमीत बतरा	ई एम ई
56639	जो साबो	इन्फैन्ट्री	56675	बिशाल दुबे	इन्फैन्ट्री
56640	विवेक रावत	ए सी	56676	दवेन्दर चौधरी	ए एस सी
56641	जितेन कृष्ण कुमार	ए डी आर्टी	56678	परमजीत सिंह	ए ओ सी
56642	विक्रमजीत सिंह नाट	आर्टी	56679	संजीत सिंह	इंजीनियर्स
56643	परमजीत सिंह बाजवा	ए एस सी	56680	इन्दर पाल सिंह	ए सी
56644	गुरप्रताप सिंह	ई एम ई	56681	एस मायल वेपानन	आर्टी
56645	नवनीत चैल	आर्टी	56682	दीपक चौबे	इन्फैन्ट्री
56646	वाकिल कुमार	इंफैन्ट्री	56683	धर्मेन्द्र सिंह	इंजीनियर्स
56647	संजीव कुमार आनन्द	इन्फैन्ट्री	56684	सिधार्था वर्मा	इंजीनियर्स
56648	सारंग आटे	इन्फैन्ट्री	56685	जय सिंह भट्टी	इंफैन्ट्री
56650	गौरव सियोरन	इन्फैन्ट्री	56687	अनिल कुमार त्रिपाठी	ए एस सी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
56688	हरदीप सिंह भूल्लर	ए सी	56726	ईरला रामा नरसिम्हा प्रसाद	ए सी
56689	संदीप सिंह औलख	इन्फैन्ट्री	56727	सय्यद फेसल अहमद	मेक इन्फैन्ट्री
56690	दीपक रीशि	ए ओ सी	56728	हरमीत सिंह कपूर	इन्फैन्ट्री
56691	तपस मण्डल	इन्फैन्ट्री	56729	आशुतोष दत्त शर्मा	सिग्नल्स
56692	नीरज सेनी	ए एस सी	56730	अलहद सुरेश पनधारकर	आर्टी
56693	अगिरुद्ध वाले	इन्फैन्ट्री	56733	शशि मोहन श्रीवास्तव	ए डी आर्टी
56694	गुरुराज कुलकर्णी	आर्टी	56734	इन्द्र सिंह चौहान	इंजीनियर्स
56695	के श्रीशील राज	इंजीनियर्स	56735	शैलेश कोपकर	इन्फैन्ट्री
56697	पी वी रामेश बाबू	ए डी आर्टी	56736	राजवीर सिंह	इन्फैन्ट्री
56698	अमित अवस्थी	ई एम ई	56737	पुष्कर राज	आर्टी
56699	अमित टिवाटिया	इन्फैन्ट्री	56738	सुदीप्ता घोष	इन्फैन्ट्री
56700	राजिन्दर सिंह पनवर	ई एम ई	56739	कुलदीप सिंह मेहरा	ए एस सी
56701	वादविन्दर सिंह परमार	इन्फैन्ट्री	56741	मुराई राजेन्द्र सिंह शंकरलाल	इंजीनियर्स
56702	मोहित नन्दराजोग	ए एस सी	56743	लवनीश पनघल	ए ओ सी
56703	संदीप सिंह कुमार	ई एम ई	56744	अजय दलाल	ए सी
56706	जेतन झिंगन	सिग्नल्स	56745	जगवीर लांबा	ए एस सी
56707	वरजिन्द्रा सिंह	इन्फैन्ट्री	56746	राजेश कुमार ठाकुर	ई एम ई
56708	सुधीरा के पी	इन्फैन्ट्री	56747	विजय पाण्डे	इन्फैन्ट्री
56709	मनीष कुमार	इन्फैन्ट्री	56748	सुमीत कोचर	ए डी आर्टी
56710	भास्कर साहनी	इंजीनियर्स	56749	धीरज सेठी	आर्टी
56711	विभूति मेनदोला	इंजीनियर्स	56751	गिरीश उपाध्या	इन्फैन्ट्री
56712	निश्चित रंजन	आर्टी	56752	विजय आनन्द जोशी	ए एस सी
56713	रोहित खन्ना	इन्फैन्ट्री	56753	पंकज दुग्गल	ए ओ सी
56714	विशाल गोईंधि	ए सी	56755	परमिन्दर सिंह	आर्टी
56716	हिमांशु पुन्डीर	इंजीनियर्स	56756	करप्रीत सिंह	ए सी
56717	सायीईश्वर अलगप्पा	ए ओ सी	56757	मनजिन्दर पाल सिंह	इंजीनियर्स
56718	सुदीप चटर्जी	आर्टी	56758	स्वप्न सेठी	इन्फैन्ट्री
56719	स्वामीनाथन पी	इन्फैन्ट्री	56759	जनमेजय एस	ए एस सी
56720	कैलाश सागर	ए ओ सी	56760	हरिश कुमार	ई एम ई
56722	शक्ति बजाज	ई एम ई	56761	अजय तोमर	ए ओ सी
56723	संदीप मलिक	ए एस सी	56762	नरेश कुमार सांगवान	इन्फैन्ट्री
56724	बिपन बहादुर सिंह	इन्फैन्ट्री	56763	सूबेदार सलीम मुलका	आर्टी
56725	अमित सूद	ए सी	56764	एम साई भूषण	आर्टी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
56766	श्याम सिंह शेखावत	ए एस सी	56801	विपुल सैनी	ए सी
56768	प्रीत बलजीत सिंह सरा	इन्फैन्ट्री	56802	राहुल शर्मा	इन्फैन्ट्री
56769	अंशुमन सक्सेना	ए ओ सी	56803	अनुजेन्द्रा सिंह अनंतल	इन्फैन्ट्री
56770	रत्नदीप दास	आर्टी	56804	सुखविन्दर सिंह	इंजीनियर्स
56771	जसविन्दर सिंह राहिल	आर्टी	56805	सिद्धार्थ उपाध्याय	ए ओ सी
56772	प्रगदीश एस	ए एस सी	56806	सुवीर सेठ	इन्फैन्ट्री
56773	सरवन्न जी	ई एम ई	56807	अतुल पाल	आर्टी
56774	प्रमजीत सिंह बक्शी	आर्टी	56808	के अनिल कुमार	इन्फैन्ट्री
56775	बालेन्दर सिंह भूलर	आर्टी	56810	अनुराग रावत	इंजीनियर्स
56776	अनय शंकर	इन्फैन्ट्री	56812	राहुल मोहन सेठ	इन्फैन्ट्री
56777	प्रशांत शर्मा	ए एस सी	56813	रोहित जोशी	इन्फैन्ट्री
56778	पुनीत कुमार	इंजीनियर्स	56814	अजय कोथिनो	आर्टी
56779	चरनजीत सिंह भल्ला	ई एम ई	56815	विवेक जोशी	इन्फैन्ट्री
56780	कंबर रानेश्वर सिंह	ए डी आर्टी	56816	सनत कबि	इन्फैन्ट्री
56781	शेखर गोयल	ई एम ई	56819	पंकज अहूजा	ई एम ई
56782	हिमांशु तिवारी	आर्टी	56820	सुदीप कुमार	इन्फैन्ट्री
56783	बक्शी राजीव शम्भूनाथ	ए एस सी	56821	रवि पाल सिंह राणा	इंजीनियर्स
56784	तेजवीर सिंह	इन्फैन्ट्री	56822	मोहित राव	इन्फैन्ट्री
56785	अभिषेय अधिकारी	इंजीनियर्स	56823	अरुण जग्गी	आर्टी
56786	एम एम हुसेन जुनैदी	आर्टी	56824	विशाल शर्मा	आर्टी
56787	गुरकिरपाल सिंह	ए एस सी	56825	प्रशांत मल्होत्रा	ई एम ई
56788	यगंगकोकपम अजित कुमार सिंह	आर्टी	56826	तेजपाल सिंह राणा	ई एम ई
56789	बिमल मेहरा	आर्टी	56829	मनीष गर्ग	इंजीनियर्स
56790	सुनील कुमार	ए ई सी	56830	गौरव सिंह	ए ओ सी
56791	कौस्तुभ	आर्टी	56831	मारुती मिश्रा	आर्टी
56792	पारस तोमर	इन्फैन्ट्री	56832	हरीश राणा	ए एस सी
56793	योगेश जोशी	इन्फैन्ट्री	56833	आशिष ढिंगरा	इंजीनियर्स
56794	हरिन्दर सिंह	ए ओ सी	56834	चन्दोला अतुल रामेश	इंजीनियर्स
56795	प्रोबल घोष	इन्फैन्ट्री	56835	चन्द्र कान्त शर्मा	इन्फैन्ट्री
56797	जितेन्दर सिंह	ई एम ई	56836	अजय उनियाल	इन्फैन्ट्री
56798	कुमार उमाशंकर	ए डी आर्टी	56837	डी सुषान्त	आर्टी
56799	संजीव कोहली	आर्टी	56838	सुमीत कुमार शर्मा	इन्फैन्ट्री
56800	प्रवीन कुमार	ई एम ई	56840	दलिन मैथ्यू	ए एस सी

आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
56841	मोहम्मद शोहेब खान	इन्फैन्ट्री	56881	समबित आचर्या	ई एम ई
56843	अमित भटनागर	ए सी	56882	नवीन कुमार राय	इन्फैन्ट्री
56844	प्रभात कोहली	आर्टी	56883	वैशानु प्रताप सिंह	ए सी
56846	रन्जन महाजन	इन्फैन्ट्री	56884	अभिनाश बर्मा	इन्फैन्ट्री
56849	सुरेश जी	ई एम ई	56887	ध्रुव ज्योति चन्दा	इन्फैन्ट्री
56850	ए एस रवि किरण	इन्फैन्ट्री	56889	करपालजीत सिंह	ए एस सी
56851	शरीक अहमद खान	आर्टी	56891	संदीप शर्मा	आर्टी
56852	प्रविशीत शर्मा	आर्टी	56892	मनिन्दर सिंह चौहान	इन्फैन्ट्री
56853	ईरफान जी कोलिनसन	मैक इन्फैन्ट्री	56893	विवेक सिंह धनाई	ई एम ई
56855	सन्देश सदानन्द अमिन	ए ओ सी	56894	विनय विशिष्ट	इन्जीनियर्स
56856	ओमीश सिंह राठौर	ए एस सी	56895	विक्रान्त सिंह	ए एस सी
56857	समीर सिन्हा	इन्फैन्ट्री	56896	सुनील रावत	इन्फैन्ट्री
56858	राहुल राजपूत	इन्जीनियर्स	56897	हिमान्यु कालिया	आर्टी
56859	गुनजन	ई एम ई	56898	गणेश वी राघवन	मैक इन्फैन्ट्री
56860	अंशुमन शर्मा	इन्फैन्ट्री	56899	संदीप विष्ट	ए ओ सी
56861	कंवल किशोर	इन्फैन्ट्री	56900	शिखर जेसवाल	इन्फैन्ट्री
56862	कौशिक सरकार	इन्जीनियर्स	56901	दीपक आनन्द	ए सी
56863	राकेश पाठक	इन्जीनियर्स	56902	अभिजीत बाबासाहिब अधगांवकर	आर्टी
56864	अनिल कुमार चौधरी	इन्फैन्ट्री	56903	नंदन सिंह डंगवाल	इन्फैन्ट्री
56865	मनीष सिंह राठौर	इन्फैन्ट्री	56904	प्रमोद नेगी	इन्जीनियर्स
56867	सरसर मुकन्द माधवराव	ई एम ई	56905	अमित विज	आर्टी
56868	अनिल कुमार सिंह पाटियाल	इन्फैन्ट्री	56916	हर्ष वर्धन सिंह विष्ट	ई एम ई
56869	रवि कुमार	इन्फैन्ट्री	56918	तीर्थानकर चक्रवर्ती	ए ई सी
56870	मानवेन्दर विनायक	ए डी आर्टी	56919	आशिष डोबहल	इन्फैन्ट्री
56871	साजल थापा	ए एस सी	56922	अरूण एम कुलकर्णी	ए ई सी
56872	राहुल शर्मा	ए सी	56925	राजेश राघव	ए ई सी
56873	प्रदीप नेगी	ई एम ई	58069	नीगोमबम हेमचन्द्रा सिंह	इन्जीनियर्स
56875	जसजीत सिंह	इन्फैन्ट्री	58071	गुरिन्दर सिंह उप्पल	इन्जीनियर्स
56876	अक्षय कुमार सिंह राणा	ए ओ सी	58072	ओक नीरंजन श्रीकान्त	इन्जीनियर्स
56877	अभिजीत कश्यप	ए सी	58073	अजीत सिंह	सिग्नल्स
56878	हरमीत सिंह अहलुवालिया	आर्टी	58074	सुखवीर पुनिया	सिग्नल्स
56879	अमित निगम	इन्जीनियर्स	58075	काजी ईमरान जावेद	ई एम ई
56880	संदीप चंदेल	ए डी आर्टी	58076	अतुल कुमार शुक्ला	सिग्नल्स



आई सी सं.	नाम	आर्म	आई सी सं.	नाम	आर्म
58077	नवीन शहरावत	सिग्नल्स	58561	रघुनाथ सिंह मिनहास	सिग्नल्स
58078	विश्वानाथ कानन	ई एम ई	58562	सरबप्रीत सिंह	सिग्नल्स
58079	सुरिन्द्र मोहन शर्मा	इन्जीनियर्स	58563	आशिष कुमार रोहनकर	इन्जीनियर्स
58080	विजया कुमार बी	ई एम ई	58564	एम बी सूरज	ई एम ई
58082	शैलेन्द्र सिंह	इन्जीनियर्स	58566	संदीप बजाज	सिग्नल्स
58083	अथाले अमित अनिल	ई एम ई	58567	पंकज शर्मा	सिग्नल्स
58084	शैलेश प्रसाद प्रधान	इन्जीनियर्स	58568	मोरे राहुल केशो राव	इन्जीनियर्स
58087	अमित कुमार नरुला	सिग्नल्स	58569	हरेन्द्र कुमार	ई एम ई
58088	सुनील कुमार तिवारी	इन्जीनियर्स	58570	देवन गोपाल लाल माखीजा	सिग्नल्स
58089	परमबीर सिंह	सिग्नल्स	58571	मनमोहन सिंह सिधू	इन्जीनियर्स
58090	एस सेनथिल रामाधुराई	इन्जीनियर्स	58572	जनार्धनम के	इन्जीनियर्स
58091	पेमा डाडूल ग्यासो	ई एम ई	58574	संजीव दत्ता	इन्जीनियर्स
58093	विक्रम पाउजा	इन्जीनियर्स	58575	गुरजीत सिंह	इन्जीनियर्स
58096	माथुर मयंक रामचन्द्रा	ई एम ई	58577	सिधार्थ शंकर पटनायक	इन्जीनियर्स
58097	तेजपाल सिंह मान	इन्जीनियर्स	58578	संजय पाण्डेय	ई एम ई
58100	रालेगांवकर अनूप अरविन्द	सिग्नल्स	58580	अनुज कुमार सिंह	ई एम ई
58102	ईंग्ले नीलेश रामदास	सिग्नल्स	58581	शरद चन्द सिंह	इन्जीनियर्स
58103	टी रवि कुमार रेड्डी	ई एम ई	58582	सुमीत अत्री	इन्जीनियर्स
58105	राजेश कुमार अग्रवाल	ई एम ई	58583	सैय्यद फराज जैदी	ई एम ई
58106	प्रसाद शरद महाजन	ई एम ई	58584	रोहित शर्मा	सिग्नल्स
58107	अमिताभ आनन्द कालेसनम	सिग्नल्स	58586	अंशु कुमार गुप्ता	ई एम ई
58108	ध्रमेन्द्र दलाल	इन्जीनियर्स	58587	एस राजेश अयर	इन्जीनियर्स
58109	दुष्यन्त	ई एम ई	58588	अनिन्दर जीत सिंह	ई एम ई
58110	पवनदीप सिंह	सिग्नल्स	58589	नीरज कुमार सिंह	सिग्नल्स
58111	सुब्रामनियम के एस	इन्जीनियर्स	56046	रोमी गुप्ता	सिग्नल्स
58113	अशोक राणा	सिग्नल्स	56047	अजय शाही	इन्जीनियर्स
58114	बौबी जोसफ	ई एम ई	56048	आर वामसी मोहन	इन्जीनियर्स
58115	वर्मा मधुकर अजीत	सिग्नल्स			
58116	आशुतोष वर्मा	ई एम ई			
58119	चिरदे गजानन वासुदेव	सिग्नल्स			
58124	कुमार संजय	सिग्नल्स			
58125	मुथिररेड्डी चन्दन कुमार	ई एम ई			
58127	ओमेन्द्र चौहान	ई एम ई			

--16 दिसम्बर 2004

चन्द्र प्रकाश

उप निदेशक

ए एम एस 8 सी

थल सेना विभाग

शुद्धि पत्र

सं. 496, दिनांक 8 सितम्बर 2005 के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. 29 दिनांक 17 जुलाई 2004 में शीर्षक नियमित सेना.

इन्फैन्ट्री, विशेष सूची द पंजाब रेजिमेन्ट उपशीर्षक सूबेदार के रैंक में पेज संख्या 952 के अन्तर्गत शुद्धि की जाती है।

के स्थान पर : नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-429020डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2003

पढ़ा जाए : नायब सूबेदार जगदीश चन्द्र (जेसी-429028डब्ल्यू),  
01 सितम्बर 2003

14 अगस्त 2002 के राजपत्र संख्या 33 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 412 दिनांक 15 जुलाई 2004 में शीर्षक "नियमित सेना" उप शीर्षक "इन्फैन्ट्री" और "जाट रेजीमेन्ट" के अन्तर्गत :--

के स्थान पर

नायब सूबेदार हरफूल सिंह (जेसी-488698पी), 23 जनवरी 2002\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाएगी)

पढ़ा जाए

नायब सूबेदार हरफूल सिंह (जेसी-488698पी), 23 जनवरी 2003\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2002 से दी जाएगी)

के स्थान पर

नायब सूबेदार पताप सिंह (जेसी-488796पी), 1 अगस्त 2002

पढ़ा जाए

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-488796पी), 1 अगस्त 2002

जोस थॉमस  
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE  
(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 15th October 2005

No. 486, dated 8th September 2005.—The President is pleased to appoint Shri B. Dutt, Assistant Financial Adviser CSS as Deputy Financial Adviser on ad-hoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) with effect from 12.08.2005 (FN).

M. C. LUTHER  
Dy. Financial Adviser (E)

—————  
D(MS)

No. 487, dated 9th September 2005.—The President of India has made the following appointments on his Honorary Personal Staff w.e.f. 01st May 2005:—

Honorary Air ADC

Air Mshl. S. Bhojwani, PVSM, AVSM, VSM (9734) F(P)

Air Mshl. A. Bhavnani, PVSM, AVSM, VM (10440) F(P)

S. D. BANGA  
Under Secy.

—————  
(ARMY BRANCH)

No. 488, dated 14th September 2005.—The President is pleased to make the following appointment (Direct Permanent Commission) under AI 37/78 as amended vide AI 11/02:—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

To be Lt (On Probation)

DR-10579Y Yuvraj Issar, 19 May 2005

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl DGDS

—————  
ARMY BRANCH

No. 489, dated the 14th September 2005.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer in the Permanent Commission on successful completion of probationary period of two years in terms of AI 37/78 as amended.

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(DIRECT PERMANENT COMMISSION)

CONFIRMATION

DR-10555P (AF-26942L) Fl Lt Shaleen Airon, 17 May 2003

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl DGDS

No. 490, dated the 8th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Major (GD)

Sub Raj Bhan Singh (JC-418161Y), 21 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub Maj wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Sub K G Skaria (JC-216442M), 07 Mar 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub Maj wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Sub Hawa Singh (JC-418619X), 01 May 2005\*

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Ram Chander (JC-419448H), 26 Apr 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Lalit Bahadur Sarangcoti (JC-419820F), 20 Jun 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Beg Bahadur Thapa (JC-419821X), 16 Jun 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jasanbir Singh (JC-418852L), 01 May 2005\*

\*(Granted notional seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Banarsi Dass (JC-419250K), 03 Jun 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sohan Lal (JC-419688A), 22 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Hari Dassan P (JC-419479H), 16 May 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 20 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Mohan Singh (JC-419439F), 01 May 2005

Nb Sub Harak Singh (JC-419312Y), 10 Jul 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-419355N), 10 Jul 2005\*

\*(Granted seniority in the rank of substantive Sub wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS  
Under Secy.

No. 491, dated 9th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

**REGULAR ARMY**

**PIONEER CORPS**

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub (GD) Rudal Rajak (JC-829236X), 01 Apr 2005

Nb Sub (GD) Bijai Kumar Lal (JC-829239M), 21 Apr 2005@

Nb Sub (GD) Sanischar Nayak (JC-829241K), 01 Apr 2005

• Nb Sub (GD) Prem Singh (JC-829242M), 09 May 2005#

@(Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

#(Granted seniority in the rank of Sub (GD) with effect from 01 May 2005 without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub (GD)

Hav (GD) Goutam Kumar Chowdhury (8029082N now JC-829321F), 11 Feb 2005\*

Hav (GD) Santosh Kumar (8029139X now JC-829322K), 09 Feb 2005\*

Hav (GD) Rattan Singh (8029191A now JC-829323M), 01 Mar 2005

Hav (GD) Amar Singh (8029313Y now JC-829324P), 11 Mar 2005@

Hav (GD) Subodh Sagar Chaurasia (8029363K now JC-829325X), 14 Mar 2005@

Hav (GD) Elias Lakra (8029226L now JC-829327H), 07 Apr 2005#

Hav (GD) K Kartikeyan (8029153K now JC-829328L), 01 Apr 2005

Hav (GD) Avadhesh Prasad Singh (8029012P now JC-829329N), 08 Apr 2005#

Hav (GD) Lallan Singh (8029764Y now JC-829330H), 11 Apr 2005#

\*(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Feb 2005 without effect on pay and allowances).

@(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Mar 2005 without effect on pay and allowances).

#(Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) wef 01 Apr 2005 without effect on pay and allowances).

**REGIMENT OF ARTILLERY**

To be Nb Sub (Clerk GD/SKsT)

Hav (Clk) Ramesh Kumar (No. 14467999F now JC-267656L), 01 Jan 2005/12 Nov 2003\*

Hav (Clk) Lal Kumar Roy (No. 14358191A now JC-267478N), 01 Jan 2005/12 Nov 2003\*

Hav (Clk) Ugra Narayan Yadav (No. 14483614H now JC-267552K), 01 Feb 2005/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Awdhesh Kumar (No. 14484171Y now JC-267657N), 04 Feb 2005/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Atar Singh (No. 14356400N now JC-267479W), 10 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Hav (Clk) Saviour PS (No. 14475700Y now JC-267480L), 01 Jan 2005

Hav (Clk) Shyamal Kumar Banerjee (No. 14476858N now JC-267547Y), 01 Jan 2005

Hav (Clk) Sri Krishan (No. 14483585Y now JC-267481N), 01 Jan 2005

Hav (Clk) Giridhari Lal (No. 14369435H now JC-267658W), 04 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Hav (Clk) Pradeep Bhagat (No. 14371012N now JC-267548F), 11 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Hav (Clk) Sudish Kumar Sharma (No. 14472232Y now JC-267549K), 01 Jan 2005

Hav (Clk) M Chandra Sekaran (No. 14350138A now JC-267859P), 05 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Hav (Clk) Naresh Kumar Sharma (No. 14369184K now JC-267550Y), 01 Jan 2005

Hav (Clk) Jai Prakash Tiwari (No. 14470207F now JC-267551F), 11 Jan 2005/01 Jan 2005\*

Hav (Clk) Mahender Singh Jat (No. 14359957L now JC-267482W), 01 Jan 2005

Hav (Clk) Abdus Selim (No. 14393004P now JC-267659Y), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Maman Singh (No. 14348186F now JC-267553M), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Nalini Kant Pani (No. 14370704W now JC-267660N), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Ramshiromani (No. 14483617W now JC-267661W), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Santhosh Kumar S (No. 14476861N now JC-267554P), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Ramjash Singh (No. 14366742P now JC-267769N), 05 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Hav (Clk) Prasanta Kumar Hazarika (No. 14484101A now JC-267662Y), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Sarwan Kumar (No. 14465165W now JC-267663F), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Raj Bahadur Mishra (No. 14361107A now JC-267555X), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Deep Chand (No. 14468507K now JC-267770H), 17 Feb 2005/01 Feb 2005\*

Hav (SKT) Ganga Sagar Pandey (No. 14484182L now JC-267664K), 01 Feb 2005

Hav (SKT) Amar Prakash (No. 14484848Y now JC-267665M), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Gurdial Singh (No. 14477755F now JC-267666P), 01 Feb 2005

Hav (SKT) Ram Pal (No. 14485171L now JC-267667X), 01 Feb 2005

Hav (Clk) Swaroop Chand (No. 14352546K now JC-267771L), 01 Mar 2005

Hav (Clk) Rajinder Kumar Sharma (No. 14353780M now JC-267772N), 01 Mar 2005

Hav (Clk) Karan Singh Pundeer (No. 14470141W now JC-267773W), 01 Mar 2005

Hav (Clk) Waman Rao Sirajlal Chauhan (No. 14354275W now JC-267774Y), 01 Mar 2005

Hav (Clk) Pyare Lal (No. 14471032W now JC-267775F), 01 Mar 2005

Hav (Clk) Mohan Singh (No. 14355453A now JC-267776K), 01 Mar 2005

Hav (Clk) Prem Singh (No. 14355850Y now JC-267777M), 01 Mar 2005

Hav (SKT) Bakul Saikia (No. 14346486K now JC-267778P), 01 Mar 2005

Hav (Clk) M Subramanian (No. 14356305F now JC-267860K), 01 Apr 2005

Hav (Clk) V Iyappan (No. 14356607N now JC-267861M), 02 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Hav (Clk) Lakshmanan AC (No. 14472953H now JC-267862P), 01 Apr 2005

Hav (Clk) Bhola Datt Chahali (No. 14356816L now JC-267863X), 01 Apr 2005

Hav (Clk) Durgesh Babu (No. 14357522K now JC-267779X), 01 Apr 2005

Hav (Clk) Radha Mohan Sharma (No. 14357662W now JC-267864A), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Rakesh Chandra (No. 14483986N now JC-267865H), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Hukum Singh (No. 14372459X now JC-267963H), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Suresh Chand (No. 14372461P now JC-267866L), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Udai Singh (No. 14485296H now JC-267867W), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Rajinder Kumar (No. 14485316L now JC-267964L), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Tarun Chandra Das (No. 14353348L now JC-267868W), 03 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Hav (SKT) Mohan Lal (No. 14371691W now JC-267965N), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Prakash (No. 14485298N now JC-267966W), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Raj Mohan Singh (No. 14354030A now JC-267869Y), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Banarshi Das (No. 14470686N now JC-267870N), 01 Apr 2005

Hav (SKT) Manphool Singh Sahrawat (No. 14355071W now JC-267967Y), 04 Apr 2005/01 Apr 2005\*

Hav (Clk) Babu Ram (No. 14358799P now JC-267871W), 01 Apr 2005

Hav (Clk) Ganapathi Bhat A (No. 14358923L now JC-267968F), 16 May 2005/01 May 2005\*

Hav (Clk) Kalyan Chand Verma (No. 14359345N now JC-267969K), 01 May 2005

Hav (Clk) Roop Singh Rathore (No. 14475743N now JC-267970Y), 01 May 2005

Hav (Clk) Gurlingayya Hiremath (No. 14355337X now JC-267000W), 01 July 2004

Hav (SKT) Unnikrishnan P (No. 14475684M now JC-267001Y), 01 July 2004

Hav (Clk) Rama Chandran Nair G (No. 14355576M now JC-267002F), 01 July 2004

Hav (Clk) Balraj Singh (No. 14471501N now JC-267003K), 06 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav (Clk) Satya Narayan Jha (No. 14471871N now JC-267004M), 01 Aug 2004

Hav (Clk) Jagan Nath (No. 14471993X now JC-267075N), 01 Aug 2004

Hav (Clk) Nand Singh (No. 14356113K now JC-267005P), 02 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav (Clk) Ranbir Singh (No. 14472650N now JC-267006X), 01 Aug 2004

Hav (Clk) Dharendra Kumar Bhatt (No. 14472661A now JC-267007A), 01 Aug 2004

Hav (Clk) Rabin Banerjee (No. 14356644F now JC-267008H), 01 Aug 2004

Hav (SKT) Hansraj Singh (No. 14370680X now JC-267177K), 06 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav (Clk) Gurmeet Singh (No. 14370994Y now JC-267076W), 02 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav (Clk) Ramesh Singh Kotya (No. 14484043F now JC-267009L), 01 Aug 2004

Hav (Clk) Himmat Singh (No. 14483990W now JC-267010A), 07 Aug 2004/01 Aug 2004\*

Hav (SKT) Ravindra Kumar (No. 14371169N now JC-267077Y), 01 Aug 2004

Hav (Clk) Narinderjit Singh (No. 14371041H now JC-267277P), 01 Sep 2004

Hav (Clk) Pradip Kumar Dash (No. 14371113F now JC-267178M), 03 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Hav (Clk) Ami Chand (No. 14371120X now JC-267078F), 01 Sep 2004

Hav (Clk) Vinod Kumar Rai (No. 14484173K now JC-267079K), 01 Sep 2004

Hav (Clk) Santosh Singh (No. 14371167H now JC-267080Y), 01 Sep 2004

Hav (Clk) Rotan Singh Rawat (No. 14483581H now JC-267179P), 01 Sep 2004

Hav (Clk) Rajbir Singh (No. 14483564H now JC-267180K), 11 Sep 2004/01 Sep 2004\*

Hav (Clk) Ashok Kumar (No. 14396180X now JC-267278X), 01 Oct 2004

Hav (Clk) Tapan Aich (No. 14358072K now JC-267394A), 13 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Siya Ram (No. 14483572F now JC-267279A), 14 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Chandra Bali Chaubey (No. 14353267L now JC-267181M), 04 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Man Singh (No. 14354450M now JC-267395H), 10 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Ranbir Singh Yadav (No. 14354654M now JC-267280P), 08 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Pradeep Kumar Naryal (No. 14470620X now JC-267361P), 12 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Dayal Hari Paul (No. 14355501P now JC-267396L), 11 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav (Clk) Ram Dhan (No. 14472880F now JC-267362X), 01 Nov 2004

Hav (Clk) Raj Singh (No. 14473299K now JC-267397N), 01 Nov 2004

\*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allowances).

To be Nb Sub

Hav Om Parkash (No. 14396937P now JC-267483Y), 18 Sep 2004/01 May 2004\*

Hav Ranbir Singh (No. 15108043L now JC-267484F), 04 Sep 2004/06 Jun 2004\*

Hav Rajinder Singh (No. 14467827M now JC-267485K), 26 Jul 2004

Hav Angad Mishra (No. 14476121Y now JC-267486M), 22 Nov 2004/25 Aug 2004\*

BHM B Venugopal (No. 14468478A now JC-267487P), 01 Nov 2004/31 Aug 2004\*

Hav Krishan Lal (No. 14495424H now JC-267488X), 17 Nov 2004/31 Aug 2004\*

Hav Parmender Singh (No. 15104142W now JC-267489A), 14 Nov 2004/01 Sep 2004\*

Hav Vijendra Pal Singh (No. 14353614Y now JC-267490P), 16 Nov 2004/01 Sep 2004\*

RHM Tarsem Singh (No. 14469404X now JC-267491X), 12 Nov 2004/01 Oct 2004\*

BHM Kanakarjan PT (No. 14471370N now JC-267492A), 02 Nov 2004/01 Oct 2004\*

Hav Ram Saran Singh (No. 14469851P now JC-267493H), 16 Nov 2004/01 Oct 2004\*

Hav Chain Singh (No. 14353866L now JC-267494L), 30 Oct 2004/28 Oct 2004\*

RHM Subhash Chandra Sharma (No. 14496026N now JC-267495N), 11 Nov 2004/01 Nov 2004\*

BHM Krishna Gopal Ghosh (No. 14352135L now JC-267496W), 01 Nov 2004

BHM K Venkataramanan (No. 14368618M now JC-267497Y), 24 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Hav Prem Singh (No. 14349018P now JC-267498F), 23 Dec 2004/17 Dec 2004\*

BHM Gurdeep Singh (No. 14491011F now JC-267499K), 17 Nov 2004/01 Aug 2004\*

Hav Jagroop Singh (No. 14466655W now JC-267500N), 19 Nov 2004/07 Aug 2004\*

Hav Muni Raj (No. 14362691P now JC-267501W), 19 Nov 2004/07 Aug 2004\*

Hav Katkar Kumar Hariba (No. 14483800Y now JC-267502Y), 18 Oct 2004/23 Aug 2004\*

RHM Rajinder Kumar (No. 14341652H now JC-267503F), 12 Nov 2004/29 Aug 2004\*

Hav Hari Singh (No. 14350155A now JC-267504K), 16 Nov 2004/30 Aug 2004\*

Hav Duni Chand (No. 14476193H now JC-267505M), 10 Dec 2004/31 Aug 2004\*

Hav Budh Ram (No. 14476105F now JC-267506P), 09 Nov 2004/01 Sep 2004\*

Hav Sardari Lal (No. 14360068A now JC-267507X), 11 Nov 2004/01 Oct 2004\*

Hav Surjit Singh (No. 14481284W now JC-267508A), 15 Nov 2004/01 Nov 2004\*

RHM Rajwant Singh (No. 14344295W now JC-267509H), 21 Dec 2004/01 Nov 2004\*

Hav Ramanand (No. 14371572A now JC-267510X), 01 Nov 2004\*

Hav Durlov KR Phukon (No. 15112152P now JC-267511A), 26 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Hav Mithilish Kumar Yagik (No. 14365458M now JC-267512H), 26 Nov 2004/01 Nov 2004\*

BHM Ranjen Engti (No. 14471506M now JC-267513L), 03 Dec 2004/03 Nov 2004\*

RHM Dhanesh Kumar Tragi (No. 14345286F now JC-267514N), 05 Dec 2004/29 Nov 2004\*

BHM Satya Ranjan Patra (No. 14369695N now JC-267556A), 08 Oct 2004/01 Apr 2004\*

Hav Puran Chand Yadav (No. 14354240A now JC-267557H), 01 Jun 2004

Hav Ganga Darshan Kumar (No. 14480203Y now JC-267558L), 04 Oct 2004/01 Jul 2004\*

Hav Chandra Bhan Yadav (No. 14487046A now JC-267559N), 22 Nov 2004/19 Jul 2004\*

BHM Rajbir Singh (No. 14482672A now JC-267560H), 29 Nov 2004/01 Aug 2004\*

RHM Raj Singh (No. 14359252Y now JC-267561L), 29 Nov 2004/01 Aug 2004\*

Hav Sechan Ram (No. 14366490N now JC-267562N), 22 Nov 2004/22 Aug 2004\*

Hav Ramadhar Thakur (No. 14475912K now JC-267563W), 19 Sep 2004/25 Aug 2004\*

Hav Jamuna Prasad Vishwakarma (No. 14363911A now JC-267564Y), 14 Dec 2004/26 Aug 2004\*

Hav Ram Phal (No. 14340915K now JC-267565F), 16 Dec 2004/31 Aug 2004\*

Hav Thomachan VJ (No. 14350556P now JC-267566K), 08 Nov 2004/31 Aug 2004\*

Hav Anant Ram (No. 15103564P now JC-267567M), 17 Nov 2004/08 Sep 2004\*

BHM Ramesh Chander (No. 14484461W now JC-267568P), 23 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav KV Sankaran (No. 14480555W now JC-267569X), 01 Nov 2004/01 Oct 2004\*

BHM Babu Lal (No. 14474480N now JC-267570M), 16 Dec 2004/01 Oct 2004\*

Hav G Palanivel (No. 14343981X now JC-267571P), 06 Nov 2004/01 Nov 2004\*

Hav Narender Singh (No. 14376883X now JC-267572X), 11 Dec 2004/01 Apr 2004\*

Hav Gagan Thapa (No. 14348624Y now JC-267573A), 06 Sep 2004/28 May 2004\*

Hav Raveendran A (No. 14486357F now JC-267574H), 14 Aug 2004/01 Jun 2004\*

RHM Girish Chandra (No. 14466381W now JC-267575L), 17 Jan 2005/17 Aug 2004\*

Hav Lal Chand (No. 14467159F now JC-267576N), 25 Nov 2004/24 Aug 2004\*

Hav Kanerkar Rajaram Tukaram (No. 14373579H now JC-267577W), 03 Jan 2005/01 Sep 2004\*

Hav Sukdeb Pal (No. 14488402F now JC-267578Y), 01 Jan 2005/01 Sep 2004\*

BHM Sardha Nand (No. 14482658N now JC-267579F), 30 Oct 2004/01 Oct 2004\*

Hav Hari Kumar (No. 14486452N now JC-267580W), 30 Oct 2004/01 Oct 2004\*

RHM Langote Popat Pralhad (No. 14467707N now JC-267581Y), 16 Jan 2005/06 Oct 2004\*

BHM Mahendra Prasad (No. 14482830K now JC-267582F), 01 Jan 2005/01 Nov 2004\*

BHM Narayanan P (No. 14375102M now JC-267583K), 20 Jan 2005/17 Nov 2004\*

Hav Mahesh Chand Sharma (No. 14478177K now JC-267584M), 17 Jan 2005/01 Dec 2004\*

BHM Rampirithi Singh Yadav (No. 14364798H now JC-267585P), 17 Jan 2005/01 Dec 2004\*

BHM Shaik Mahabu Subhani (No. 14362581A now JC-267586X), 01 Jan 2005

Hav Ramesh Chander (No. 14391257L now JC-267587A),  
14 Jan 2005/01 Jan 2005\*

\*(Gtd seniority wef).

M. M. SINGH  
Under Secy.

No. 492, dated the 14th September 2005.—The President  
is pleased to make the following promotion (PC) under AI  
37/78 as amended vide AI 11/02:—

REGULAR ARMY  
ARMY DENTAL CORPS  
(PERMANENT COMMISSION)

Captain to be Major

DR-10563N Venugopal MG, 21 Mar 2005

PARAMJIT SINGH  
Maj Gen  
Addl DGDS

No. 493, dated the 13th September 2005.—The President  
is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
(ARMY MEDICAL CORPS)

Brig (& equivalent) to be Maj Gen (& equivalent)

AB Chattopadhyay (MR-03267A), 02 Jul 2004 with  
notional seniority without effect on pay & pension from 02  
Jun 2004.

NK Bhandari (MR-02668H), 18 Nov 2004 with notional  
seniority without effect on pay & pension from 01 Oct 2004.

M Srivastava (MR-02670A), 01 Mar 2005

Lt Col (& equivalent) to be Gp Capt (& equivalent)

SH Aithal (MR-04509K)(AF-26948B), 15 Nov 2003 with  
notional seniority without effect on pay & pension from 19  
Oct 2003.

R. KAMRAN  
Brig  
Dy. DGAFMS (P)

No. 494, dated the 13th September 2005.—The President  
is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION

Lt Cols to be Substantive Col (By Time Scale)

IC-36546L Lt Col PG Govinda Kumar, AD Arty—16 Dec  
2004

IC-37058P Lt Col HR Tiwari, AD Arty—16 Dec 2004

IC-30955H Lt Col Phool Singh, AEC—16 Dec 2004

IC-35705L Lt Col Birendra Kumar, AOC—16 Dec 2004

IC-33993K Lt Col PK Ahluwalia, ADA—16 Dec 2004

IC-33351P Lt Col Ramdev Pillai, AOC—16 Dec 2004

IC-25117K Lt Col AK Prasad, Arty—16 Dec 2004

IC-25603F Lt Col Siddhartha Bose, Arty—16 Dec 2004

IC-27477Y Lt Col RK Bagga, Arty—16 Dec 2004

IC-30188P Lt Col DK Chowdhury, Arty—16 Dec 2004

IC-30394Y Lt Col Sumit Sen, Arty—16 Dec 2004

IC-35319Y Lt Col NN Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-35592N Lt Col Gurvinder Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-35642N Lt Col DP Singh, Arty—16 Dec 2004

IC-35759M Lt Col Sudhir Sood, Arty—16 Dec 2004

IC-36374F Lt Col Abraham Habbi, Arty—16 Dec 2004

IC-36838N Lt Col KVL Narasimhan, Arty—16 Dec 2004

IC-37272X Lt Col Anto Chacko, Arty—16 Dec 2004

IC-31905K Lt Col US Agashe, ASC—16 Dec 2004

IC-34579X Lt Col Sardar Singh, ASC—16 Dec 2004

IC-34616A Lt Col SC Chadha, ASC—16 Dec 2004

IC-36865X Lt Col Edwin Jesudoss, ASC—16 Dec 2004

IC-37145H Lt Col IP Kohli, ASC—16 Dec 2004

IC-37269X Lt Col KP Singh, ASC—16 Dec 2004

IC-35671H Lt Col Samson Tewari, EME—16 Dec 2004

IC-35866N Lt Col TM Paul, EME—16 Dec 2004

IC-27293A Lt Col SS Yadav, Engrs—16 Dec 2004

IC-34655Y Lt Col KS Charak, Engrs—16 Dec 2004

IC-35170H Lt Col RE Koshy, Engrs—16 Dec 2004

IC-35394H Lt Col R Mukherjee, Engrs—16 Dec 2004

IC-36596W Lt Col Devendra Kumar, Engrs—16 Dec 2004

IC-34578P Lt Col SN Sabnis, Guards—16 Dec 2004

IC-27061F Lt Col Vijay Kumar Singh, Inf—16 Dec 2004

IC-30566H Lt Col Rajiv Nair, Inf—16 Dec 2004

IC-30732L Lt Col KV Basavaraj, Inf—16 Dec 2004

IC-31153L Lt Col VS Hegde, Inf—16 Dec 2004

IC-31166H Lt Col NK Paul, Inf—16 Dec 2004

IC-31358A Lt Col AK Kapila, Inf—16 Dec 2004

IC-31511L Lt Col M Poolary, Inf—16 Dec 2004

IC-31547K Lt Col TBS Pangety, Inf—16 Dec 2004



IC-31742F Lt Col Narayan Singh, Inf—16 Dec 2004  
 IC-31836Y Lt Col RK Seth, Inf—16 Dec 2004  
 IC-32908K Lt Col JK Singh, Inf—16 Dec 2004  
 IC-33963M Lt col VR Rebello, Inf—16 Dec 2004  
 IC-34085N Lt Col Rajive Chauhan, Inf—16 Dec 2004  
 IC-34548X Lt Col LK Rawal, Inf—16 Dec 2004  
 IC-34836K Lt Col Manoj Tripathi, Inf—16 Dec 2004  
 IC-34924A Lt Col Ratan Singh, Inf—16 Dec 2004  
 IC-34940X Lt Col Daljeet Singh Gill, Inf—16 Dec 2004  
 IC-35747X Lt Col Rakesh Dubey, Inf—16 Dec 2004  
 IC-36097F Lt Col Rajinder Kumar, Inf—16 Dec 2004  
 IC-36490K Lt Col AB Jadhav, Inf—16 Dec 2004  
 IC-36851X Lt Col BS Rawat, Inf—16 Dec 2004  
 IC-37187P Lt Col KPS Rana, Inf—16 Dec 2004  
 IC-34656F Lt Col R Sharma, Sig—16 Dec 2004  
 IC-37066N Lt Col Narinder Kumar, Sig—16 Dec 2004  
 IC-31803N Lt Col AK Tinjani, Mech Inf—16 Dec 2004  
 IC-33016L Lt Col AK Pandey, Mech Inf—16 Dec 2004  
 IC-37180L Lt Col VKS Malik, Mech Inf—16 Dec 2004  
 IC-25570 Lt Col R Singh, Guards—16 Dec 2004  
 IC-36997 Lt Col J Kumar, Sig—16 Dec 2004  
 IC-30224 Lt Col BS Sindhu, Arty—16 Dec 2004  
 IC-31354K Lt Col Bhopal Singh, AC—16 Dec 2004  
 IC-31397Y Lt Col R Sharma, AC—16 Dec 2004  
 IC-31439A Lt Col GM Singh, AC—16 Dec 2004  
 IC-31814A Lt Col N Ramanan, AC—16 Dec 2004  
 IC-33394K Lt Col YK Singh, AC—16 Dec 2004  
 IC-35758K Lt Col N Chaturvedi, AC—16 Dec 2004  
 IC-37262N Lt Col SK Chaturvedi, Inf—16 Dec 2004

AJAY GOEL  
 Dy. Dir

No. 495, dated the 12th September 2005.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION (SL)

Maj to Lt Col

IC No., Name and Arm

IC-37736 Lalit Pande, Mech Inf

IC-37738 PK Sharma, Inf

IC-37739 SS Yadav, Inf  
 IC-37740 Anil Passi, Arty  
 IC-37742 Balwan Singh, Inf  
 IC-37743 SS Yadav, AC  
 IC-37745 Arvind Thakur, AC  
 IC-37746 MS Gaur, ASC  
 IC-37751 KC Mahajan, AOC  
 IC-37752 GS Dhanoa, Arty  
 IC-37755 Arul Dennis, Inf  
 IC-37759 Amardeep Narain, Inf  
 IC-37762 Tejinder Singh, Inf  
 IC-37769 RG Vengail, Sigs  
 IC-37782 Rajiv Gupta, ADA  
 IC-37789 GPS Sawhney, Inf  
 IC-37790 Rajneesh Nagpaul, AOC  
 IC-37793 Navneet Khanna, Jag  
 IC-37805 Vijay Singh, Inf  
 IC-37811 ST Reddy, Arty  
 IC-37816 RPS Rai, AOC  
 IC-37819 Pandey Shishir, AOC  
 IC-37828 Shri Om Singh, Inf  
 IC-37830 Rajesh Singh, Inf  
 IC-37833 Pawan Kumar, Inf  
 IC-37836 NK Mohan, Arty  
 IC-37838 Naresh Kumar, AOC  
 IC-37840 Rajesh Gangele, Arty  
 IC-37851 Sushil Singh, Inf  
 IC-37853 KVPS Hundal, ASC  
 IC-37855 Tirbant Prasad, Jag  
 IC-37856 NK Kohli, Jag  
 IC-37857 Atul Harkauli, Jag  
 IC-37865 S Suresh Kumar, Inf  
 IC-37868 PS Gill, Inf  
 IC-37869 PK Ganjoo, ASC  
 IC-37879 Bhawani Singh, Inf  
 IC-37882 Dalip Singh, AOC  
 IC-37885 Virinder Kumar Saini, Arty  
 IC-37886 Avtar Singh, Sigs  
 IC-37888 Josi Vinod Chand, Inf

IC-37890 Kashmir Singh, Inf	IC-39447 Jagmohan Singh, Inf
IC-37892 Ashwini Kumar, Army Avn	IC-39450 Amritpal Singh, AC
IC-37894 Dileshwar Nath, Arty	IC-39453 Venish Rai, Mech Inf
IC-37895 Harish Joshi, Inf	IC-39454 SK Thapa, Inf
IC-37897 Dilip Prem Nath Sopori, Inf	IC-39455 GP Singh, ASC
IC-37907 Malook Singh, Sigs	IC-39457 MS Ghura, Inf
IC-37913 Pilai Marak Gysus Ashlay Aaron, Inf	IC-39458 AP Dere, AC
IC-37930 SK Verma, Inf	IC-39461 APS Rawat, Inf
IC-37931 N Kumar, Inf	IC-39462 Ranjit Singh, Sigs
IC-37932 NK Narayan, Inf	IC-39464 MH Thakur, ASC
IC-37937 NV Ramchandra, Arty	IC-39465 AJS Bedi, Inf
IC-37940 S Raman, Inf	IC-39466 KB Mall, Inf
IC-37944 Arvind Singh, ASC	IC-39468 HS Bhagat, Inf
IC-37947 A Ramachandran, Sigs	IC-39470 Manmohan Gupta, Inf
IC-37955 Ravi Kant Popali, Arty	IC-39471 Venkatarama Ashok, Inf
IC-37956 Navdeep Mathur, AC	IC-39472 JK Marwal, Inf
IC-37960 L Sekar, EME	IC-39476 Ravi Bedi, AC
IC-37962 Amarjeet Singh, Inf	IC-39478 Sunil Kapil, Sigs
IC-37964 Rajesh Anand, Arty	IC-39480 RS Aujla, Inf
IC-37966 RK Tripathi, Jag	IC-39481 SR Choudhary, AOC
IC-37968 Grewal Mandip, Inf	IC-39482 PS Rathore, Arty
IC-37969 N Singh, Jat	IC-39484 Harcharan Singh, Inf
IC-37970 Ashok Umar Chauhan, Inf	IC-39485 SS Yadav, Inf
IC-37977 Umar Farook A, Sigs	IC-39486 Shishupal Singh, Int
IC-37981 Sanjeev Upadhyia, EME	IC-39488 Arun Kumar, Engrs
IC-38851 Kohli Harvinder Singh, Arty	IC-39489 Harbhopinder Singh, ASC
IC-39433 KP Bhat, Sigs	IC-39490 VS Shekhawat, Inf
IC-39434 MS Kohli, AC	IC-39491 Ajay Kumar Das, Inf
IC-39435 Sanjiv Bajaj, Engrs	IC-39492 Anil Chauhan, Inf
IC-39436 SK Saini, Inf	IC-39496 Satya Pal, Inf
IC-39437 ST Upasani, Inf	IC-39499 Mahesh Ramachandran, Sigs
IC-39438 PC Thimmaya, Mech Inf	IC-39500 CA Fernandes, Inf
IC-39439 V George, Arty	IC-39501 AP Singh, Arty
IC-39440 SS Bais, Inf	IC-39504 SS Kale, Inf
IC-39441 Rajbir Singh, Inf	IC-39506 SB Sajjan, Inf
IC-39443 MS Khara, Arty	IC-39508 Rajat Jairath, ADA
IC-39444 CK Sood, EME	IC-39510 Sudhir Lamba, Arty
IC-39445 SS Hasabnis, Engrs	IC-39512 Neeraj Verma, Arty
IC-39446 KK Kapoor, AC	IC-39517 Karunakaran Gopal, Inf
	IC-39518 Ravi Prasad, AC

IC-39521 YT Jain, Arty	IC-39618 Surinder Kumar, Arty
IC-39522 JS Negi, Inf	IC-39621 RK Bhardwaj, Arty
IC-39523 AK Raghava, Arty	IC-39625 Ashwani Gulati, EME
IC-39525 Sanjay Kumar, ADA	IC-39636 SS Ruhil, Inf
IC-39537 NC Mehta, Arty	IC-39637 CP Singh, AOC
IC-39538 Vikram Mahajan, EME	IC-39642 NMKG Nair, Inf
IC-39545 JK Dang, Inf	IC-39643 Rajiv Edwards, AC
IC-39546 Harvijay Singh, Sigs	IC-39646 Sanal Kumar N, Inf
IC-39548 SS Deora, Inf	IC-39650 Romesh Ghai, Inf
IC-39550 Nutan Parbhat, Sigs	IC-39653 Deepak Arora, Arty
IC-39555 K Jagannathan, ADA	IC-39655 Joneja Hemant, Inf
IC-39556 Kanwar Jagmohanjit Singh, Arty	IC-39656 Sharma Dinesh, Inf
IC-39557 Purshottam Singh, Jat	IC-39661 SP Kulkarni, Inf
IC-39560 VS Verma, Inf	IC-39665 Karunakaran P, Int
IC-39562 SP Ahlawat, Inf	IC-39666 HC Pathak, Inf
IC-39565 Vinod Pant, Sigs	IC-39669 HPS Pall, Inf
IC-39566 Gurpreet Mangat, Engrs	IC-39673 JS Yadav, AC
IC-39569 PRS Chaudhary, Arty	IC-39675 Vijay Singh, Inf
IC-39570 RN Pande, Arty	IC-39676 DVS Rana, Inf
IC-39575 SS Hansra, Inf	IC-39678 Shome Bishwajit, Arty
IC-39577 Hariharan Ravi, Sigs	IC-39681 KA Mohan, Para
IC-39579 Rajiv Chopra, Arty	IC-39682 SK Singh, Arty
IC-39581 Balraj Singh, Engrs	IC-39683 Balvindner Singh, ASC
IC-39583 JN Nayar, EME	IC-39693 Rakesh Hura, Inf
IC-39590 Harish Thukral, Inf	IC-39696 JT Chacko, AOC
IC-39591 Sunil Kumar, Arty	IC-39698 Rajiv Nath Singh, Inf
IC-39594 JR Chandra, Inf	IC-39700 Asif Hussain, Arty
IC-39596 PS Narwal, Engrs	IC-39709 SS Saluja, AOC
IC-39598 G Jaishankar, Inf	IC-39739 R Srivastva, Arty
IC-39600 SCW Ghatpande, Inf	IC-39747 Pathak Gautam, Inf
IC-39603 JS Pathania, AOC	IC-39751 Harpal Singh, AC
IC-39604 Asthana Amul, Inf	IC-39756 Harinder Pal Singh, AOC
IC-39605 SS Chhillar, Arty	IC-39769 RD Villivalam, Inf
IC-39606 Rajiv Chib, AC	IC-39775 S Srinivasan, EME
IC-39607 IS Ghuman, Inf	IC-39780 KK Pant, Inf
IC-39608 NK Bhatia, Int	IC-39820 MK Bhardwaj, EME
IC-39609 Ohri Ajay, Inf	IC-39864 VD Dogra, AC
IC-39616 RK Gupta, ADA	IC-39865 Michael Mathews, Engrs
IC-39617 PS Sanwal, Inf	

IC-39867 Atul Srivastava, Inf	IC-39968 CK Ramesh, Inf
IC-39868 Sunil Srivastva, Arty	IC-39970 Apte Sandeep, Arty
IC-39869 AK Ahuja, Inf	IC-39971 Chamkaur Singh, ASC
IC-39870 SK Mathur, EME	IC-39972 A Mathur, Inf
IC-39871 SK Upadhya, Inf	IC-39975 KV Kuber, Sigs
IC-39872 Anil Kapoor, EME	IC-39977 N Srinivash Rao, Arty
IC-39874 Taranjit Singh, AC	IC-39980 DS Kler, Inf
IC-39875 GS Bains, Para	IC-39988 MK Yadav, Inf
IC-39876 SDS Hayer, AC	IC-39990 Ashwani Sindhvani, ADA
IC-39879 AK Dhar, Para	IC-39992 Anoop Kumar V, Inf
IC-39883 Vikram Tiwathia, Sigs	IC-39993 Verghese Paul, Inf
IC-39885 HK Kalra, Inf	IC-39995 SS Mamak, Arty
IC-39888 Ashwin Sharma, EME	IC-39996 Sabherwal Rajeev, Sigs
IC-39894 Kanwaljit Singh, Arty	IC-39998 VK Jaswal, Inf
IC-39896 DS Bisht, Inf	IC-40000 HS Ratnaparkhi, Inf
IC-39897 BB Vats, Inf	IC-40001 HC Rai, Inf
IC-39898 DS Ahuja, Engrs	IC-40003 Sandeepan Handa, Army Avn
IC-39904 NN Singh, Inf	IC-40004 PS Sandhu, Inf
IC-39906 Mehrotra Akshay, Arty	IC-40005 JK Bansal, Sigs
IC-39909 PS Sandhu, Inf	IC-40007 YVK Mohan, Inf
IC-39910 C Ramachandran, Inf	IC-40008 SB Singh, Arty
IC-39911 Anil Safat, ADA	IC-40009 SP Mahula, ADA
IC-39915 Amarjit Bhardwaj, AC	IC-40010 RV Athavale, AC
IC-39919 AK Sharma, Inf	IC-40012 Amardeep Singh, ASC
IC-39920 Kotnala Pradeep, Inf	IC-40013 AK Thakur, Arty
IC-39921 KS Shaji, Inf	IC-40014 Ajay Singh, AC
IC-39922 P Saxena, Inf	IC-40019 AK Sharma, ADA
IC-39924 Gurucharan Singh, Inf	IC-40022 AK Bhatt, Inf
IC-39927 Pradeep Katoch, Inf	IC-40025 RS Giri, AOC
IC-39929 Saranjeet Singh, Inf	IC-40028 SPS Kohli, Engrs
IC-39930 VPS Bhakuni, Inf	IC-40030 KS Selvan, Inf
IC-39940 Jagatbir Singh, AC	IC-40031 Sanjeev Kanal, Arty
IC-39943 Ajay Wadhwa, Engrs	IC-40032 AS Chandhoke, Inf
IC-39950 SC Verma, Arty	IC-40033 Sabhrwal Shammi, Arty
IC-39956 GS Sangha, Inf	IC-40035 NB Thapa, Inf
IC-39959 Kanwaljit Singh, Arty	IC-40039 AK Manrai, AOC
IC-39965 Bijay Mukherjee, Inf	IC-40040 Khare Mukul, Arty
IC-39966 VS Randhawa, EME	IC-40046 Tara Chand, Inf
IC-39967 Pankat Mehrotr, ADA	IC-40060 Gurinder Jeet Singh, Arty

IC-40064 VC Chitre, Arty	IC-40238 UC Dadwal, Inf
IC-40073 Ved Prakash, Inf	IC-40240 V Nangia, Inf
IC-40074 Deepak Bisht, Inf	IC-40242 PP Singh, Inf
IC-40076 AS Oberio, Inf	IC-40244 S Gopalan, Inf
IC-40078 AS Sidhu, Army Avn	IC-40257 SK Chhabra, ASC
IC-40082 AS Ghuman, Inf	IC-40290 Bipin Bakshi, Engrs
IC-40083 B Ramachandran, Arty	IC-40291 Ashjsh Uppai, Arty
IC-40088 AS Parmar, Arty	IC-40293 AS Kler, AC
IC-40090 Vijay Kumar, AC	IC-40294 RB Gupta, Engrs
IC-40091 MD Singh, Inf	IC-40295 AK Sapra, Engrs
IC-40094 Mandeep Singh, Arty	IC-40297 DS Chauhan, EME
IC-40096 MM Hussain, Arty	IC-40298 A Anil, Inf
IC-40097 Rajan Kochhar, AOC	IC-40299 Sanjay Verma, EME
IC-40098 Dushyant Singh, Inf	IC-40302 RP Singh, Inf
IC-40099 Girish Gogia, Inf	IC-40303 MPS Mendonca, Arty
IC-40101 RK Jagga, AC	IC-40304 Rajesh Ahuja, Inf
IC-40102 BS Cheema, Arty	IC-40306 Sunil Gupta, EME
IC-40106 Anil Sharma, Inf	IC-40307 Shekhar Sanjeev, Engrs
IC-40115 Arvind Sethi, Inf	IC-40308 SK Saxena, Sigs
IC-40120 Kulvinder Singh, Arty	IC-40311 Rajesh Chopra, Inf
IC-40125 AS Nijjar, Inf	IC-40312 AA Mahmood, AC
IC-40133 SC Meston, Inf	IC-40313 HS Jha, Inf
IC-40136 Amit Sharma, Inf	IC-40314 P Mohanty, Inf
IC-40139 Deshbir Singh, Arty	IC-40315 Prem Prakash, Inf
IC-40140 RS Ghuman, Inf	IC-40319 AK Chugh, Sigs
IC-40144 RP Joshi, Inf	IC-40320 Sankar Prasad, Arty
IC-40151 Rajit Singh, Inf	IC-40324 RK Singh, Para
IC-40156 Sandeep Sharma, Sigs	IC-40326 Anil Pandey, Inf
IC-40158 Anuj Kainthla, Inf	IC-40328 Nilendera Kumar, Inf
IC-40164 MLN Sravan Kumar, Arty	IC-40329 Pratap Singh, Sigs
IC-40167 DS Grewal, Inf	IC-40330 SM Singh, Inf
IC-40180 Pradeep Kumar, Inf	IC-40331 SC Sharan, Arty
IC-40186 TK Sachdev, Arty	IC-40332 RD Mudgil, ADA
IC-40189 Kumar D Ranjit, ADA	IC-40335 Ashun Bahl, Engrs
IC-40198 Prakash Tewari, Inf	IC-40339 YK Katoch, Inf
IC-40202 SK Singh, Inf	IC-40340 Davis PP, AD Arty
IC-40206 Sanjay Kaul, Inf	IC-40343 Sanjiv Dhar, AC
IC-40216 GS Talwar, Arty	IC-40345 Laxmi Narayan, Inf
IC-40232 Kumar Kant, Inf	IC-40346 Chandramas Bharti, Engrs

IC-40347 AN Cuddi, Sigs	IC-40429 SS Joshi, Inf
IC-40348 Pankaj Awasthi, Para	IC-40434 MS Dhanoa, Inf
IC-40352 Rakesh Arora, Inf	IC-40435 GVG Prasad, Arty
IC-40353 Paramjit Singh, Inf	IC-40438 GN Purandare, Sigs
IC-40355 Ashok Chauhan, Inf	IC-40442 R Bali, Mech Inf
IC-40359 AK Goyal, Inf	IC-40446 HS Faujdar, Inf
IC-40360 Asit B Mistry, Inf	IC-40448 SS Negi, ASC
IC-40362 OP Singh, Inf	IC-40471 Mukesh Kumar, Inf
IC-40363 JG Nariamparambil, Inf	IC-40476 Ashok Galoth, Inf
IC-40364 Gajendra Prasad, Inf	IC-40478 PM Rath, Arty
IC-40366 Anand Singh, Inf	IC-40487 VS Dheman, AD Arty
IC-40367 Daljit Singh, Inf	IC-40489 AS Ahlowalia, AOC
IC-40371 Pradeep Kumar, Arty	IC-40490 Chandan Kumar, Engrs
IC-40373 Kawaljit Singh, AD Arty	IC-40500 YK Joshi, Inf
IC-40377 Neeraj Suri, AC	IC-40506 GN Goswami, ASC
IC-40378 BV Rao, Engrs	IC-40508 Santosh Kuamr Swahney, Inf
IC-40380 KJS Gill, Inf	IC-40513 Varinder Singh, ASC
IC-40381 A Vijit Misra, Inf	IC-40514 RS Ghanwat, Sigs
IC-40382 Arvind Dutta, Inf	IC-40515 Subodh Kumar, Inf
IC-40384 George Jacob, Inf	IC-40516 BP Bhardwaj, Inf
IC-40385 KBK Keshab, Inf	IC-40517 Sandeep Kala, Inf
IC-40389 NKS Tomar, Mech Inf	IC-40519 BB Singh, Sigs
IC-40393 JK Sharma, Mech Inf	IC-40527 AJS Bajwa, Mech Inf
IC-40394 Bineet Walia, Inf	IC-40530 Gurmeet Singh, Inf
IC-40395 N Balan, Inf	IC-40531 SS Rai, Engrs
IC-40400 Krishna Menon, Inf	IC-40534 Milind N Bhurke, Sigs
IC-40403 Santosh Kumar, Inf	IC-40538 SS Thakur, EME
IC-40405 SS Aulakh, AD Arty	IC-40545 AK Gera, Inf
IC-40406 Nandraj Lama, Inf	IC-40548 Soban Singh, Inf
IC-40407 AK Aggarwal, Inf	IC-40550 Tejender Pal Singh, ASC
IC-40408 C Mani, Sigs	IC-40561 MT Augustine, Arty
IC-40411 Methil Sreekumar, Sigs	IC-40564 DK Bishnoi, Inf
IC-40412 Subodh Kumar, AD Arty	IC-40567 Agni Kumar Singh, ASC
IC-40416 Dharendra Singh, Inf	IC-40568 U Kandukuri, Arty
IC-40421 SK Bhanot, Inf	IC-40574 Hitesh Kumar Lav, Inf
IC-40422 Navtej Singh, Inf	IC-40585 LK Matai, Mech Inf
IC-40425 RK Ranjan, Arty	IC-40590 Jugesh Chaudhry, Sigs
IC-40426 Ashutosh Jha, AD Arty	IC-40597 Vipin Gupta, ASC
IC-40428 SS Ratnaparkhi, Inf	IC-40599 Ansu Joseph, Arty

IC-40600 YS Kumar, Arty	IC-40732 Sur Dashrath, Inf
IC-40615 Alok Maggu, Engrs	IC-40735 MS Salaria, Inf
IC-40623 PK Singh, Arty	IC-40736 MK Mukherjee, Arty
IC-40638 Rajendra Kaul, Inf	IC-40741 BS Sandhu, Inf
IC-40679 AK Sanyal, AC	IC-40742 Vijay Rawat, EME
IC-40680 P Nagesh Rao, Inf	IC-40744 Sandep Thapar, Inf
IC-40682 AS Karki, Mech Inf	IC-40746 KA Chinnappa, Mech Inf
IC-40683 SP Yadav, EME	IC-40748 HK Arora, Engrs
IC-40684 Sanjeev Sehgal, Engrs	IC-40750 Srinivasan M, Engrs
IC-40685 Raj Shukla, Arty	IC-40752 Deepak Saini, Arty
IC-40686 KAV Bhaskar, Engrs	IC-40753 MJS Kahlon, AC
IC-40688 RV Singh, Inf	IC-40755 Shashank Pratap, Inf
IC-40689 RS Kochher, EME	IC-40757 Vikal Sahni, Inf
IC-40691 Ajay Sharma, Engrs	IC-40760 VS Sreenivas, Inf
IC-40692 S Vedhanayagam, Mech Inf	IC-40761 Gautam Shaunik, AC
IC-40693 SK Panigrahi, Arty	IC-40763 Bhupinder Singh, Sigs
IC-40694 Ram Avtar, Inf	IC-40764 Ravi Menon, Arty
IC-40695 JS Virk, AC	IC-40769 MG Harimohan, Arty
IC-40699 Kempraj Sitaram, Engrs	IC-40772 Syed Azimuddin, Inf
IC-40700 Sanjay Thapa, Arty	IC-40773 Naresh Razora, Inf
IC-40701 KS Shekhawat, Army Avn	IC-40777 MS Jaswal, Inf
IC-40702 A Talwar, Mech Inf	IC-40778 Balbir Singh, Inf
IC-40703 Harpal Singh, Engrs	IC-40779 Suresh Kumar, ASC
IC-40704 Rana Gajraj Singh, EME	IC-40781 SS Chauhan, Inf
IC-40707 DS Gill, Arty	IC-40782 MS Mann, Inf
IC-40709 Ajay Ahluwalia, Engrs	IC-40783 VKH Pingale, Inf
IC-40710 Surendra Mehta, Inf	IC-40787 RK Subramani, EME
IC-40711 TC Mathew, Engrs	IC-40792 DA Chaturvedi, Inf
IC-40713 Kuldip Mehta, Inf	IC-40794 VS Narang, Sigs
IC-40714 BG Gilganchi, Sigs	IC-40795 Sanjeev Narain, Inf
IC-40715 RS Rathod, Inf	IC-40796 RPS Sandhu, Inf
IC-40716 MC Pande, Engrs	IC-40798 KPR Hari, Inf
IC-40717 Sandeep Dhawan, Inf	IC-40800 VD Abraham, EME
IC-40720 Sandeep Sharma, Inf	IC-40802 Rajeev Ghai, EME
IC-40721 Prithi Singh, Inf	IC-40804 Dig Vijay Sethia, Engrs
IC-40722 Kulpreet Singh, AC	IC-40805 GM Sankar, Arty
IC-40724 RS Pathania, Engrs	IC-40806 IJS Hundal, AD Arty
IC-40727 RK Chaudhary, Sigs	IC-40807 GK Sharma, Inf
IC-40729 DJS Katkar, Mech Inf	IC-40811 SJ Chitale, Engrs

IC-40812 PM Vats, Mech Inf	IC-40904 KS Nijjar, Arty
IC-40813 Mandeep Singh, AD Arty	IC-40906 Nand Kumar Raja, Inf
IC-40815 Anup Bhaskar, Sigs	IC-40909 Nileshtal, AC
IC-40818 R S Mann, Mech Inf	IC-40918 Badri Vittal, Engrs
IC-40819 RK Chopra, Sigs	IC-40923 Vijay Kohli, Arty
IC-40822 S Ramakrishnan, Sigs	IC-40926 SL Jangid, ASC
IC-40824 Ajay Seth, Inf	IC-40933 M Vinay Chandran, Inf
IC-40825 JS Rangra, Inf	IC-40934 AK Sharma, Inf
IC-40826 SK Tiwari, Engrs	IC-40936 NP Chandran, ASC
IC-40833 Navneet Mittal, Engrs	IC-40952 KD Prasad, Inf
IC-40835 Raman Bhatia, Inf	IC-40958 RK Sharma, Engrs
IC-40836 Soumitra Mukherjee, Arty	IC-40963 Amitabh Amit, Inf
IC-40837 Dipendra Sarin, Inf	IC-40966 Shachin Suri, AD Arty
IC-40838 B Patnaik, Inf	IC-40968 YS Rana, AD Arty
IC-40841 AA Bhat, Sigs	IC-40974 PP Singh, ASC
IC-40844 MM Nehru, Inf	IC-40977 SS Dhillon, EME
IC-40847 Rajiv Sethi, Arty	IC-40981 Narinder Singh, Inf
IC-40849 Parminder Singh, AC	IC-40982 GS Aul, Arty
IC-40851 RK Nayar, Arty	IC-41004 Raman Mahnas, Inf
IC-40852 B Bhattacharyya, Engrs	IC-41005 PC Patnaik, Arty
IC-40853 Subir Chakravarti, ASC	IC-41007 Nitin Kumar, Inf
IC-40854 RS Bhatia, AC	IC-41024 CG Nandan, Inf
IC-40861 Sanjay Prasad, EME	IC-41025 TS Anantha Narayanan, EME
IC-40862 AS Rawat, Inf	IC-41034 YVR Vijay, EME
IC-40864 SD Vaze, Inf	IC-41041 Punam Bali, MF
IC-40867 KJS Dhaliwal, AD Arty	IC-41066 Jagbir Singh Dhull, EME
IC-40871 Suresh Chander, Inf	IC-41067 Jai Singh Nain, Inf
IC-40873 R Nagraj, Sigs	IC-41068 Anil Chaudhary, Mech Inf
IC-40874 DV Raju, Inf	IC-41069 Sunil Singh Suhag, EME
IC-40876 Sharabh Pachory, Inf	IC-41072 Rajeev Sirohi, Inf
IC-40880 Rajesh Dixit, Sigs	IC-41073 Harinder Singh Chehal, AC
IC-40882 JK Tiwari, Inf	IC-41074 Manohar Lal Gupta, Mech Inf
IC-40884 AS Harge, Inf	IC-41075 Subhra Banerjee, Engrs
IC-40885 RC Verghese, Engrs	IC-41080 Gopal Gurung, Inf
IC-40887 TS Sandhu, AC	IC-41081 Sanjeev Govila, EME
IC-40889 NK Unni, Sigs	IC-41083 Amar Deep Singh Bhinder, AC
IC-40894 Virendra Singh, Inf	IC-41087 Shashi Shekhar Prasad, Inf
IC-40900 AK Mall, Arty	IC-41088 Mohit Bawa, AC
IC-40901 Kevin Mendonca, ASC	IC-41089 Ramesh Kumar Raina, Inf



IC-41091 Shashank Shekhar Mishra, Inf	IC-41207 Ashvini Varma, Engrs
IC-41093 Joy Daniel, Arty	IC-41211 Mothi George Jacob, AD Arty
IC-41102 Jarken Gamlin, Inf	IC-41212 Devinder Singh, Sigs
IC-41104 AK Mitra, Engrs	IC-41218 Sanjeev V Bhoite, Inf
IC-41105 Indeever Sood, Engrs	IC-41219 K Nandakumaran, Inf
IC-41107 KT Sreekumar, Sigs	IC-41220 Rajiv Sawhney, Engrs
IC-41110 Atul Mishra, Arty	IC-41223 Ravinder Singh Rawat, Inf
IC-41111 Andrew Angelo Fernandes, AC	IC-41224 Gurinder Pal Singh Sandhu, Inf
IC-41117 Ganesh Singh Bisht, Inf	IC-41225 Neeraj Parasha, Engrs
IC-41119 Sunil Kumar Agarwal, Sigs	IC-41228 Atanu Kumar Pattanaik, Arty
IC-41121 Raj Kumar Sharma, Arty	IC-41230 Sunil Dutt Mehta, Inf
IC-41123 Jiban Kishore Satpathy, Engrs	IC-41239 Virender Singh Kattarya, Engrs
IC-41125 Vivek Davar, Engrs	IC-41240 Sanjeev Kumar, Engrs
IC-41126 Rajendra Singh Thakur, AD Arty	IC-41245 Bharat Malik, Engrs
IC-41128 Pushkar Hitesh, Inf	IC-41246 Satish Kumar Dutta, Arty
IC-41131 Prem Prashad Malhotra, Engrs	IC-41249 Aalok Sood, Engrs
IC-41133 Ravindranath Tiwari, Engrs	IC-41251 Sudhansh Verma, Inf
IC-41135 Sunil B Bodhe, Inf	IC-41253 Surendra Singh, Arty
IC-41137 Ajay Kumar Datta, ASC	IC-41256 Pusuluris Sessa Sai, Arty
IC-41139 Mahesh Moolri, Sigs	IC-41257 Som Prakash Sharma, Inf
IC-41141 Ashok Kumar Narula, Inf	IC-41259 Naval Kohli, ASC
IC-41144 Shailendra Singh Negi, ASC	IC-41260 Anant Vasant Talpallikar, Sigs
IC-41145 Akhelesh Bhargava, AD Arty	IC-41266 Mohammed Rizvi Jaideh, Engrs
IC-41147 Malay Shankar Kala, AD Arty	IC-41271 Sanjay Malhotra, Corps of Ad Arty
IC-41148 Bharat Bhushan Pandey, AC	IC-41273 Yeola Srinivas Rao, Corps of Engrs
IC-41154 Alok Raj Goyal, Inf	IC-41289 Vivek Kashinath Chhatre, Arty
IC-41155 Shambu Prasad Mehta, Arty	IC-41299 Patri Gopal Krishna, Inf
IC-41156 Ram Gopal Ram Tiwari, Arty	IC-41320 Daljeet Singh Rupaal, Inf
IC-41159 Suhas Shankarappa Jatkar, EME	IC-41321 Sunil Goyal, Arty
IC-41161 Harbir Singh Bacchal, EME	IC-41323 Sanjay Sah, Inf
IC-41165 Anil Kumar Singh, Inf	IC-41326 Punna Rao Vesangi, Arty
IC-41166 Satinder Singh, AD Arty	IC-41330 Kamlesh Chandra Bahuguna, Inf
IC-41169 SK Grover, Engrs	IC-41367 Uday Singh, Arty
IC-41170 Vivek Kumar Pandit, Inf	IC-41374 Bikram Singh, Arty
IC-41175 AV Krishna, Engrs	IC-41411 Chander Ballabh Sharma, Inf
IC-41185 Sanjeev Jain, Engrs	IC-41413 Rohit Shukla, Arty
IC-41196 Sudhakar Jee, Inf	IC-41419 Sunil Khosla, ASC
IC-41203 Prafulla Chandrac Pusti, AC	IC-41437 Rabi Shankar Sharma, Engrs
IC-41206 Vinod Kumar, Inf	IC-41439 Madhu Sudan Wadhwa, EME
	IC-41442 Tajber Singh Negi, Sigs

IC-41444 Ashit Kumar Biswas, Engrs	IC-41520 Pradeep Arora, Sigs
IC-41445 Bhupinder Singh, Engrs	IC-41524 Shyam Sunder Sharma, EME
IC-41456 Rakesh Kumar Anand, Sigs	IC-41528 Harinder Singh, Inf
IC-41461 Yogendra Dimri, Engrs	IC-41529 Neeraj Kapur, AC
IC-41463 Pawan Anand, Engrs	IC-41530 Mandip Singh, Arty
IC-41464 Tejpal Singh Rawat, Engrs	IC-41541 Ashok Kumar Arora, Inf
IC-41465 Ajai Singh, AC	IC-41544 Deepak, Arty
IC-41466 Mukesh K Dutta, EME	IC-41546 Guljeet Singh Saroya, Sigs
IC-41469 Vinod Kumar Bisht, EME	IC-41548 Samir Mansingh, Engrs
IC-41470 Virendra Singh, Inf	IC-41549 Anurag Bhasin, Engrs
IC-41471 Surinder Kumar Prashar, Inf	IC-41551 Tribhuvan Chandra Uniyal, ASC
IC-41473 Kanchela Rajasekhar, AC	IC-41553 Shri Niwas Rai, Engrs
IC-41475 Naveen Kumar Airy, Inf	IC-41554 Debasish Mitra, AD Arty
IC-41476 Ashok Kumar Dhingra, Inf	IC-41555 Pamolapati Viswa Mohan, Arty
IC-41477 Arjun Rawat, Engrs	IC-41556 Rakesh Kumar Rana, EME
IC-41478 Tinaikar Shailesh Sadashiv, Inf	IC-41557 Rajkumar Bhatt, Arty
IC-41479 Sanjeev Sodhi, Sigs	IC-41563 VK Sharma, EME
IC-41481 Tarundeep Kumar, AC	IC-41564 Anuj Bhalla, Inf
IC-41483 Rajiv Narshingrao Jadhav, Engrs	IC-41565 Dilip Banerjee, Engrs
IC-41484 Vikas Garg, Mech Inf	IC-41566 Vivek Krishan Singh, AC
IC-41485 Sanjay Sangwan, AC	IC-41567 Ramendra Narayan Ghosh, Arty
IC-41486 Madhusudan Dave, Engrs	IC-41570 Rakesh Kumar Dwivedi, Inf
IC-41488 Rajeev Chaudhry, Engrs	IC-41573 Prabir Sengupta, Inf
IC-41491 Satpal Ahlawat, Engrs	IC-41582 Laxmiprakam Ibtombi Singh, Inf
IC-41492 Christopher Correya, Inf	IC-41583 Manjit Singh, Inf
IC-41493 Shirish Kumar J Dhobale, Arty	IC-41585 Mahadevan Krishan Kumar Iyer, Ad Arty
IC-41495 Nav Kumar Khanduri, AD Arty	IC-41587 Dinesh Lal Chandani, EME
IC-41497 Anil Chaudhary, Sigs	IC-41592 Sanjiv Jaswal, Sigs
IC-41498 Somnath Banerjee, AD Arty	IC-41594 Prithviraj, Arty
IC-41499 Kanwal Rajiv Anand, Sigs	IC-41595 Manoj Kumar Singh Yadav, ASC
IC-41501 Ranjit Ghosh, EME	IC-41597 Bharat Bhushan Chauhan, Arty
IC-41505 Balram Singh, Engrs	IC-41598 S Jagpal, Arty
IC-41507 Arvind Kapoor, Inf	IC-41602 Kailash Chandra Dixit, Sigs
IC-41508 Jaideep Sengupta, Inf	IC-41603 Biju M Thomas, Arty
IC-41509 Kanwal Jeet Singh Dhillon, Inf	IC-41604 Roy Joseph, Arty
IC-41510 Ramesh Kumar Dandriyal, Engrs	✓ IC-41610 Manoj Rishi, Engrs
IC-41511 Mohan Jeet Singh Syali, EME	IC-41613 Sanjay Kumar Acharya, Inf
IC-41517 Richard Sundharam, Sigs	IC-41620 Dinesh Kumar Dash, AD Arty
IC-41518 Daya Chand, Inf	IC-41623 Kavinkal Satyanarayan, Sigs

IC-41624 Harmeet Singh Chatwal, AC	IC-41765 Ashwani Kapoor, Arty
IC-41625 Biswajeet Mukherjee, EME	IC-41769 Sanjay Kapur, Mech Inf
IC-41628 Gangadharan Venu, Inf	IC-41790 Arvind Mathur, EME
IC-41629 Arun Sabherwal, Sigs	IC-41791 Padam Prabodh Prakash Singh, Arty
IC-41631 Ravinder Singh, ASC	IC-41802 Shabir Singh Judge, Inf
IC-41636 Jasprit Singh Gujral, Arty	IC-41803 Ambrose Xavier Amalaraj, Arty
IC-41639 Vijay Kumar, AD Arty	IC-41814 Deepak Sharma, Engrs
IC-41641 Subhash Dixit, Arty	IC-41819 Upkar Singh Nerwal, EME
IC-41646 Navin Kumar Khajuria, EME	IC-41820 Rajendra Kumar Joshi, Sigs
IC-41649 Balwinder Singh, Inf	IC-41824 Ravinder Singh, Engrs
IC-41651 Thummala Sambaiah, Inf	IC-41838 Satendra Kumar Singh, Sigs
IC-41652 Virinder Singh, Arty	IC-41839 Ramesh Chhibber, Sigs
IC-41659 Pradeep Kumar, Arty	IC-41844 Dinesh Kumar, Sigs
IC-41662 Atul Nanda, AC	IC-41850 Sunil Prem, Engrs
IC-41664 Rarninder Chimni, AC	IC-41852 Shiv Kumar Rai, AD Arty
IC-41665 Hemant Bhardwaj, Engrs	IC-41858 CP Cariappa, Inf
IC-41668 Ashim Kumar Kohli, Arty	IC-41859 S Radhakrishna, Engrs
IC-41672 Sanjeev Kuamr Sharma, Inf	IC-41860 Shantanu Dayal, Inf
IC-41683 Rakesh Bandhu, Inf	IC-41861 Rajesh Sood, EME
IC-41686 Inderpal Singh Rekhi, Engrs	IC-41864 Ravi Sitaramaiah, EME
IC-41688 Gopal Sharan Sharma, AD Arty	IC-41867 Muckatira Nanyan Devaya, Engrs
IC-41695 Pankaj Kumar Naithani, Engrs	IC-41868 Ram Vishwa, EME
IC-41696 Rajender Kumar Hooda, Arty	IC-41870 Anil Joshi, Engrs
IC-41698 Chandi Rana Dalal, ASC	IC-41871 Paramjit Singh Dhillon, Engrs
IC-41701 Ajay Gupta, Arty	IC-41874 Arun Sehgal, EME
IC-41702 Maradani Lakshmi Mohan Babu, Arty	IC-41875 VP Paul, Inf
IC-41704 MK Ajit Kumar, Inf	IC-41877 Ranjit Singh Deswal, Inf
IC-41717 Pradeep Singh Bains, Inf	IC-41878 JPR Ismail, Inf
IC-41720 Sudhir Kumar Bhola, EME	IC-41883 Rakesh Nair, ASC
IC-41722 Sanjay Sharma, Arty	IC-41885 U Suresh Kumar, Inf
IC-41732 Navneet Kumar Ghai, EME	IC-41886 Gobinder Singh Grewal, Engrs
IC-41738 Jasdeep Singh, ASC	IC-41887 Prabodh Sharan Rana, Sigs
IC-41741 Santosh Kumar Kurup, Inf	IC-41894 Surinder Singh Dhankhar, Inf
IC-41742 Vinod Sharma, AC	IC-41896 Rajendra V Desai, Inf
IC-41752 Paramjit Singh, Arty	IC-41898 Gurukripal Singh Basra, Arty
IC-41755 Rajnish Sharma, Inf	IC-41899 Simarjit Singh Multani, Engrs
IC-41758 Rajeshwar Singh Thakur, Inf	IC-41905 Ravinder Malik, ASC
IC-41760 Iqbal Singh, EME	IC-41907 Raj Kumar Balwada, Sigs
IC-41762 Govinda Murali, Arty	IC-41909 Syed Azizur Rehman, Inf

IC-41914 Pritam Bishnoi, Sigs	IC-42057 Mukul Bhandari, Inf
IC-41919 Ravinder Kumar Dhingra, Sigs	IC-42059 Jackson Mathew, Engrs
IC-41920 Ashwin Nagesh Baidur, Engrs	IC-42065 SM Ganigi, EME
IC-41921 Tolety Ravindra, Arty	IC-42076 Dev Kumar Haridas, EME
IC-41923 Umed Singh Mitharwal, ASC	IC-42079 Jitendra Kumar Shukla, AD Arty
IC-41924 Sanjeev Grever, Arty	IC-42081 Chavali Badarinarayana Murthy, Engrs
IC-41930 Rakesh Kumar Singh, Arty	IC-42084 Mohan Chand Kumar, Sigs
IC-41937 Mahender Singh Yadav, Inf	IC-42089 Vijay Kumar S Patil, Engrs
IC-41940 Pradeep Kumar, Inf	IC-42095 Mohan Das K Boutha Venkatarama Bhavani, Inf
IC-41945 Dibyendu Bhattacharjee, Sigs	IC-42099 Prasad, Sigs
IC-41947 Dinesh Chandra Mazumdar, Arty	IC-42105 Umesh Sharma, Engrs
IC-41952 Sanjeev Chaudhry, Arty	IC-42123 Shaji Kuriachan, Arty
IC-41957 Om Singh, Engrs	IC-42133 Kolly Jagan Mohan Roy, Inf
IC-41958 Sanjay Arora, Arty	IC-42136 Rajagopalan KS, Inf
IC-41963 Deepak Sharma, Sigs	IC-42138 Inderjit Singh Chauhan, Inf
IC-41969 Karipineni Jahwar Babu, Inf	IC-42142 Ravi Gopala Krishnan, Inf
IC-41972 Mohinder Singh, ASC	IC-42145 Rajinder Kumar Kochhara, ASC
IC-41973 Rajeev Lochan Sharma, Inf	IC-42148 Balvinder Singh, Engrs
IC-41979 Pradeep Kumar Pattanayak, Engrs	IC-42149 Vijayant Kumar, Inf
IC-41982 T Thomas, Engrs	IC-42150 Janaki Pant, EME
IC-41987 Sanjay Kumar S Sharma, EME	IC-42156 Sunjoy Kaushal, Inf
IC-41994 Arun Joshi, Engrs	IC-42163 Kuldeep Singh Dhankhar, EME
IC-42000 Sanjay Gupta, Inf	IC-42165 Ashok Kumar, AD Arty
IC-42003 Anil Kumar Gandotra, Sigs	IC-42169 Birendra Singh, Inf
IC-42004 Rana Pratap Kalita, Inf	IC-42173 Kollaparti Bhaskar, Inf
IC-42012 Amit Saxena, Engrs	IC-42178 Vijender Singh Bhati, ASC
IC-42019 Prashant Manohar Sheode, Sigs	IC-42179 Maninder Jeet Singh Tiwana, Arty
IC-42020 Arbindam, Arty	IC-42180 Rajiv Kumar Sharma, Inf
IC-42022 Ravi Kumar Gupta, AD Arty	IC-42186 Sanjive Sirohi, EME
IC-42027 Ravada Ravi, Inf	IC-42187 Paritosh Pant, Inf
IC-42029 Gyan Swarup Puri, ASC	IC-42192 Manoj Kumar, Engrs
IC-42031 Harikirat Singh, Arty	IC-42194 Virendra Singh Rathore, Inf
IC-42032 Sanjay Dikhit, Sigs	IC-42204 Anurag Bahukhandi, EME
IC-42033 Surinder Singh Kadyan Jyotulavenkala Shesha Nooka, Engrs	IC-42229 Rajiv Kumar Bhatli, Inf
IC-42040 Vara Prasad, Inf	IC-42241 Ashish Kumar, EME
IC-42047 Saji Abraham, Arty	IC-42269 Girish Joshi, Engrs
IC-42055 Prabhjot Singh Bindra, ASC	IC-42270 KK Repswal, Engrs
	IC-42271 Rakesh Rana, Engrs

IC-42273 BK Repswal, ASC	IC-42391 Rakesh Kaul, Sigs
IC-42278 BD Rai, Inf	IC-42394 RK Gupta, ASC
IC-42283 GS Kambo, Engrs	IC-42400 Tumul Varma, EME
IC-42285 SP Rawat, Inf	IC-42402 RK Joseph, EME
IC-42287 Rajesh Joshy, Inf	IC-42404 Jai Singh, Inf
IC-42288 Anil Puri, Engrs	IC-42407 SB Mathur, Sigs
IC-42289 Narinder Singh, ASC	IC-42416 Niraj Seth, Inf
IC-42299 IA Khan, Engrs	IC-42420 J Nair, Inf
IC-42300 PN Ananthnarayanan, Inf	IC-42425 Arvind Varma, Engrs
IC-42305 T Misra, Arty	IC-42449 Deepak Kapahtia, Inf
IC-42308 AS Katoch, EME	IC-42455 SP Yadav, ASC
IC-42309 MS Nikam, Arty	IC-42464 AS Chauhan, Inf
IC-42310 VS Ranade, Arty	IC-42469 Indraj Singh, Inf
IC-42311 Ranjeev Bali, Engrs	IC-42471 Jayanta Misra, EME
IC-42312 Manoj Mehta, Engrs	IC-42475 Savneet Singh, Inf
IC-42314 JS Dhaliwal, Arty	IC-42485 Raj Sinha, Inf
IC-42318 Kas Randhawa, ASC	IC-42489 VS Yadav, EME
IC-42322 SG Chavan, Inf	IC-42491 CP Sangra, Inf
IC-42323 Arun Ganguli, EME	IC-42492 Amit Kathpalia, Engrs
IC-42325 LD Minocha, ASC	IC-42493 Nagappa S Shanbhag, Inf
IC-42327 Arvind Katoch, ASC	IC-42504 SK Pandey, Sigs
IC-42329 Paritosh Dandriyal, EME	IC-42508 Amit Vir Pandia, Inf
IC-42331 Arun Kumar Sasmal, Arty	IC-42512 P Bakshi, Sigs
IC-42332 SY Devasthali, EME	IC-42517 Jatindra Sindhu, Inf
IC-42336 AK Singh, Inf	IC-42542 MK Mago, Inf
IC-42339 Pradeep Narayanan EN, Inf	IC-42548 S Pande, Inf
IC-42343 Rishi Deo Sharma, Inf	IC-42549 Vikash Uniyal, EME
IC-42347 Navneet Kumar, Inf	IC-42552 Sarvajit Singh, Engrs
IC-42350 TC Roy, Inf	IC-42555 SP Chaudhary, Inf
IC-42351 SS Grewal, ASC	IC-42574 Kamleshwar Singh, Inf
IC-42360 Kabindra Singh, Inf	IC-42584 R Kaushal, Inf
IC-42361 S Srivastava, Engrs	IC-42597 GS Sidhu, Inf
IC-42363 AK Yadav, Inf	IC-42606 Sampath Gopala, EME
IC-42372 Vineet Sood, Inf	IC-42609 SS Ahlawat, ASC
IC-42376 Raman Kakkar, Engrs	IC-42610 JS Makol, Inf
IC-42377 SK Chaturvedi, Engrs	IC-42628 JS Sokhi, Sigs
IC-42385 VS Mathur, Engrs	IC-42683 KR Babu, Engrs
IC-42389 BS Raju, Inf	IC-42686 HK Trivedi, Sigs
IC-42390 MU Nair, Sigs	IC-42688 DJ Pathak, Engrs

IC-42690 AK Sur, EME	IC-44458 B Srinivas, Engrs
IC-42692 AK Sharma, Engrs	IC-45006 Ashuthosh Sirothia, Inf
IC-42693 Ashok Kumar Kochhar, Sigs	IC-45009 Sukhdeep Singh, Inf
IC-42698 S Rajaram, Sigs	IC-45010 Shishivr Kumar Das, AD Arty
IC-42699 AK Jindal, Engrs	IC-45017 Amit Sehgal, Inf
IC-42700 Sreedharan Nair PG, Engrs	IC-45019 PN Verma, Inf
IC-42703 Jagmohan Durgapal, Sigs	IC-45022 KM Singh, Arty
IC-42708 Sanjay Bajpai, Engrs	IC-45025 RK Sharma, ASC
IC-42716 VN Murthy, Engrs	IC-45033 TG Surindera Kumar, Sigs
IC-42725 VK Singh, Sigs	IC-45035 AK Shukla, Inf
IC-42748 BN Nanjunda Rao, Engrs	IC-45042 RS Johal, EME
IC-43164 Sanjay Chandra, Sigs	IC-45046 Kuldeep Budhwar, AC
IC-43165 DK Deshmukh, EME	IC-45050 Tejbir Singh, Inf
IC-43166 SK Khanna, Engrs	IC-45052 VK Puniya, Mech Inf
IC-43169 Mahinder Singh, Engrs	IC-45054 Rakesh Avasthi, EME
IC-43173 MS Lamba, Sigs	IC-45056 SK Pande, Arty
IC-43177 PR Deshmukh, EME	IC-45066 Sunil Mehta, Arty
IC-43189 AK Mishra, EME	IC-45067 Milind S Ranade, Arty
IC-43196 SK Pathak, Engrs	IC-45077 Nirupam Basu, Arty
IC-43628 Kuldip Kumar, Sigs	IC-45114 Jadeja Vanraj Singh M, Inf
IC-43630 M Suresh, Sigs	IC-45119 Virendra Kumar Tyagi, EME
IC-43651 RS Prasad, Sigs	IC-45121 JS Soin, Inf
IC-43995 Rajiv Joshi, EME	IC-45123 Santanu Ghose, Inf
IC-43996 GS Shanwal, Sigs	IC-45125 Jainarayan Singh Bisht, Inf
IC-43997 Sunil Kala, Sigs	IC-45129 Birendra Singh Yadav, ASC
IC-43998 VR Deshmukh, EME	IC-45133 Gian Singh, Arty
IC-44003 Sabu Joseph, Engrs	IC-45144 Prakam Chand Malhotra, Engrs
IC-44004 SK Mukherjee, Engrs	IC-45161 Rakesh Kumar Sudan, AC
IC-44008 Rakesh Verma, EME	IC-45183 Rajeev Kumar, Inf
IC-44013 Vinay Kumar Singh, EME	IC-45186 Vishwa Pal Singh, Arty
IC-44022 Rakesh Chopra, Engrs	IC-45187 Amar Deep Grewal, Arty
IC-44025 Jaender Pal, EME	IC-45188 Sharad Dhindaw, ASC
IC-44034 Sanjay Dawar, EME	IC-45194 PV Gadre, Arty
IC-44429 DMJ Raja, EME	IC-45210 Anil Joshi, Inf
IC-44434 SK Sharma, Engrs	IC-45216 Manohar Singh Rathore, EME
IC-44436 Sreenivas Muralidharan Pillai, Sigs	IC-45232 Surinder Pal Singh, AD Arty
IC-44438 PS Sengupta, Engrs	IC-45239 Anil Ranjan Ray, EME
IC-44448 Rakesh Goel, EME	IC-45244 Sanjay Kumar Rao, Inf
IC-44449 AK Mukherjee, EME	IC-45253 Victor Rajamani D, Inf

IC-45293 Perminder Singh Gill, Arty	IC-37887 Dinesh Kumar P, AD Arty
IC-45297 Shammi Raj, Arty	IC-37889 Kamaldeep Singh, AC
IC-45305 Vijay Kaul, EME	IC-37893 Ravindran C Nair, Inf
IC-45312 Jyoti Prakash Srivastav, ASC	IC-37898 Gajraj Singh, AC
IC-45316 Guljit Singh Chadha, EME	IC-37901 Ranjeet Singh Datta, Arty
IC-45329 Shashi Kant Soni, EME	IC-37909 Narayan Iyer, AOC
IC-42733 DP Ahilaji, AEC	IC-37918 K Satish Omar, EME
IC-37741 SS Sambyal, Inf	IC-37919 Mario Magima, AOC
IC-37744 RS Dhillon, AOC	IC-37920 Manjeet Singh Chhikara, Inf
IC-37748 Susheel Sharma, Engrs	IC-37921 Ravindra Kumar Bhatia, AOC
IC-37758 TS Randhawa, Arty	IC-37933 GS Cheema, EME
IC-37761 Devakaran, Arty	IC-37941 Venkateswaran S, Inf
IC-37763 RC Nair, AD Arty	IC-37943 D Thakur, AC
IC-37765 PK Sinha, Arty	IC-37953 Mahesh Thapa, Inf
IC-37773 MS Guron, AC	IC-37954 HS Negi, Inf
IC-37774 RB Chirumamill, Inf	IC-37959 RS Varma, AOC
IC-37781 Sisir Bhattacharje, Inf	IC-37967 SS Nair, Mech Inf
IC-37800 Rajan Magoon, Engrs	IC-37972 Arun Parasar, Inf
IC-37803 Ramesh Murthy, Inf	IC-37974 D Singh, AC
IC-37807 Atma Sharan, AC	IC-37978 Lajpat Rai, Inf
IC-37809 Kulbir Singh Chauhan, Arty	IC-37979 Venugopal P, Arty
IC-37810 KM Mathew, Inf	IC-37986 GD Rai, ASC
IC-37825 Jai Singh Suhag, Inf	IC-37987 Rajeshwar Sirohi, AOC
IC-37827 SS Phogat, Int	IC-37988 PR Das, Arty
IC-37831 V Subbiah, Inf	IC-37990 VK Naithani, Arty
IC-37835 S Chakraborty, Inf	IC-37992 KS Brar, Inf
IC-37837 MM Varghese, Arty	IC-39452 N Thiagarajan, Arty
IC-37839 DCV Shah, Inf	IC-39456 AK Saxena, Inf
IC-37841 Kishore Kumar, AOC	IC-39460 SD Sarin, AC
IC-37843 Montgomery, Inf	IC-39474 Shashi Rana, Inf
IC-37849 Shailendra Pant, AOC	IC-39475 Satnam Singh, Arty
IC-37866 Prahlad Singh Dahiya, Inf	IC-39477 PC Chandel, Arty
IC-37867 Purushothaman P, Inf	IC-39487 SS Aujla, Inf
IC-37873 Ajit Rama Rane, Engrs	IC-39494 AK Pandey, Mech Inf
IC-37874 P Rajan, Engrs	IC-39497 RK Sinha, AC
IC-37875 Gurdev Singh, Int	IC-39503 DK Pun, ASC
IC-37877 Dinesh Sharma, Inf	IC-39527 Vivek Chaudhry, Arty
IC-37881 Hardeep Sharma, Mech Inf	IC-39532 VK Batra, Inf
IC-37883 Amarek Singh, Inf	IC-39533 AK Rai, AOC

IC-39540 V Kumar, AOC	IC-39759 DK Gurung, Inf
IC-39541 Divakaran T, Arty	IC-39760 CN Suresh, Inf
IC-39544 KK Naithani, AOC	IC-39762 AB Radha Krishnan, Inf
IC-39549 Nasib Singh, Inf	IC-39763 Alok Chaturvedi, Arty
IC-39553 AS Grewal, Inf	IC-39764 Ashok Kumar, Inf
IC-39561 SC Sharma, Arty	IC-39765 Ravinder Mathur, EME
IC-39574 JP Sengupta, Inf	IC-39766 Shantana Varadan R, AD Arty
IC-39580 MK Rai, Arty	IC-39784 Rakesh Aima, Arty
IC-39582 MS Bisht, AOC	IC-39807 BA Kumar, AEC
IC-39589 TS Malara, Arty	IC-39815 M Mathai, AEC
IC-39593 PK Sharma, Engrs	IC-39819 Satbir Singh, AEC
IC-39610 PN Prasad, Arty	IC-39832 GK Chopra, AEC
IC-39611 SK Joshi, Inf	IC-39839 AK Mohapatra, AEC
IC-39613 Satinder Singh SS, AC	IC-39860 K Mukherjee, AEC
IC-39619 JP Singh, Inf	IC-39862 K Raman, AEC
IC-39634 AB Bapat, Sigs	IC-39873 Ravindra Sapre, AC
IC-39644 VK Chhatre, Inf	IC-39877 Rajinder Singh, Inf
IC-39645 Uday Kumar Rajiv, Inf	IC-39899 Rajeev Mehta, Arty
IC-39651 Sunil Midha, Arty	IC-39903 MDS Mann, Inf
IC-39654 HP Singh, Arty	IC-39905 PB Jadhav, Inf
IC-39657 SK Pandey, EME	IC-39914 FS Virk, Arty
IC-39662 FB Patel, Inf	IC-39925 SJ Berry, Inf
IC-39680 AK Chandra, Arty	IC-39926 BS Babra, Arty
IC-39687 RS Tokas, Inf	IC-39928 VK Pillai K, Arty
IC-39689 Sanjiv Harti, AD Arty	IC-39932 VK Mishra, AD Arty
IC-39692 SK Sharma, Inf	IC-39935 Satbir Singh, Inf
IC-39701 Harinder Singh, Inf	IC-39937 Sheerang Joshi, Army Avn
IC-39707 TK Chakravarti, Arty	IC-39939 RR Seth, Arty
IC-39708 R Jaisani, Arty	IC-39941 Rajendra Trapasia, Inf
IC-39711 Murli Nair, AOC	IC-39951 Tej Singh, AOC
IC-39715 RS Kuhar, Inf	IC-39955 YS Yadav, Arty
IC-39716 AB Goth, Inf	IC-39958 Devanand Roy, Inf
IC-39722 Pradeep Pasbola, Inf	IC-39974 Ghanshyam Mishra, Arty
IC-39724 RRS Bhati, EME	IC-39984 Jagrup Singh, Arty
IC-39725 RC Katoch, Inf	IC-39986 DP Singh, Arty
IC-39726 CSK Kunju, AD Arty	IC-39989 Ajit Singh, AOC
IC-39737 Rupinder Mall, AC	IC-39997 Shamrao Khorate, Inf
IC-39744 Girish Kamat, Inf	IC-40002 V Prakash Iyer, AD Arty
	IC-40011 MM Khambete, Engrs



IC-40015 Shashank Yadav, AC	IC-40218 Pradeep Dhaul, Inf
IC-40018 DK Bahri, Inf	IC-40223 SC Sharma, Inf
IC-40026 Rajesh Sharma, Inf	IC-40231 Ajai Sahai, AOC
IC-40042 Dinesh Gupta, AC	IC-40245 SK Rangra, Inf
IC-40049 AP Pandey, Arty	IC-40254 BK Thapa, Inf
IC-40053 AN Yadav, Inf	IC-40264 Jaswinder Singh, AEC
IC-40062 SB Konnur, Mech Inf	IC-40268 SB Rao, AEC
IC-40063 SR Vasant, Inf	IC-40317 MS Niranjan, Inf
IC-40069 RS Joon, Inf	IC-40322 Alok Guha, Inf
IC-40075 RK Singh, ASC	IC-40323 SC Chopra, Inf
IC-40079 DC Bujoy, Arty	IC-40325 HN Kaushal, EME
IC-40100 V Udameeshi, Inf	IC-40334 TS Ranga Rao, Engrs
IC-40104 RS Rawat, Inf	IC-40344 Anil Jaiswal, Inf
IC-40107 Mohanan Nair PN, Arty	IC-40356 Sajeev MT, Inf
IC-40109 SK Tehlan, Inf	IC-40357 VS Mall, AOC
IC-40110 AS Dhanjal, Inf	IC-40365 AK Jaggi, Mech Inf
IC-40114 Anil Malhotra, Inf	IC-40369 LB Khattri, Inf
IC-40121 Sunil Jaggi, AD Arty	IC-40370 Surinder Singh, Arty
IC-40126 SA Jha, Inf	IC-40375 SB Vajra, Engrs
IC-40128 HS Grewal, Inf	IC-40387 Priyaranjan Pain, AOC
IC-40135 RS Rajain, Int	IC-40388 DN Bhotla, Arty
IC-40141 KG Limbu, Inf	IC-40391 JS Kheira, Arty
IC-40145 SS Chadha, Arty	IC-40399 Dinesh Sharma, Int
IC-40146 Susheel Pradhan, Inf	IC-40410 AK Sinha, Inf
IC-40154 VR Painyuli, Int	IC-40413 KB Thapa, Arty
IC-40162 Ajay Gahlaut, AOC	IC-40415 SS Yadav, ASC
IC-40165 K Hari Das, Inf	IC-40417 Laxman Singh, Inf
IC-40170 Eswara Babu MC, Arty	IC-40419 BS Kaundal, Arty
IC-40174 Harendra Singh, AOC	IC-40424 Govind Tahil, Mech Inf
IC-40176 K Verghes, AC	IC-40431 PS Relhan, Arty
IC-40192 Sateesh T, Arty	IC-40436 AK Singh, Inf
IC-40196 Rakesh Sharma, Mech Inf	IC-40439 SK Sharma, Arty
IC-40203 Rajesh Datta, Inf	IC-40443 RS Bhandari, ASC
IC-40207 SK Aich, AD Arty	IC-40445 JS Gulati, AOC
IC-40209 Arun Kainthla, inf	IC-40447 KS Rathore, ASC
IC-40211 CI Marques, Int	IC-40453 Ranjeet Singh, Inf
IC-40212 BMS Rawat, AC	IC-40454 KS Chakrabarti, Sigs
IC-40214 SK Kothiyal, Inf	IC-40457 SK Kochhar, Sigs
IC-40215 Gaganjit Singh, AC	IC-40464 RS Gulia, Inf

IC-40465 JP Uniyal, Arty	IC-40730 AK Mukherjee, Sigs
IC-40467 KS Madan, Inf	IC-40737 Jagajeeve G, Arty
IC-40472 Dileep Kuamr DS, Inf	IC-40740 BR Hooda, Int
IC-40480 Raju N Patil, Sigs	IC-40765 PK Mohanty, Sigs
IC-40483 RK Nair, Arty	IC-40768 Virendra Tomar, Int
IC-40485 Pankaj Kanwar, Int	IC-40770 Babu UT, Arty
IC-40486 Ravendra Goswami, Inf	IC-40774 Vishesh Jhalan, Engrs
IC-40498 BP Suman, AD Arty	IC-40775 AS Kandhari, EME
IC-40503 RVVS Jagati, Inf	IC-40776 Shiv Dayal, ASC
IC-40504 OT Raju, Arty	IC-40797 DS Dahiya, Engrs
IC-40511 NK Aguru, AOC	IC-40801 RK Bansiwali, Int
IC-40518 Manik Manna, Engrs	IC-40814 Kamal Kishore, AD Arty
IC-40522 Mohan Gopalan, Mech Inf	IC-40821 T Sivakumar, Inf
IC-40524 KK Kaushal, Inf	IC-40828 GRS Rajan, Engrs
IC-40528 PS Chauhan, Inf	IC-40830 KK Anil Kumar, Inf
IC-40533 CS Handa, Inf	IC-40831 FA Farooquee, Arty
IC-40536 RC Gupta, AOC	IC-40842 Atul Sharma, Inf
IC-40539 TD Bhutia, Inf	IC-40843 Ashish Ghosh, Engrs
IC-40540 RS Duhan, Inf	IC-40856 Rajiv Khanna, AD Arty
IC-40542 VV Reddy, Int	IC-40857 Manveer Singh, Inf
IC-40553 MS Negi, AOC	IC-40859 MS Ghai, ASC
IC-40554 SK Sharma, Arty	IC-40863 AR Bahndri, Inf
IC-40555 Nishant Kaura, Inf	IC-40868 Rajeev Malik, Engrs
IC-40562 Sanjit Sharma, Inf	IC-40869 RC Dwivedi, Inf
IC-40563 N Sailendra Rao, Sigs	IC-40883 BB Cherukat, Inf
IC-40565 Narinder Sharma, AOC	IC-40888 RS Bath, Inf
IC-40572 KP Singh Atwal, AOC	IC-40890 Rajnish Handa, Inf
IC-40593 KS Basri, Inf	IC-40891 Bopaiah MP, Engrs
IC-40607 B Vandey, Arty	IC-40895 NN Bhattacharjee, Inf
IC-40617 SK Sharma, AOC	IC-40912 PY Parbatey, Inf
IC-40618 Sunil Kumar Sharma, EME	IC-40913 RK Goyal, Arty
IC-40640 Sanjeev Bhatt, Inf	IC-40915 Hari Easwaran, Engrs
IC-40687 Rajasekaran S, AOC	IC-40917 VK Badola, Engrs
IC-40698 SKD Patnaik, Inf	IC-40919 PS Gill, Inf
IC-40705 Arun Sharma, Engrs	IC-40924 HS Rawat, Inf
IC-40712 TS Sinha, Inf	IC-40925 Amitab Johsi, Int
IC-40718 MS Panwar, Inf	IC-40927 Abhijit Bhattacharya, Inf
IC-40719 S Neeraj Roy, Int	IC-40938 Niranjani Pati, Arty
IC-40723 BS Sandhu, Mech Inf	IC-40943 RC Chillar, Int
IC-40726 RPS Dhillon, Arty	

IC-40945 SS Hooda, Inf	IC-41178 Sunil Kumar Chhabra, AD Arty
IC-40948 Kalishipudi Ravi Prasad, Arty	IC-41180 Gian Chand Sharma, Inf
IC-40950 PKS Roy, Inf	IC-41183 Suresh Chandra Mohanty, Inf
IC-40956 Lalit Kapoor, Engrs	IC-41184 Ramesh Kumar, AC
IC-40961 Rajeev Srivastava, Inf	IC-41186 Satnam Singh Manhas, AC
IC-40973 NK Sharma, Mech Inf	IC-41187 Indra Mohan Singh, Inf
IC-40979 KL Davera, ASC	IC-41193 David Swaroop Raj, Arty
IC-40986 Pankaj Mital, Engrs	IC-41198 Madan Gurung, Inf
IC-40993 A Dhawan, Arty	IC-41208 Ulhas S Kulkarni, Inf
IC-40994 Saibal Banerjee, AOC	IC-41210 D Jayadev, Inf
IC-41000 Neeraj Sharma, AD Arty	IC-41215 Gopal Krishan Purushotam Kumar, Mech Inf
IC-41002 Joseph Josey, ASC	IC-41231 Yeshwant Rao Renushe, Inf
IC-41010 Sekhar Roy, Inf	IC-41233 Amrit Singh Randhawa, Mech Inf
IC-41013 Rajeev Sandhir, Inf	IC-41235 Sanjeev Saini, Inf
IC-41016 IPS Walia, AOC	IC-41244 Ranveer Singh, Arty
IC-41018 Ranvir Mahna, Arty	IC-41247 Deginal Shrishail Sharanappa, Engrs
IC-41071 Beji Mathews, AC	IC-41252 Gurinder Singh Mann, Inf
IC-41077 Dinesh Chaudhary, EME	IC-41262 Surinder Kumar Sharma, Arty
IC-41078 Tarsem Singh, AOC	IC-41274 Ajay Krishan Kochher, Mech Inf
IC-41079 Satish N Wasade, Inf	IC-41275 Ravi Kumar PG, Arty
IC-41084 Satish Kumar Sharma, Inf	IC-41287 Pramod Khanijow, Arty
IC-41094 Rajan Batta, Engrs	IC-41293 Attar Singh, Inf
IC-41097 Harjinder Singh Boparai, AC	IC-41294 Sanjeev Chopra, Mech Inf
IC-41100 Keshava Singh, Engrs	IC-41303 Sanjiv Kaushal, AC
IC-41101 Manoj Rawat, Mech Inf	IC-41304 Anuj Srivastava, ASC
IC-41103 Rakesh Kumar Verma, AC	IC-41306 Purushottam Sharad, AD Arty
IC-41113 Padma Lochan Barman, Inf	IC-41307 Rajesh Kumar, Arty
IC-41114 Suryakant Misra, Inf	IC-41315 Iswar Singh, Inf
IC-41116 Kumar Pranay Ranjan, Army Avn	IC-41318 Thumoji Raja Narendra Chari, Engrs
IC-41124 Naresh Kumar Khatter, Arty	IC-41325 Arvind Vaid, Inf
IC-41134 Mahendra Singh, AC	IC-41342 Sasimohan TV, Arty
IC-41136 Bal Raj Mehta, Inf	IC-41346 RK Singh, Arty
IC-41143 Dharendra Tanjder, Arty	IC-41350 Pravesh Kumar Mehra, Sigs
IC-41158 Sanjeev Dubey AD Arty	IC-41351 Sanjay Kumar, Arty
IC-41167 Ramesh Kumar Gill, Inf	IC-41357 Shivnandan Singh, AD Arty
IC-41168 Avinash M Kakade, Inf	IC-41359 Kamendra Dutt Mishra, Inf
IC-41171 Anil Dubey, Engrs	IC-41365 Subroto Mitra, Arty
IC-41172 Baldev Singh, AC	IC-41370 Pushpinder Nath Kesar, Inf
IC-41174 Milton Adhikari, Inf	IC-41375 Anupam Verma, Inf

IC-41378 Christophr Massey, EME	IC-41580 Prabhjot Singh Mangat, Engrs
IC-41387 Pradeep Kumar, Arty	IC-41586 Neervan Bhatnagar, Inf
IC-41390 Harjinder Singh, Arty	IC-41590 Hitesh Chopra, AC
IC-41400 Dilip Nambiar, Inf	IC-41591 Jagdip Singh Lotay, Arty
IC-41429 Vinod Kumar Jain, EME	IC-41593 Devinder Jeet Singh, AOC
IC-41433 Pravat Kumar Pande, Inf	IC-41596 Biswajit Chatterjee, SI
IC-41435 Manvinder Singh, AD Arty	IC-41599 Ravinder Kumar Singh Kushwaha, AOC
IC-41440 R Ganesan, Sigs	IC-41605 Rajbans Pal Singh Kahlon, Arty
IC-41448 Khushwant Singh, Engrs	IC-41612 Mathai VC, Arty
IC-41458 Dilip Kumar Rout, AEC	IC-41619 Gurbir Singh Kalra, Inf
IC-41459 Bhupendra Kumar Desai, EME	IC-41635 Mitra Soumitra, Engrs
IC-41462 Deepak Dahiya, AC	IC-41640 Kamal Kishore Mishra, Inf
IC-41467 Baljeet Singh, Mech Inf	IC-41643 Dapinder Singh Sandhu, Inf
IC-41482 Birender Singh Dhanoa, AC	IC-41645 Sunil Narula, Inf
IC-41487 Sandeep Rawat, Engrs	IC-41650 Ravi Kant Bali, AC
IC-41489 Rajesh Chaba, Mech Inf	IC-41653 Yoginder Singh Yadav, AOC
IC-41490 Shamsher Singh Dalal, Inf	IC-41660 Hari Kant, Engrs
IC-41494 Pradeep Singh, Inf	IC-41666 Chander Deep, Arty
IC-41496 Gurvinder Singh, Inf	IC-41667 Rajiv Raina, Army Avn
IC-41503 Daljit Singh, Inf	IC-41669 Davinder Singh, Inf
IC-41506 Manoj Mehrotra, AD Arty	IC-41670 Vinod Kumar Khanna, Arty
IC-41512 Rajeev Nanda, Sigs	IC-41673 Rajan Jamwal, Inf
IC-41516 Raveen Kumar, AC	IC-41681 Virendra Singh Bangari, Sigs
IC-41521 Harsh Gupta, Inf	IC-41684 Mahendra, Inf
IC-41522 Ananta Bhuyan, Inf	IC-41685 Praveen Sharma, Sigs
IC-41523 Milind Vardeo Chaudhary, Inf	IC-41687 Doppalpudi Sivarama Prasad, Inf
IC-41525 Virendra Singh Yadav, AD Arty	IC-41689 Kamal Kishore Pant, AOC
IC-41526 Mantosh Saha, Engrs	IC-41693 Harbir Singh, Sigs
IC-41527 Rajinder Singh Bhanwala, Engrs	IC-41697 Shambhu Nath Sharma, Inf
IC-41534 Lokeshwar Singh Bisht, AC	IC-41700 Debabrat Mishra, Arty
IC-41535 Mohan S Patil, Inf	IC-41705 Saran Deep, EME
IC-41536 Vasudev Pandey, EME	IC-41707 Manmohan Singh Vilku, Sigs
IC-41537 Rohit Kumar, Inf	IC-41710 Jaya Kumar Sinha, Arty
IC-41547 Rohit Gupta, Mech Inf	IC-41714 Sanjay Kumar, ASC
IC-41560 Anupam Kumar Gupta, Inf	IC-41715 Virender Kumar Bagal, Arty
IC-41568 Rajesh Rana, AOC	IC-41724 Praohakar Raghunath Khandare, Engrs
IC-41572 Anil Kumar Sharma, Inf	IC-41726 Singh Raj Verma, Inf
IC-41576 Gurbrinder Singh Virk, Inf	IC-41728 Jaswant Singh Pandher, Arty
IC-41579 Ratan Kumar Dutta, EME	IC-41730 Prakash C Vastrad, Mech Inf

IC-41731 Rajeev Kumar Mongia, Inf	IC-41911 Rajinder Pal Singh, Inf
IC-41735 Gurdeep Singh Bhandal, Sigs	IC-41912 Tarun Kumar Chawla, Arty
IC-41753 Mangal Murthi Masur, Arty	IC-41925 Anand N Thakur, Engrs
IC-41757 Basalingappa S Yaragatti, Sigs	IC-41926 Ajai H Chauhan, Mech Inf
IC-41759 Anjan Kumar Sikdar, Sigs	IC-41927 Shivender Singh, Inf
IC-41763 Vishu Sikka, AOC	IC-41928 Parvez Kumar Handa, Engrs
IC-41767 Gagandeep Singh Kochhar, Arty	IC-41929 Ravindra Singh Bhadauria, Inf
IC-41782 Udai Raj Singh Bisht, Int	IC-41931 Bhoodev Singh Gangwar, Inf
IC-41786 Rajeev Handa, Arty	IC-41932 Kikar Singh Joon, Inf
IC-41811 Satpat Sagwal, ASC	IC-41933 Ajit B Menon, Engrs
IC-41815 Hari Kishore Dubey, AEC	IC-41934 Sunil Puri Goswami, AD Arty
IC-41828 Swarup Singh Minhas, AEC	IC-41935 Vijay Bakshi, AC
IC-41829 Suneet Chandra Naithani, AEC	IC-41938 Suresh Chand, ASC
IC-41830 Virendra Nath Chaturvedi, AEC	IC-41939 Sanjay Sahni, EME
IC-41836 Ashok Kaul, AEC	IC-41941 Santosh Kumar Sharma, Sigs
IC-41841 Anand Swarup Paul, AEC	IC-41942 MV Abraham, Arty
IC-41851 Jagdev Singh, AOC	IC-41944 Sansar Chand Katoch, AOC
IC-41853 Lalit Joshi, Inf	IC-41946 Sadanand Singh, Inf
IC-41854 Govind Singh Rathore, Inf	IC-41948 Hasmukh Patel, Int
IC-41855 Mohan Chander Misra, AOC	IC-41949 Ris Mehta, AC
IC-41856 Navin Ahuja, Engrs	IC-41951 Raju Chauhan, Inf
IC-41857 Rajvirendra Singh Khurb, Int	IC-41955 Mohan Lal Aswal, AOC
IC-41865 Pankaj K Kumaria, AC	IC-41959 Sarbjit Singh Deusi, Inf
IC-41869 Arvind Bhatia, Inf	IC-41960 Ashwni Kumar Channan, Arty
IC-41876 Arvind Singh, AD Arty	IC-41964 Anurag Shukla, Inf
IC-41879 Gurpreet Singh Sanghera, AC	IC-41965 Bahadur Singh Kaira, EME
IC-41880 Mahindra Singh Yadav, Arty	IC-41966 Balakrishna N, Sigs
IC-41881 Rakesh Kapoor, AOC	IC-41967 Korathu V Mathew, Engrs
IC-41888 Rajiv Misra, Arty	IC-41970 Anupam Sharma, AC
IC-41889 Yadlapalli Srinivas Ganesh, Arty	IC-41974 Chitanya Kumar, AD Arty
IC-41890 Chandra Mohan R, Arty	IC-41977 Dharmveer Singh Suhag, Inf
IC-41891 Ajay Kumar Roy, Inf	IC-41978 Jai Prakash Potlia, Inf
IC-41892 Surinder Pal Singh Malhotra, Inf	IC-41980 KN Radhakrishnan, Engrs
IC-41893 Prafulla G Pawar, Inf	IC-41983 Mukesh Sanguri, Inf
IC-41897 Yogender Kumar Chahar, Inf	IC-41984 Subhah Chandra Tripathi, Inf
IC-41904 Amarjit Singh, AOC	IC-41991 Sunil Kumar, Inf
IC-41906 Sanjay Rai, Inf	IC-41995 Pem Tshering, Inf
IC-41908 Sudhir Bahl, AC	IC-41997 Narendra Kumar, Inf
IC-41910 Subir K Sharma, EME	IC-41998 Sanjay Sah, Arty

IC-41999 Laove Verma, Inf	IC-42143 P Vadya Bhaskar, Arty
IC-42001 Pakala Harsha Vardhan, Mech Inf	IC-42147 Dharam Pal Singh Raghava, Inf
IC-42007 Rajesh Kakkar, EME	IC-42151 Rajiv Kumar Tyagi, Sigs
IC-42013 Subhash Chander Dhull, Sigs	IC-42153 Atma Prakash Segan Bakshi, Arty
IC-42016 Suresh Singh, Engrs	IC-42168 R Malewar, Arty
IC-42017 Jaswinder Singh, Army Avn	IC-42171 Sameer Kalla, AC
IC-42018 Rattan Singh, AOC	IC-42181 Sunil Shiv Das, AC
IC-42023 Sanjay Vinod Pandya, Army Avn	IC-42184 Raghubir Singh, AD Arty
IC-42024 Uday S Hanamshet, Inf	IC-42189 Narendra Singh Parmar, Inf
IC-42025 Rajesh Singh Bains, Inf	IC-42198 Ashok Kumar Pandey, Engrs
IC-42028 Ravindra Singh Phaugat, AC	IC-42214 Prahlad Singh Rathore, ASC
IC-42036 Ranvijay Singh, EME	IC-42231 Anil Kumar Rai, ASC
IC-42037 Satti Raju Sriram, Arty	IC-42243 ES Dayal, Engrs
IC-42038 Vijay Pal Singh Punia, AOC	IC-42244 Anurag Salwan, Engrs
IC-42041 Ganesh Rajakanthan, Inf	IC-42247 S Ganjam, Sigs
IC-42042 Rajiv Raghun, Mech Inf	IC-42251 R Rama Rao, EME
IC-42046 Shivinder Singh, Inf	IC-42252 JP Singh, Sigs
IC-42054 Arun Kumar Chandel, AC	IC-42268 RS Auila, AC
IC-42062 Bijay Kumar Pati, Inf	IC-42272 YP Saroha, AD Arty
IC-42068 Komarneni Pabaiah Choudhary, Inf	IC-42274 P Bhatnagar, AD Arty
IC-42070 Anil Duvedi, Arty	IC-42275 Sandeep Singh, AC
IC-42074 Rakesh K Gadhoke, Engrs	IC-42276 AS Dua, AC
IC-42080 Rajeev Bali, AOC	IC-42277 S Sudhakar, Inf
IC-42083 Azad Singh Ruhail, Int	IC-42279, Sanjiv Kumar, AC
IC-42088 Anil Raj, Arty	IC-42280 Girish Bhandari, Inf
IC-42098 Rajinder Singh Rathore, Arty	IC-42281 Hari Om Juneja, EME
IC-42101 Jugal Kishore Shukla, Arty	IC-42282 RG Patil, Inf
IC-42103 Ravindra B Doll, Inf	IC-42284 Ranjit Singh, AD Arty
IC-42104 Praveen Heeth, AC	IC-42290 Anand Singh, AOC
IC-42107 Sudhir Sharma, EME	IC-42291 RH Deshmukh, Int
IC-42110 Mahesh Singh, Inf	IC-42294 S Jha, AC
IC-42115 Narendra Sharma, Sigs	IC-42295 S Joshi, Inf
IC-42116 Kuriakose AK, Inf	IC-42296 S Sardana, AD Arty
IC-42119 Ravinder Majumder, Inf	IC-42297 G Ramachandran, Inf
IC-42120 Chander Kant Paruthi, Sigs	IC-42298 U Dwivedi, Inf
IC-42121 Naunihal Singh, AOC	IC-42303 Warriar Suresh, Sigs
IC-42126 Deepak Kumar Sasan, Arty	IC-42304 Munish Nanda, Inf
IC-42134 Ram Kunwar Lal Srivastava, Int	IC-42306 Vivek Pathak, Inf
IC-42140 Anupam Sinha, Inf	IC-42313 ND Prasad, Mech Inf

IC-42315 Parmajit Singh, AOC	IC-42419 RL Midha, ASC
IC-42316 Attulya Saini, Inf	IC-42421 Jose Peter, Int
IC-42317 Keshab Rai, Arty	IC-42428 Sanjeev Shourie, Inf
IC-42319 Ajay Dixit, Sigs	IC-42429 Ramesh R, AOC
IC-42324 DK Nautiyal, AC	IC-42430 S Manish, Arty
IC-42326 Avtar Singh, Inf	IC-42434 DS Bainsla, AOC
IC-42328 Arvind Gangoly, AOC	IC-42442 Sabarwal S, Arty
IC-42333 NC Chinchawade, Arty	IC-42450 Varghese MP, Arty
IC-42334 Rakesh Goel, Inf	IC-42454 Bhattacharya SK, Arty
IC-42337 KDS Sahney, Arty	IC-42456 LK Sharma, EME
IC-42342 Dalbir Singh, Mech Inf	IC-42460 KS Sangwan, ASC
IC-42345 N Shukla, Arty	IC-42462 RK Gautam, Inf
IC-42346 SK Malhotra, Mech Inf	IC-42463 SS Joon, Inf
IC-42348 S Vajpei, Inf	IC-42470 VK Chamoli, Engrs
IC-42349 VG Bhatnagar, Arty	IC-42474 Anil Kumar Sethi, Sigs
IC-42353 Govind Prasad, ASC	IC-42478 Alok Vaid, ASC
IC-42356 Ajay Pal, Arty	IC-42479 Paramjit Singh Verma, Inf
IC-42357 NK Venkatesh, Arty Avn	IC-42481 Verma AK, Arty
IC-42362 AS Sandhu, AC	IC-42486 Bhag Singh, Inf
IC-42364 JS Nehra, Inf	IC-42487 Savant S, AD Arty
IC-42365 Parladh Singh, Inf	IC-42490 BK Sahoo, Inf
IC-42366 Ketan N Shah, Sigs	IC-42497 Srinivasan V, AD Arty
IC-42370 Ajay Kumar Singh, Arty	IC-42498 Vijay Bhagat, Inf
IC-42373 Sharad Paliwal, Army, Avn	IC-42501 Rajvir Singh, AOC
IC-42374 Bedi PS, Arty	IC-42502 RMP Panghaal, Inf
IC-42378 AH Chandra, Arty	IC-42503 Rajeev Sharma, Sigs
IC-42379 Chhetri DB, Arty	IC-42514 Virender Kumar, Inf
IC-42380 AK Tyagi, Inf	IC-42516 Om Prakash Gulia, Inf
IC-42381 AK Bandopadhyaya, Inf	IC-42520 V Verma, Arty
IC-42383 RS Rana, Inf	IC-42521 IS Dhillon, Arty
IC-42384 Tiwari VK, Arty	IC-42530 MK Sharma, Engrs
IC-42386 Raju George, Inf	IC-42532 VS Prabhakar, Engrs
IC-42387 Surinder Singh, AC	IC-42538 A Solankey, Inf
IC-42388 G Vinod, Inf	IC-42546 Raman Sharma, Inf
IC-42395 MG Venkatesh, Inf	IC-42553 Mahender S Patil, Inf
IC-42397 Kannan R, Arty	IC-42556 MJS Pathania, Mech Inf
IC-42406 SK Kapur, Inf	IC-42557 TS Gill, AD Arty
IC-42410 Misari Gundagi, AC	IC-42559 AW Nikam, Arty
IC-42413 BS Malik, AC	IC-42560 A Massey, AOC

IC-42561 IG Anantnarayanan, Arty	IC-42742 Hemant, Int
IC-42563 Nand Lal Singh, ASC	IC-43168 DC Dahiya, EME
IC-42572 BP Shahi, Arty	IC-43170 MS Contractor, Engrs
IC-42575 S Sivaram, Inf	IC-43171 Mohan Ram, Engrs
IC-42577 Sanjiv S Vohra, Inf	IC-43174 VK Malik, Engrs
IC-42579 RP Tuteja, Inf	IC-43175 SN Sharadchandra, EME
IC-42583 Karminder Singh, Mech Inf	IC-43179 PR Menon, Sigs
IC-42585 Gyanodaya, Inf	IC-43186 AK Saxena, EME
IC-42588 Shardenadu, Arty	IC-43191 CV Gopal, EME
IC-42590 SK Sharma, AD Arty	IC-43192 Vinet H Daniel, Sigs
IC-42592 SKN Dixit, AD Arty	IC-43195 JS Chouhan, Sigs
IC-42593 ML Sharma, Arty	IC-43197 Atul Kohli, Engrs
IC-42595 SD Mishra, ASC	IC-43199 KS Murthy, EME
IC-42598 Rohit Kumar, Engrs	IC-43202 Jatinder Singh, Engrs
IC-42601 Amrit Pal Singh, Inf	IC-43205 PK Jena, EME
IC-42603 PS Bhatia, AD Arty	IC-43211 Gautam Narayan, EME
IC-42614 Arvind Kumar, AC	IC-43619 SM Kulkarni, EME
IC-42616 VK Singh, AC	IC-43621 S Kumaran, Engrs
IC-42617 Sunny Bakhshi, ASC	IC-43622 SS Hundal, Engrs
IC-42621 Rajesh Dhar, EME	IC-43626 Shantanu Anikhaindi, Engrs
IC-42623 SR Nair, Inf	IC-43627 RS Dalal, EME
IC-42629 Y Maitre, AD Arty	IC-43632 Chandra Pal Singh, Engrs
IC-42630 CN Rao, Mech Inf	IC-43635 VS Babu BS, Engrs
IC-42634 RK Sharma, AOC	IC-43645 Kamal Kant, Engrs
IC-42635 NB Vishen, Int	IC-44005 AT Varghese, Sigs
IC-42640 SS Chopra, Inf	IC-44006 VK Rathee, Engrs
IC-42643 K Bishnoi, Inf	IC-44010 CD Sinha, EME
IC-42654 Omveer Singh, Inf	IC-44017 Kishore Geer Bava, Engrs
IC-42655 BR Kushwaha, Inf	IC-44021 BV Ravi Kumar, Engrs
IC-42660 Tushar Roy, AOC	IC-44028 Srinivasan Ramamoorthy, EME
IC-42666 AM Katarya, AOC	IC-44032 SS Jha, Sigs
IC-42667 MNBP Sharma, Inf	IC-44425 MR Shankar Oza, EME
IC-42676 J Sandhu, Inf	IC-44439 Narendra Tyagi, Engrs
IC-42679 JP Singh, EME	IC-44446 GK Mukherjee, Engrs
IC-42682 KS Azad, Engrs	IC-44454 Kuldeep Singh, Engrs
IC-42685 Purshottam Kumar, Engrs	IC-44466 Rajiv Sharma, Engrs
IC-42696 Anil Kumar, Engrs	IC-45004 Parvesh Talwar, Inf
IC-42704 AK Bara, EME	IC-45011 Jagdeep Singh Bhandari, Inf
IC-42741 R Pandey, Sigs	IC-45012 KP Sharma, Engrs



IC-45013 Sunil Dhingra, Inf	IC-45170 Alok Akhauri, AOC
IC-45016 Madam Mohan Uniyal, Inf	IC-45175 Randhir Singh, Mech Inf
IC-45020 Krishna Chandr, EME	IC-45177 Sandeep Singh Sandhu, AC
IC-45021 Jasbir Singh, Arty	IC-45180 Veerendra Mohan, Jag
IC-45023 RS Yadav, Army Avn	IC-45191 Rajender Singh Shekhawat, Inf
IC-45026 Jude D Rocque, Inf	IC-45193 Atul Kaushik, Inf
IC-45028 Anup Kumar Thakur, Inf	IC-45197 Gurminder Singh, Arty
IC-45034 A Kumar, ASC	IC-45199 Satheesan PV, Inf
IC-45041 Ajay Kumar Sood, Sigs	IC-45200 Rajinder Kumar, Jag
IC-45044 Soundera Pandian, Inf	IC-45201 Sunil Dewan, AD Arty
IC-45048 RN Gokhale, Inf	IC-45206 Surendra Singh, Inf
IC-45049 Stephen A, Inf	IC-45209 Bhupinder Singh, Inf
IC-45070 Deo Raj Singh, AOC	IC-45211 Rajesh Kundra, Inf
IC-45071 Vinod Dutta, AOC	IC-45213 Raghavan VS, AC
IC-45076 Ram Kumar Rajeev, AOC	IC-45215 Ravindra Kumar Bhandari, Inf
IC-45083 Anuj Singh Sidhu, Inf	IC-45219 Sarbinder Pal Singh Buttar, Arty
IC-45085 Kuljit Singh, AC	IC-45220 Rajdeep Anand, AC
IC-45090 DS Kushwaha, ASC	IC-45221 Naresh Kumar, Arty
IC-45091 Ashwani Kumar GC, Int	IC-45225 Manoj Kumar Channan, AC
IC-45094 Kulbhushan Bhardwaj, AOC	IC-45229 Joshua David Arun Kumar, Engrs
IC-45095 Pradeep Kumar Tiwari, Arty	IC-45234 Harinder Pal Singh, Arty
IC-45097 S Bose Choudhary, Int	IC-45235 Yashwant Kumar Singh, Int
IC-45115 Bharpur Singh, Arty	IC-45236 Jatinder Singh Chauhan, AC
IC-45116 Asokan K, AD Arty	IC-45238 Thomas Sabu, Arty
IC-45117 Ramesh N, Sigs	IC-45241 Nesar Sharif, Inf
IC-45124 Pradeep Kumar, Engrs	IC-45242 Parvinder Singh, Engrs
IC-45126 Narender Kumar, Inf	IC-45246 Ishwinder Singh Se. deva, Inf
IC-45127 Joginder Singh, AC	IC-45247 Harbajan Singh Phagura, Mech Inf
IC-45130 Kuljinder Singh, Inf	IC-45250 Harminder Singh Madan, Inf
IC-45132 Sunil Kumar Rathi, AC	IC-45252 Rajesh Taneja, Engrs
IC-45134 Shiv Shankar Prasad Singh, Int	IC-45255 Ravichandran R, Engrs
IC-45138 Sunder Singh, Inf	IC-45256 Ravi Srinivas S, Arty
IC-45140 Mahendra Singh Yadav, AC	IC-45260 Mahesh Anand, Arty
IC-45141 Dinesh Singh Bisht, Arty	IC-45262 Palakamshetty Ganesh Kumar Naidu, Inf
IC-45143 Dalbir Singh, Inf	IC-45263 Kulwant Singh Nadial, Engrs
IC-45147 Kumar MV, EME	IC-45273 Udai Chand Yadav, Arty
IC-45151 Shibu Sarkar, Int	IC-45275 Indra Sen Singh, Jag
IC-45152 VK Singh, AC	IC-45291 Puneet Salhotra, Mech Inf
IC-45162 Anil Raina, Inf	IC-45294 Anand Sontake, AC
IC-45168 Ranjit Rai Handa, AOC	

IC-45295 Prasad RFD Surendra, Inf  
 IC-45296 Rajinder Singh Mehta, EME  
 // IC-45301 Manoj Kumar Vashist, EME  
 IC-45302 Vinay Kumar Singh, AC  
 IC-45306 Rajeev Kumar Dureha, EME  
 IC-45325 Pradeep Kumar Jha, EME  
 IC-45332 Ranbir Singh, AC  
 IC-45336 PK Yadav, AC  
 IC-45339 Dalwinder Singh, EME  
 IC-45343 Deepak Vashist, EME  
 IC-45345 RRNR Shinde, AC  
 IC-45352 Rajiv Sachan, Jag

—16 Dec 2004—

REGIMENTAL COMMISSION

Capt to be Major

RC No., Name and Arm

RC-00974 Duraisami Naicker Subramani, Inf  
 RC-00975 Pragasan, Engrs  
 RC-00976 Govind Singh, Inf  
 RC-00977 Thomas KS, Sigs  
 RC-00978 Sasidharan Nair PR, Engrs  
 RC-00979 Prem Chand, EME  
 RC-00980 Aravindkrisan C, Sigs  
 RC-00981 Badmanaban, Engrs  
 RC-00982 Jai Ram Tanwar, M/Inf  
 RC-00983 Balakrishnan M, Arty  
 RC-00985 Om Prakesh Tripathi, EME  
 RC-00986 Bodh Raj, Inf  
 RC-00987 Arivind Kumar Thapa, Inf  
 RC-00988 Parkesh Chand Verma, Inf  
 RC-00989 Gurnam Singh, Arty  
 RC-00990 Sarat Chandra Mahanta, EME  
 RC-00991 Krishan Lal, M/Inf  
 RC-00992 Prafulla Chandrane, EME  
 RC-00994 R Kannaiah Reddy, Inf  
 RC-00995 Jagdish Prasad, Inf  
 RC-00996 K Murugasamy, ASC  
 RC-00997 Krishan Bahadur, Inf  
 RC-00998 Balbir Singh, CMP  
 RC-00999 Gurcharan Singh, Inf  
 RC-01000 Balkar Singh, Inf

RC-01001 Ghasi Ram Choudhary, Inf  
 RC-01003 Dharampal Yadav, Arty  
 RC-01004 Bache Singh Mehra, Inf  
 RC-01005 Bhawani Singh, Inf  
 RC-01006 G Seeniraj, Inf  
 RC-01007 Dharam Pal, Sigs  
 RC-01008 Birendra Singh Tomar, Inf  
 RC-01009 Sukhvir Singh, Inf  
 RC-01010 Ganesh Chand, Engrs  
 RC-01011 Belavalekar RG, Sigs  
 RC-01012 Bhosale KP, Sigs  
 RC-01013 Inder Bhadur Gurang, Sigs  
 RC-01014 M Muthuram, Engrs  
 RC-01015 Vnirod Kumar Singh, Sigs  
 RC-01016 Gharu Ram Dogra, EME  
 RC-01017 Bhadur Singh, EME  
 RC-01018 Jasvinder Singh Bhandher, EME  
 RC-01019 Mohanan MR, Engrs  
 RC-01020 Ram Mohan Pandey, Sigs  
 RC-01021 Muraleedharan Nair P, Engrs  
 RC-01022 Harbans Lal, Inf  
 RC-01023 Uma Shanker Thakur, Engrs  
 RC-01024 Pradip Kumar Baruah, EME  
 RC-01025 Kuldip Singh, Sigs  
 RC-01026 Balwinder Singh, Arty  
 RC-01027 Rajan Co, EME  
 RC-01028 Sreedharan Pillai TP, Sigs  
 RC-01030 Purushothaman C, Sigs  
 RC-01031 Sukhdev Singh, Inf  
 RC-01032 Devendra Pal, Inf  
 RC-01033 Raghvir Singh, Inf  
 RC-01034 Binod Kumar Thapa, Inf  
 RC-01035 CP Gopimohan, Engrs  
 RC-01036 P Devadhas, Engrs  
 RC-01037 Sharvan Singh, Inf  
 RC-01038 P Sekar, Sigs  
 RC-01039 Sukhvinder Singh, AC  
 RC-01040 Chok Bhadur Thapa, Inf  
 RC-01041 Shriman Lal, AC

RC-01042 Yasam Subba Rayudu, CMP	RC-01087 Ram Kumar Ram, EME
RC-01043 Kamalesh Nandi, CMP	RC-01088 Birender Kumar Tapwal, Inf
RC-01044 Gaje Singh, AC	RC-01089 Rattan Singh, Sigs
RC-01045 Balwinder Singh, Sigs	RC-01090 A Joseph, Arty
RC-01046 Suresh Chandra Yadev, EME	RC-01091 Chander Singh, Inf
RC-01047 Varguhese PC, EME	RC-01092 Lita Sando, Arty
RC-01048 Jare Bhanudas Sambhaji, Arty	RC-01093 KL Sharma, M/Inf
RC-01050 Biswanth Chakladar, Arty	RC-01095 Ramesh Kumar Rasaily, Inf
RC-01051 Rajbir Singh, Arty	RC-01096 Suresh Kumar, M/Inf
RC-01052 Gulab Singh, Arty	RC-01097 Pawar Sahebrao Raghunath Rao, Sigs
RC-01053 Natabar Jena, Sigs	RC-01098 Arvind Kumar, M/Inf
✓ RC-01054 Chandan Singh, Inf	RC-01099 Kham Bahadur Gurung, Inf
RC-01055 Sathesh Kumar S, Arty	RC-01100 Sukhdev Singh, Sigs
RC-01056 Sawant Anant Damodar, Engrs	RC-01101 Krishana Kumar Jha, Sigs
RC-01057 Hridya Nand Sharma, Inf	RC-01102 Mohanan EP, Sigs
RC-01058 Brham Singh, Inf	RC-01103 U Venkateswarlu, Sigs
RC-01059 Kishore Singh Sekhawat, Inf	RC-01104 S Murugesan, Sigs
RC-01060 Vasantha Kumaran BK, Sigs	RC-01105 Partyap Singh Bisht, Sigs
RC-01061 Shiv Vijay Singh, EME	RC-01106 Chidananda Prabhu, Sigs
RC-01062 Balkaran Singh Mann, Arty	RC-01107 Balwant Singh, Sigs
RC-01063 Radey Shyam Singh Yadav, Arty	RC-01108 Pulak Kumar Hajra, Sigs
RC-01064 Vijay Pal Singh, ASC	RC-01109 Resham Singh, Sigs
RC-01065 PB Gurung, M/Inf	RC-01110 Sudarshan Singh Pathania, Arty
RC-01066 Jasminder Pal, Int	RC-01111 Nitish Chandra Ghosh, Sigs
RC-01067 Rajinder Singh Gurung, Inf	RC-01112 Ramdev Singh Sengrsar, Arty
RC-01069 Sushil Kumar Pandey, EME	RC-01113 AK Ghosh, Sigs
RC-01070 Joseph KP, EME	RC-01114 Brikam Sing Sharma, Inf
RC-01071 Surinder Singh, EME	RC-01115 Narayanan Nair K, EME
RC-01073 Bhramarbar Sahoo, Sigs	RC-01116 Hem Raj Saklani, Inf
RC-01074 Vijay Pal Singh Tomar, Inf	RC-01117 Mohammed Salim, Engrs
RC-01075 Radhey Shyam Pandey, Arty	RC-01118 K Sujan Singh, Sigs
RC-01076 Ajit Singh Shivrain, Inf	RC-01119 Yohannan Daniel, EME
RC-01077 SA Basha, AC	RC-01120 Jai Singh, EME
RC-01078 Satyavir Singh Dangi, Inf	RC-01121 KDS Jamwal, AC
RC-01079 Nope Singh Rathoore, Inf	RC-01122 Samsher Singh, Sigs
RC-01080 Lugde Babasaheb Bhaguji, Sigs	RC-01123 Pair Singh Attri, Inf
RC-01084 Sudhakaran Nair KP, EME	RC-01124 Dhanna Ram, AC
RC-01085 Bachan Singh Chandel, EME	RC-01125 Balvir Singh, AC
RC-01086 Pratap Singh, Sigs	RC-01126 Devashish Singh, Inf

RC-01127 Krishna Bahadur Khattri, Inf	IC-56088 Roshan Zameer, AD Arty
RC-01128 Sudesh Singh Jat, Inf	IC-56089 Anuj Mann, Arty
RC-01129 Krishna Bahadur Rana, Inf	IC-56090 Dwij Kishore, EME
RC-01130 Rajinder Pershad Guleria, Inf	IC-56091 Arvinder Pal Singh, Inf
RC-01131 Rohas Singh, Arty	IC-56092 Sachidananda Prabhu, Jag
—16 Dec 2004—	IC-56094 Susanta Sekher Bose, Engrs
PERMANENT COMMISSION	IC-56095 Neeraj Sawhney, Arty
Capt to be Major	IC-56096 GS Vinod, Arty
IC No., Name and Arm	IC-56097 Vikas Dimri, Engrs
IC-56051 Sandeep Duhan, AD Arty	IC-56098 Sooraj S Nair, Inf
IC-56052 Joginder Singh, AD Arty	IC-56099 Skand Nayal, Inf
IC-56053 Deepak Sandhu, AC	IC-56100 Rajneesh Gulia, AD Arty
IC-56054 Rohit Pandey, Mech Inf	IC-56101 Pradeep Kumar, Inf
IC-56055 Rajeshwar Singh Bazad, Inf	IC-56102 Jasbir Singh, ASC
IC-56056 Tiruvenketesan Shenoy, Engrs	IC-56104 Pawan Sharma, Engrs
IC-56057 Shashank Kushwaha, Inf	IC-56105 Rakesh Kumar, Inf
IC-56058 G Bhaskar, Inf	IC-56107 Chandra Prakash Nagarkoti, Engrs
IC-56059 P Senthil Kumar, Arty	IC-56108 Shubhajeet Tarafdar, Arty
IC-56060 Dexter Nagle, Inf	IC-56109 Nirmaljit Singh Sidhu, Inf
IC-56063 Hemanshu Pandey, Arty	IC-56111 Sanjeev Haryal, Arty
IC-56064 Jatinder Singh, Arty	IC-56112 Himanshu Kandpal, Arty
IC-56066 Gireesh Singh, Inf	IC-56113 Ashish Chaturvedi, AC
IC-56067 Gaurav Chhibber, EME	IC-56114 Dharmabir Singh Rawat, Inf
IC-56068 Evneet Singh Bedi, AD Arty	IC-56115 Yadvinder Singh, Engrs
IC-56069 Arvind Chaudhary, Inf	IC-56116 Vineet Sudan, ASC
IC-56072 Manvendra Singh Mann, Inf	IC-56117 Upendra Prasad, Inf
IC-56073 Anil Kumar, Arty	IC-56118 Medepalli Sudhakar, EME
IC-56074 Rajesh Mor, Arty	IC-56119 Sarabjit Singh, AD Arty
IC-56075 Gautam Pathania, Inf	IC-56120 Rane Sumit Madhusudan, EME
IC-56076 Abhay Singh, Inf	IC-56121 Shashwat Doval, ASC
IC-56078 Nitin Tripathi, Inf	IC-56122 Ajay Kandwal, Inf
IC-56079 Kishan Bahadur Gurung, Inf	IC-56123 Saurabh Shah, Inf
IC-56080 Anil Kumar Raina, Mech Inf	IC-56125 Anshu Sahay, Mech Inf
IC-56081 Anil Kumar Sharma, AD Arty	IC-56126 Anwar Shaikh, Arty
IC-56083 Ashish Awasthi, Sigs	IC-56127 Vinay Ahluwalia, Arty
IC-56084 RS Rajeev, Inf	IC-56128 Vibhor Gupta, AC
IC-56085 Pranav Kant Shah, Inf	IC-56129 Arun Kumar Chechi, Inf
IC-56086 Nishith Sahay, Mech Inf	IC-56130 Clifford George, EME
IC-56087 Ramesh Sariyal, Inf	IC-56131 Mushfique Ahmad Khan, ASC

IC-56132 Atul Chaudhary, Arty	IC-54373 Abhik Kar, Engrs
IC-56133 Rohitashwa Panwar, AD Arty	IC-54378 Sangol S, Sigs
IC-56134 Sameer Chaudhary, Inf	IC-54394 Kumar Rajneesh, Sigs
IC-56135 Anurag Ganjwar, Arty	IC-54407 Manish Sehgal, EME
IC-56136 Arun Prakash, AD Arty	IC-54414 Saju CB, Sigs
IC-56137 Yogesh Kumar, Inf	IC-54436 Harinder Singh Sandhu, Sigs
IC-56139 Ashutosh Vaidya, Arty	IC-54474 Amit Kumar Batra, EME
IC-56140 Anuj Kaistha, Arty	IC-54518 Amar Singh Rajput, Sigs
IC-56141 Ritesh Ranjan, Inf	IC-54537 Jagtar Singh, Sigs
IC-56143 Amar Sharma, Inf	IC-54547 Shilendra Kumar Singh, EME
IC-56144 Rajesh Misra, Arty	IC-54548 Tarun Kangsabanik, Sigs
IC-56145 Yogendra Chinwan, Inf	IC-54549 Bhaskar Debdas Bhattacharya, Engrs
IC-56146 Tony Cherian, Arty	IC-55440 Bijup Ninan, EME
IC-56147 Vijayanth Thapa, Inf	IC-55445 N Sivakumar, Engrs
IC-56150 Lakshman Ojha, AOC	IC-55447 Rajeev Jamwal, Engrs
IC-56151 Ajeen Kumar K, Jag	IC-55448 Vikram Singh Thakur, AD Arty
IC-56152 Avninder, Inf	IC-55479 Kumar Pankaj Singh, EME
IC-56153 Amit Kumar Sharma, ASC	IC-55484 N Sri Ramesh, EME
IC-56154 Aman Bisht, Arty	IC-55536 Harminder Singh, EME
IC-56155 Deepak Kumar Dayal, Inf	IC-55550 Sandeep Rohilla, Sigs
IC-56156 Kuldeep Sirohi, Inf	IC-55552 Vijay Bharadwaj, Engrs
IC-56157 Muthappa MD, Inf	IC-55554 Rajesh Rana, EME
IC-56158 Rakesh Kumar, EME	IC-55567 PJ Prabhakaran, Sigs
IC-56159 Anish Sharma, AD Arty	IC-55570 Subodh Verma, Inf
IC-56160 Kaushik Kumar Sen, Engrs	IC-55572 Pamaljeet, Engrs
IC-56161 Akshaya Kumar Singh, EME	IC-55574 P Jose, EME
IC-56162 Surinder Pal Singh, Inf	IC-55585 P Hani, EME
IC-56163 Ramesh Chander, Inf	IC-55588 JL Srinivasan, Engrs
IC-56164 Nitesh Krishna, Inf	IC-55596 Amarnath Tripathi, EME
IC-56165 Vivek Kandari, Arty	IC-55604 Himanshu Pandey, Engrs
IC-56166 Shankar Pande, Arty	IC-55610 Rahul Kumar Gupta, EME
IC-56167 Nitin Chopra, Arty	IC-55613 Sanjay Sekhar, Engrs
IC-56168 Sorabh Sharma, Inf	IC-55615 Rajeev Kumar, EME
	IC-55616 Aparesh Kumar Singh, Sigs
	IC-55618 R Laljee Pillai, Engrs
	IC-56615 Hardeep Sandhu, Engrs
	IC-56632 Manoj Kumar, EME
	IC-56635 Vijay Gupta, Sigs
	IC-56649 Ranjit Kumar, Sigs
IC-54311 Anurag Tyagi, Engrs	
IC-54323 Visakhaaditya Remani, Sigs	
IC-54349 Devinder Singh, Sigs	
IC-54359 Shende Kamlesh Manikrao, Inf	

—05 May 2005—

IC-56661 Kanwar Sandip Pal Singh Sodhi, Sigs	IC-54297 Shailesh Asati, Sigs
IC-56667 Arun Bhandari, Sigs	IC-54298 Rohit Gupta, Engrs
IC-56686 V Anandan, Sigs	IC-54299 Rivindra Singh Rana, Arty
IC-56696 Nikhit Sinha, Sigs	IC-54300 Rajneesh Mohan, Inf
IC-56715 Sachin Bhushan, EME	IC-54302 Manpreet Singh, Arty
IC-56731 Sandeep Kumar, Engrs	IC-54303 Surya Partap Singh Rawat, Arty
IC-56740 Krishna Kant Sharma, EME	IC-54304 Sanjeev Kumar Yadav, EME
IC-56742 M Rajesh, Sigs	IC-54305 Harmandeep Singh Baidwan, Inf
IC-56754 Chann Preet Singh, Sigs	IC-54306 Pradeep Singh, Inf
IC-56767 Anurag Walia, Sigs	IC-54307 Rajwinder Singh Mangat, Arty
IC-56809 Kulkarni Ashutosh Chandrakant, Sigs	IC-54309 Ishwant Singh, Arty
IC-56811 Prabath Shankar Chandra Shekhar, Sigs	IC-54310 Choudhary Randhir Bahadur, AOC
IC-56828 D Mukherjee, Sigs	IC-54312 Amit Singh, Inf
IC-56839 Anil Kumar KV, Sigs	IC-54313 Tapan Kumar Pant, Inf
IC-56842 Nirja Kaul, Sigs	IC-54314 CN Nanjappa, Inf
IC-56847 Mayank Tripathi, AC	IC-54315 Vikas Bhola, Mech Inf
IC-56854 Navjeet Singh, Sigs	IC-54316 Mahashabde Prabhakar Hari, Arty
IC-56866 Vishal Mishra, Sigs	IC-54317 Saurav Vats, Inf
IC-56874 Saikat Sarkar, Sigs	IC-54318 Virendra Kumar Sharma, Arty
IC-56885 Manish Thapliyal, Sigs	IC-54319 Bharat Yadav, AOC
IC-56886 Vikas Prabhakar, Sigs	IC-54320 Kanwar Jitender Singh, ASC
IC-56890 Dhirender Singh Kapoor, EME	IC-54321 Amandeep Singh Dhodi, AC
IC-56906 Gurpreet Singh Oberoi, EME	IC-54322 Vanguru Ravi, AD Arty
IC-58081 Jasvinder Pal Singh, EME	IC-54324 Rahul Dwivedi, Arty
IC-58092 Alok Singh, EME	IC-54325 Hatish Kumar Prashar, AD Arty
IC-58095 Vikash Kumaria, EME	IC-54326 Ramesh Krishnan, Inf
IC-58099 Dalwinder Singh Arwal, Engrs	IC-54327 Pitambare Manish Hiraji, Inf
IC-58101 Wangkhem Somorjit Singh, EME	IC-54328 Rohit Gulati, Inf
IC-58120 Sudeep Laal, Engrs	IC-54330 Himanshu Tiwari, Arty
—16 Dec 2004—	
IC-54286 G Sivakumar, Engrs	IC-54331 Lalit Panwar, Inf
IC-54287 Vikas Singh, Inf	IC-54332 Ashish Khanna, Arty
IC-54288 Anil Kumar Malik, Inf	IC-54333 R Natarajan, Inf
IC-54289 Anuj Rampal, AC	IC-54336 Anupam Gautam, ASC
IC-54291 Subhasish Mishra, AD Arty	IC-54337 Rohit Chalapathy, Sigs
IC-54292 Rakesh Yadav, Mech Inf	IC-54338 Nikhil Deshpande, Inf
IC-54293 Jitesh Rathi, Mech Inf	IC-54339 Ashutosh Tripathi, EME
IC-54294 Arvind Singh Khimta, Inf	IC-54340 Chirag Ghura, Engrs
IC-54295 Jojen Kochery, AD Arty	IC-54341 Ashutosh Dwivedi, AC
	IC-54342 Gurkirat Singh Puri, Engrs

IC-54343 Anurag Agarwal, Arty	IC-54392 Ashish Verma, Arty
IC-54344 Sunil Tyagi, ASC	IC-54393 Niket Singh Negi, Inf
IC-54345 CS Shiv Prasad, Inf	IC-54395 Mohit Narang, Inf
IC-54346 Kirpal Singh Gill, Inf	IC-54396 Durga Shankar, ASC
IC-54347 Ardamanji Singh Jauhal, AOC	IC-54397 Raghudeep Minhas, Engrs
IC-54348 K Thirunavukkarasu, ASC	IC-54398 Sourabh Mukherjee, Arty
IC-54351 Sanjeev Kumar Singh, Inf	IC-54399 Sushil Bugalia, ASC
IC-54352 Soumeet Patnaik, Inf	IC-54400 Ganesh Nagarajan, Inf
IC-54353 Pallav Mishra, Inf	IC-54401 Dommur Karam Chand, Inf
IC-54354 Somnath Vashisth, Arty	IC-54402 Sanjeev Thakur, Inf
IC-54355 Ashwin Nagpal, Arty	IC-54404 Sidhartha Singh, Engrs
IC-54356 Dinesh Dahiya, EME	IC-54405 Ram Kumar Narwal, Sigs
IC-54357 Gaurav Jain, Arty	IC-54406 PVGS Jayaram, Arty
IC-54360 Banit Singh Negi, Inf	IC-54409 Mehta Ankur Bhimwal, EME
IC-54361 Eldose Paul, ASC	IC-54410 Shamsheer Jung, Inf
IC-54363 Sameer Adhikari, Engrs	IC-54411 Vikrant Singh Billawaria, Arty
IC-54365 Sanjeev Kumar Singh, AOC	IC-54412 Ved Pal Yadav, Inf
IC-54366 Narinder Sharawat, Inf	IC-54413 Rajeev Kumar, Inf
IC-54367 Naveen Suri, ASC	IC-54415 Rajpal Singh, Arty
IC-54368 Pranav Kumar, Inf	IC-54416 Manu Mohan, AD Arty
IC-54369 Satish Kumar, AOC	IC-54417 Rahul Mankotia, ASC
IC-54370 Vageesan R, EME	IC-54418 Rajeevan Arayambath, AC
IC-54371 Preet Mohinder Singh, Inf	IC-54419 Felix Kolentine, Inf
IC-54372 Rahul Sinha, Mech Inf	IC-54420 Arindam Mookherji, Arty
IC-54374 Shakeel Ahmad, AC	IC-54421 Amit R Goray, Engrs
IC-54375 Sandeep Kumar Mahalwar, Inf	IC-54422 Siddhartha Shankar, EME
IC-54376 Aditya John Paul, Arty	IC-54423 Anupam Bhattacharjee, Inf
IC-54377 Akhilesh Kumar Mishra, ASC	IC-54424 Saurabh Kumar, Inf
IC-54379 Jetender Deep Singh, Arty	IC-54425 Nikhil Ganapathy, AC
IC-54380 Sanjay Kumar Chhoker, ASC	IC-54426 Satya Narain, Inf
IC-54381 Raj Vijay Rai, Inf	IC-54427 Anuj Singhal, Sigs
IC-54382 Puneet Gogia, Sigs	IC-54428 Arun Singh Aswal, EME
IC-54383 Vipin Kumar Chowdhri, AD Arty	IC-54429 Kamaldeep Singh Ghuman, AC
IC-54384 Vikas Rao Chowhan, AOC	IC-54430 Raj Kumar, Inf
IC-54386 Shailendra Bisht, Inf	IC-54431 Nitin Sehgal, ASC
IC-54387 Amit Mathur, AC	IC-54432 Mahajan Abhijit Wasudeo, Inf
IC-54389 V Nanda Kumar, Arty	IC-54433 Mahesh Kumar, Arty
IC-54390 Gaurav Dimri, AC	IC-54434 Ravi Madhok, Inf
IC-54391 Abhijeet Saxena, ASC	IC-54435 Prodipto Goswami, Arty
	IC-54437 Dipu Thomas, AC

IC-54438 Sushil Kumar Singh, Inf	IC-54481 Gaurav Puri, Arty
IC-54439 Sandeep Kumar, Inf	IC-54482 Devendra Narahari Kotnis, Inf
IC-54440 Kulpreet Singh Bawa, Arty	IC-54483 Sudhanshu Dixit, AC
IC-54441 Saurabh Pandey, Int	IC-54484 Ranjan Chengappa, Arty
IC-54442 Eshan Dalal, Inf	IC-54487 Jagannath Jha, AD Arty
IC-54443 Jatinder Pal Singh Khaira, Inf	IC-54488 Arvind Nath Jha, Inf
IC-54444 Mahendra Singh Shekhawat, AC	IC-54489 Vikas Bahuguna, Inf
IC-54445 Jadhav Raghunath Ramchandra, Sigs	IC-54490 Abhishek Rai, EME
IC-54446 Gaurav Sehgal, Arty	IC-54491 Rajiv Narain Sharma, Inf
IC-54447 Sunil Jaithalia, Arty	IC-54493 Vijay Bal, Arty
IC-54448 Rana Vikrant, Int	IC-54494 Padmanabhan KE, Arty
IC-54449 Ravi Varma, EME	IC-54495 Kundan Sharma, Inf
IC-54450 Manoj Batra, ASC	IC-54496 Parakram Chauhan, AC
IC-54451 Hariom Singh Dahiya, Sigs	IC-54497 Shivak Mathur, ASC
IC-54452 NV Navjot Deshwara, Arty	IC-54498 Nitin Sharma, ASC
IC-54453 Raizada Rajesh Chandel, Inf	IC-54499 N Kumara Dhas, Inf
IC-54454 Ashok Kumar Ahlawat, AOC	IC-54500 Deepak Bector, Arty
IC-54455 Prabjote Singh, ASC	IC-54501 Neeraj Khurana, Inf
IC-54456 Vinay Sadasivan, Inf	IC-54502 Nitin Sharma, EME
IC-54457 Padmasambhava Acharya, Inf	IC-54503 Manoj Saxena, AOC
IC-54458 Amarvir Singh, AD Arty	IC-54504 Kuldeep Singh Dahiya, Inf
IC-54459 Rohit Sharma, AC	IC-54505 Rajiv Mehta, Inf
IC-54460 Siji Pillai, ASC	IC-54506 Donald Simon Peters, Inf
IC-54462 Rahul Tripathi, Inf	IC-54508 K Rajesh, AOC
IC-54463 Gyan Prakash, ASC	IC-54509 Pankaj Kumar Saul, Inf
IC-54464 Sumanto Banerjee, Arty	IC-54510 Shambhu Nath Thakur, ASC
IC-54465 Vivek Goel, AD Arty	IC-54511 Sanjeev Kumar Yadav, AD Arty
IC-54466 TM Laksha Reddy, Inf	IC-54512 Bikram Saini, Inf
IC-54468 Parkar Amar Sudhir, Sigs	IC-54513 Sanjay Singh, Inf
IC-54469 Joy Bose, Arty	IC-54514 Amit Sharma, Arty
IC-54471 Vijay Bharti Salwan, Engrs	IC-54515 Sujay Ray, Arty
IC-54472 Navdeep Sandhu, Int	IC-54516 Abhinav Kumar, Arty
IC-54473 Manpreet Kaur, ASC	IC-54517 Rahul Singh, AC
IC-54475 Samir K Palande, Inf	IC-54519 Vivek Jamwal, Inf
IC-54476 Nigel Adrian Barretto, ASC	IC-54520 Shikar Som Sharma, Inf
IC-54477 Manish Kumar Jain, Inf	IC-54521 Vinod Mehta, EME
IC-54478 Dipu Singh, Meca Inf	IC-54522 Shirshendu Mukherjee, Inf
IC-54479 Rakesh Singh Chauhan, Inf	IC-54523 Samir Kumar Kaushik, Inf
IC-54480 P Srinivas Naidu, Inf	IC-54524 Ramendra Dutt Sharma, Arty



IC-54525 Shaminder Singh Jamwal, AD Arty	IC-55307 Rama Chandran Kumar, Arty
IC-54526 Alok Gupta, AOC	IC-55308 VJS Ruperia, Arty
IC-54527 Suresh Nath, Arty	IC-55309 Anand Ashok Pathak, Arty
IC-54529 Rashi Raj Charan, Arty	IC-55412 Nagender Singh, AOC
IC-54530 Harshendu Kumar Pathak, Inf	IC-55413 Niraj Kumar, Arty
IC-54531 Raja Jesson Singh, AD Arty	IC-55414 Parvesh Kumar Malhotra, Arty
IC-54532 Samit Walia, Arty	IC-55416 Sanjeev Dadwal, Inf
IC-54533 Sagar Kumar Mohanty, AC	IC-55436 Nasib Singh Chauhan, Inf
IC-54534 Rao Prashant Rammanohar, Inf	IC-55437 Jitender Mann, AD Arty
IC-54535 Amardeep Singh, Sigs	IC-55438 Harjot Singh Rai, AC
IC-54536 Sameer Bhatnagar, AOC	IC-55439 Amar Singh, Inf
IC-54538 Debraj Patra, Arty	IC-55441 Raj Kumar Godara, ASC
IC-54539 Navin Sharma, Inf	IC-55442 Priyank Tripathi, AC
IC-54540 Shyam Kumar Sharma, Mech Inf	IC-55443 Manpervesh Herr, Inf
IC-54541 Paramvir Singh Jamwal, Mech Inf	IC-55444 Alok Tripathi, M/Inf
IC-54542 Anurag Barakoti, EME	IC-55446 Dhanajeet Huidrom, Inf
IC-54543 Ram Kumar Sharma, Inf	IC-55449 Sushil Kumar Malhotra, Arty
IC-54544 Joginder Singh Negi, ASC	IC-55450 Sanjay Kumar, Inf
IC-54545 Rahul Dalal, AOC	IC-55451 Ravi Dutt Sharma, Inf
IC-54546 Rahul Jaiprakesh Sharma, Mech Inf	IC-55452 Atul Goel, ASC
IC-54550 Naryan Singh, Inf	IC-55453 Sameer Singh Bisht, Inf
IC-54551 Deviprasad Sahoo, AD Arty	IC-55454 Harpal Singh, Sigs
IC-54552 Rajesh Bhanot, Inf	IC-55455 Balwant Singh Bora, Inf
IC-54553 Sudeep Sinha, Engrs	IC-55456 Vinay Rauthan, M/Inf
IC-54554 Pracheer Nayar, Arty	IC-55457 Dheeresh Tripathi, Inf
IC-54555 Kumar Vikram, Arty	IC-55458 Krishan Singh Badhwar, Inf
IC-54556 Samik Ghosh, AC	IC-55459 Yudisthir Sangram, Inf
IC-54560 Digvendra Singh, AC	IC-55460 Vishal Singh Rao, Arty
IC-54561 Prashant Dhyanti, ASC	IC-55461 Dhananjay M Bhosle, Arty
IC-54562 Santanu Roy, Engrs	IC-55462 Sandeep Sharma, ASC
IC-54563 Rajiv Ghosh, Inf	IC-55463 Jacob Ninan, Arty
IC-54564 Akash Sharma, Inf	IC-55464 Ramakant Sharma, Inf
IC-54566 Vineet Mehta, AOC	IC-55465 Nischal Salathia, Arty
IC-54592 MD Iqbal Hussain, AEC	IC-55466 Rajnish Jasrotia, Inf
IC-54594 Manoj Kumar Lenka, AEC	IC-55467 Bhavdeep Singh Sidhu, AD Arty
IC-55302 Rajesh Singh Chauhan, Arty	IC-55468 Rahul Verma, Inf
IC-55304 Rajeev Sirohi, AC	IC-55469 Terence Edwin Daniel, ASC
IC-55305 Amit Pal Singh, AD Arty	IC-55470 Munish Tejpal, ASC
IC-55306 Tushar Mukherjee, Inf	IC-55471 Satya Dev Patidar, Sigs

IC-55472 Sandeep Sharma, Arty	IC-55555 Robby George, AD Arty
IC-55474 Mohit Khokhran, Inf	IC-55556 Diwakar Mishra, AD Arty
IC-55475 Dinesh Shukla, Arty	IC-55557 Anil Chaudhry, AOC
IC-55476 Aanchal Kumar, Inf	IC-55558 Kadar Joglekar, Int
IC-55478 Vipin Sondhi, ASC	IC-55559 Sanjay Kumar Mangain, Arty
IC-55480 Sanjay Kumar Salaria, Inf	IC-55560 Sameer S Ghanekar, Arty
IC-55481 Shashi Dhar Dubey, ASC	IC-55561 Pankaj Kant Khunduri, Inf
IC-55482 Raheel Ishrat, AC	IC-55562 Prabath Kumar Mishra, Arty
IC-55483 Saurabh Kumar Srivastav, Arty	IC-55563 Sanjay S Kadam, ASC
IC-55485 Sanjay Joshi, Inf	IC-55564 Jagdish Kumar, Arty
IC-55486 Rajnikant Sundriyal, Engrs	IC-55566 SZA Rizvi, Inf
IC-55487 Karan Singh, Inf	IC-55568 Sandeep Pandey, Inf
IC-55488 Mahendra Singh, AC	IC-55569 W Prasoon Nath, Arty
IC-55489 Anil Kumar Chikara, ASC	IC-55571 Amit Parmar, Inf
IC-55490 Jeewan Sandhu, AOC	IC-55573 Sanjay Yadav, Arty
IC-55491 Amit Sinha, Inf	IC-55575 Rajiv Chaudhary, Inf
IC-55492 Rajarshi Kar, Arty	IC-55576 Aditya Srivastav, AD Arty
IC-55493 Anil Kumar Dixit, AD Arty	IC-55577 Amitabh Sharma, AC
IC-55494 Amitabh Singh, Arty	IC-55580 Pankaj Kalra, Arty
IC-55531 Durga Bir Rai, Mech Inf	IC-55581 Shankar Ji Tiwari, Inf
IC-55532 Vivek Chauhan, Mech Inf	IC-55582 Manoj Kumar Singh, Inf
IC-55533 Navraj Singh Mann, AC	IC-55583 Lalan Kumar Nishad, Inf
IC-55534 Diwan Singh Dhami, Inf	IC-55584 Chinnapa Paul Smiles, Inf
IC-55535 Rajesh Singh, Inf	IC-55586 Tarun Kumar, AOC
IC-55537 S Malik, Mech Inf	IC-55587 Manjeet Mohan Meetu, Inf
IC-55538 Karan Dogra, Inf	IC-55589 Vijay Kumar, Inf
IC-55539 Ashish Kumar, Arty	IC-55590 Akshay Rana, ASC
IC-55540 HS Rawat, AOC	IC-55591 Himanshu Sawant, Inf
IC-55541 Satish Kumar, Arty	IC-55592 Subhash Chauhan, AOC
IC-55542 M Musheer Ahmed Hyderi, Inf	IC-55593 Arun Kumar Yadav, AD Arty
IC-55543 Michael Dsouza, Inf	IC-55594 Yogesh Sethi, AD Arty
IC-55544 KS Narayanan, Arty	IC-55595 Manish Verma, Inf
IC-55545 SR Dulta, AD Arty	IC-55597 Yatinder Nandal, Arty
IC-55546 Sameer Deepak Pawar, ASC	IC-55598 Raghu Pathania, Inf
IC-55547 Vikram Singh, Inf	IC-55599 Jitendra Sharma, ASC
IC-55548 Kuldeep Singh, ASC	IC-55601 Amardeep Tyagi, Inf
IC-55549 Rattandev Singh Billawaria, AC	IC-55602 Sudeep Singh, Arty
IC-55551 N Anand, Inf	IC-55603 Satish Kumar, Arty
IC-55553 Gaidhani Parag Ramchandra, AC	IC-55605 Sharath Nair VSR, Inf

- IC-55606 Jay Shankar Prasad, Arty  
 IC-55607 Kumar RR Singh, Inf  
 IC-55608 Vineet Midha, AC  
 IC-55609 AS Bajwa, AD Arty  
 IC-55611 Sanjiv Verma, AC  
 IC-55612 Abbasi Sadat Naseem, Inf  
 IC-55614 Rajeev Sharma, ASC  
 IC-55619 Gaurav Nautiyal, Arty  
 IC-55620 Rajesh Goyal, ASC  
 IC-55621 Shushant Shukla, Inf  
 IC-55622 Sudhish Chander, Inf  
 IC-55623 Kushal Roy, Inf  
 IC-55624 Amit Ganesh, Inf  
 IC-55626 Rippon Tripathi, Inf  
 IC-55627 Sakthi Kumar Singh, Inf  
 IC-56601 Milan Vinayak Nalawade, Inf  
 IC-56602 Prashant Mahlawt, AC  
 IC-56603 Nishant Sharma, Mech Inf  
 IC-56604 Rahul Kesar, AD Arty  
 IC-56605 Nageendra Rawat, Mech Inf  
 IC-56606 AR Ramakrishnan, Engrs  
 IC-56607 C Bharat Kumar, AC  
 IC-56608 Manesh Nagpal, Inf  
 IC-56609 Amit Sangwan, Engrs  
 IC-56610 Gautam V Desai, Inf  
 IC-56611 Dinesh Singh, Inf  
 IC-56612 Sameer Dhar, Inf  
 IC-56613 Nipun Anand, Arty  
 IC-56614 Sumeet Arya, Arty  
 IC-56617 Ravi Kumar, ASC  
 IC-56618 Jaswant Singh Negi, Inf  
 IC-56619 Sandeep Kumar Rakesh, Inf  
 IC-56620 Maninder Pal Singh, Inf  
 IC-56621 Surinder Singh Malik, Arty  
 IC-56622 Amit K Sharma, Inf  
 IC-56624 Rajesh Nambiar, Mech Inf  
 IC-56625 Manish Wahi, Arty  
 IC-56626 Vinay Dhaka, EME  
 IC-56627 Pankaj Sharma, EME  
 IC-56628 Malvinder Singh Randhawa, Sigs  
 IC-56629 Vivek Kumar Gupta, Inf  
 IC-56630 Manish Sharma, Arty  
 IC-56631 Sonender Singh, Engrs  
 IC-56633 Shashi Bhushan Ghildiyal, Arty  
 IC-56634 Anurag Sharma, EME  
 IC-56636 Rahul Macchral, Arty  
 IC-56637 Vishal Nayyar, Engrs  
 IC-56638 Deepak Sisodia, EME  
 IC-56639 Joe Sabby, Inf  
 IC-56640 Vivek Rawat, AC  
 IC-56641 Jiten Krishan Kumar, AD Arty  
 IC-56642 Vikramjit Singh Nat, Arty  
 IC-56643 Paramjit Singh Bajwa, ASC  
 IC-56644 Gurpratap Singh, EME  
 IC-56645 Navneet Chail, Arty  
 IC-56646 Vakil Kumar, Int  
 IC-56647 Sanjeev Kumar Anand, Inf  
 IC-56648 Sarang Apte, Inf  
 IC-56650 Gaurav Sheoran, Inf  
 IC-56651 Ravinder Singh Chib, ASC  
 IC-56652 Sandep Kapoor, Inf  
 IC-56653 Amandeep Singh Bains, Sigs  
 IC-56654 Devender Kumar Malik, Inf  
 IC-56655 Sukhjinder Singh, EME  
 IC-56656 Amitoz Singh, Inf  
 IC-56657 Rohit Uniyal, EME  
 IC-56658 Vikram Anant Dhodapkar, EME  
 IC-56659 Pankaj Kaushik, Arty  
 IC-56660 Sarma Sanjeev Vijay Kumar, Arty  
 IC-56662 Kulvinder Singh Grewal, Inf  
 IC-56663 Anil Kumar Gupta, Inf  
 IC-56664 Amit Mehna, Sigs  
 IC-56665 Muneesh Jasrotia, ASC  
 IC-56666 Harprit Singh Lamba, EME  
 IC-56668 Guru Kalsy, Arty  
 IC-56669 Dipendra Singh, Inf  
 IC-56670 Alok Kumar, AC  
 IC-56671 Kamlesh Kumar Pandey, Arty  
 IC-56672 Suresh Paentia, Mech Inf

IC-56673 Vikas Raj Gupta, AD Arty	IC-56718 Sudip Chatterjee, Arty
IC-56674 Samit Batra, EME	IC-56719 Swaminathan P, Inf
IC-56675 Vishal Dubey, Inf	IC-56720 Kailash Sagar, AOC
IC-56676 Devinder Chaudhary, ASC	IC-56722 Shakti Bajaj, EME
IC-56678 Paramjit Singh, AOC	IC-56723 Sandeep Malik, ASC
IC-56679 Sanjeet Singh, Engrs	IC-56724 Bipin Bahadur Singh, Inf
IC-56680 Inder Pal Singh, AC	IC-56725 Amit Sood, AC
IC-56681 S Mayil Vapanan, Arty	IC-56726 Erla Rama Narasimma Prasad, AC
IC-56682 Deepak Choube, Inf	IC-56727 Syed Faisal Ahmad, Mech Inf
IC-56683 Dharmendra Singh, Engrs	IC-56728 Harmeet Singh Kapoor, Inf
IC-56684 Sidhartha Varma, Engrs	IC-56729 Ashutosh Datt Sharma, Sigs
IC-56685 Jai Singh Bhatti, Int	IC-56730 Alhad Sureh Pendharkar, Arty
IC-56687 Anil Kumar Tripathi, ASC	IC-56733 Shashi Mohan Shrivastava, AD Arty
IC-56688 Hardip Singh Bhullar, AC	IC-56734 Inder Singh Chauhan, Engrs
IC-56689 Sandeep Singh Aulakh, Inf	IC-56735 Shailesh Kopkar, Inf
IC-56690 Deepak Rishi, AOC	IC-56736 Rajbir Singh, Inf
IC-56691 Tapas Mandal, Inf	IC-56737 Pushkar Raj, Arty
IC-56692 Neeraj Saini, ASC	IC-56738 Sudepta Ghosh, Inf
IC-56693 Aniruddh Wale, Inf	IC-56739 Kuldeep Singh Mehra, ASC
IC-56694 Gururaj Kulkarni, Arty	IC-56741 Murai Rajendra Singh Shankarlal, Engrs
IC-56695 K Joshi Raj, Engrs	IC-56743 Lovelesh Panghal, AOC
IC-56697 PV Ramesh Babu, AD Arty	IC-56744 Ajay Dalal, AC
IC-56698 Amit Awasthi, EME	IC-56745 Jangvir Lamba, ASC
IC-56699 Amit Tewatia, Inf	IC-56746 Rajesh Kumar Thakur, EME
IC-56700 Rajinder Singh Panwar, EME	IC-56747 Vijay Pandey, Inf
IC-56701 Vadvinder Singh Parmar, Inf	IC-56748 Sumit Kochhar, AD Arty
IC-56702 Mohit Nandrajog, ASC	IC-56749 Dheeraj Sethi, Arty
IC-56703 Sandeep Singh Kumar, EME	IC-56751 Girisha Upadhyya, Inf
IC-56706 Jaten Jhingan, Sigs	IC-56752 Vijay Anand Joshi, ASC
IC-56707 Vrijendra Singh, Inf	IC-56753 Pankaj Duggal, AOC
IC-56708 Sudheera KP, Inf	IC-56755 Parminder Singh, Arty
IC-56709 Manish Kumar, Arty	IC-56756 Harpreet Singh, AC
IC-56710 Bhasker Sawhney, Engrs	IC-56757 Manjinder Pal Singh, Engrs
IC-56711 Vibhuti Maindola, Engrs	IC-56758 Swapan Sethi, Inf
IC-56712 Nishit Ranjan, Arty	IC-56759 Janmejay S, ASC
IC-56713 Rohit Khanna, Inf	IC-56760 Harish Kumar, EME
IC-56714 Vishal Goindi, AC	IC-56761 Ajay Tomar, AOC
IC-56716 Himanshu Pundir, Engrs	IC-56762 Naresh Kumar Sangwan, Inf
IC-56717 Sayeshwar Alagappa, AOC	IC-56763 Subhedar Salim Mulka, Arty

- IC-56764 M Sai Bhushan, Arty  
 IC-56766 Shyam Singh Shekhawat, ASC  
 IC-56768 Preet Baljit Singh Sra, Inf  
 IC-56769 Anshuman Saxena, AOC  
 IC-56770 Ratnadip Das, Arty  
 IC-56771 Jaswinder Singh Rahil, Arty  
 IC-56772 Pragadish S, ASC  
 IC-56773 Saravanan G, EME  
 IC-56774 Paramjit Singh Bakshi, Arty  
 IC-56775 Bhalender Singh Bhullar, Arty  
 IC-56776 Anai Shankar, Inf  
 IC-56777 Prashant Sharma, ASC  
 IC-56778 Puneet Kumar, Engrs  
 IC-56779 Charanjeet Singh Bhalla, EME  
 IC-56780 Kanwar Raneshwar Singh, AD Arty  
 IC-56781 Shakher Goyal, EME  
 IC-56782 Himanshu Tiwari, Arty  
 IC-56783 Bakshi Rajeev Shambhunath, ASC  
 IC-56784 Tejvir Singh, Inf  
 IC-56785 Abhishek Adhikari, Engrs  
 IC-56786 MM Hussain, Junaidi, Arty  
 IC-56787 Gurkirpal Singh, ASC  
 IC-56788 Yengkokpan Ajit Kumar Singh, Arty  
 IC-56789 Bimal Mehra, Arty  
 IC-56790 Sunil Kumar, AEC  
 IC-56791 Kaushtubh, Arty  
 IC-56792 Paras Tomar, Inf  
 IC-56793 Yogesh Joshi, Inf  
 IC-56794 Hariander Singh, AOC  
 IC-56795 Probal Ghosh, Inf  
 IC-56797 Jitender Singh, EME  
 IC-56798 Kumar Umashanker, AD Arty  
 IC-56799 Sanjeev Kohli, Arty  
 IC-56800 Parveen Kumar, EME  
 IC-56801 Vipul Saini, AC  
 IC-56802 Rahul Sharma, Inf  
 IC-56803 Anujendra Singh Antal, Inf  
 IC-56804 Sukhvinder Singh, Engrs  
 IC-56805 Siddharatha Upadhyay, AOC  
 IC-56806 Suveer Seth, Inf  
 IC-56807 Atul Paul, Arty  
 IC-56808 K Anil Kumar, Inf  
 IC-56810 Anurag Rawat, Engrs  
 IC-56812 Rahul Mohan Seth, Inf  
 IC-56813 Rohit Joshi, Inf  
 IC-56814 Ajay Coutinho, Arty  
 IC-56815 Vivek Joshi, Inf  
 IC-56816 Sanat Kabi, Inf  
 IC-56819 Pankaj Ahuja, EME  
 IC-56820 Sudip Kumar, Inf  
 IC-56821 Ravi Pal Singh Rana, Engrs  
 IC-56822 Mohit Rao, Inf  
 IC-56823 Arun Jaggi, Arty  
 IC-56824 Vishal Sharma, Arty  
 IC-56825 Prashant Malhotra, EME  
 IC-56826 Tejpal Singh Rana, EME  
 IC-56829 Manish Garg, Engrs  
 IC-56830 Gaurav Singh, AOC  
 IC-56831 Maruti Mishra, Arty  
 IC-56832 Harish Rana, ASC  
 IC-56833 Ashish Dhingra, Engrs  
 IC-56834 Chandola Atul Ramesh, Engrs  
 IC-56835 Chander Kant Sharma, Inf  
 IC-56836 Ajay Uniyal, Inf  
 IC-56837 D Sushant, Arty  
 IC-56838 Sumit Kumar Sharma, Inf  
 IC-56840 Delin Mathew, ASC  
 IC-56841 Mohamad Shoaib Khan, Inf  
 IC-56843 Amit Bhatnagar, AC  
 IC-56844 Prabhat Kohli, Arty  
 IC-56846 Ranjan Mahajan, Inf  
 IC-56849 Suresh G, EME  
 IC-56850 AS Ravi Kiran, Inf  
 IC-56851 Sharique Ahmad Khan, Arty  
 IC-56852 Prikshhit Sharma, Arty  
 IC-56853 Irfan G Collinson, Mech Inf  
 IC-56855 Sandesh Sadanand Amin, AOC  
 IC-56856 Omeesh Singh Rathore, ASC

IC-56857 Sameer Sinha, Inf	IC-56902 Abhijit Babasaheb Adgaonkar, Arty
IC-56858 Rahul Rajput, Engrs	IC-56903 Nandan Singh Dangwal, Inf
IC-56859 Gunjan, EME	IC-56904 Pramod Negi, Engrs
IC-56860 Anshuman Sharma, Inf	IC-56905 Amit Vig, Arty
IC-56861 Kanwal Kishore, Inf	IC-56916 Harsh Vardhan Singh Bisht, EME
IC-56862 Kaushik Sarkar, Engrs	IC-56918 Tirthankar Chakravarty, AEC
IC-56863 Rakesh Pathak, Engrs	IC-56919 Ashish Dobhal, Inf
IC-56864 Anil Kumar Choudhary, Inf	IC-56922 Arun M Kulkarni, AEC
IC-56865 Manish Singh Rathore, Inf	IC-56925 Rajesh Raghav, AEC
IC-56867 Sarsar Mukund Madhavrao, EME	IC-58069 Ningombam Hemachanadra Singh, Engrs
IC-56868 Anil Kumar Singh Patial, Inf	IC-58071 Gurinder Singh Uppal, Engrs
IC-56869 Ravi Kumar, Inf	IC-58072 Oak Niranjan Shrikant, Engrs
IC-56870 Manvender Vinayak, AD Arty	IC-58073 Ajit Singh, Sigs
IC-56871 Sajal Thapa, ASC	IC-58074 Sukhvir Poonia, Sigs
IC-56872 Rahul Sharma, AC	IC-58075 Quazi Imran Javed, EME
IC-56873 Pradeep Negi, EME	IC-58076 Atul Kumar Shukla, Sigs
IC-56875 Jasjit Singh, Inf	IC-58077 Navin Sahrawat, Sigs
IC-56876 Akshay Kumar Singh Rana, AOC	IC-58078 Viswanath Kannan, EME
IC-56877 Abhijat Kashyap, AC	IC-58079 Surinder Mohan Sharma, Engrs
IC-56878 Harneet Singh Ahluwalia, Arty	IC-58080 Vijaya Kumar V, EME
IC-56879 Amit Nigam, Engrs	IC-58082 Shilendra Singh, Engrs
IC-56880 Sandeep Chandel, AD Arty	IC-58083 Athale Amit Anil, EME
IC-56881 Sambh Acharya, EME	IC-58084 Sailesh Prasad Pradhan, Engrs
IC-56882 Navin Kumar Rai, Inf	IC-58087 Amit Kumar Narula, Sigs
IC-56883 Vashnu Pratap Singh, AC	IC-58088 Sunil Kumar Tiwari, Engrs
IC-56884 Avinash Verma, Inf	IC-58089 Parambir Singh, Sigs
IC-56887 Dhruvjyoti Chanda, Inf	IC-58090 S Senthil Ramadhurai, Engrs
IC-56889 Karpaljit Singh, ASC	IC-58091 Pema Dadul Gyatso, EME
IC-56891 Sandeep Sharma, Arty	IC-58093 Vikram Pahuja, Engrs
IC-56892 Maninder Singh Chouhan, Inf	IC-58096 Mathur Mayak Ratanachandra, EME
IC-56893 Vivek Singh Dhanai, EME	IC-58097 Tejpal Singh Mann, Engrs
IC-56894 Vinay Vashisth, Engrs	IC-58100 Ralegaonkar Anup Arvind, Sigs
IC-56895 Vikrant Singh, ASC	IC-58102 Ingle Nilesh Ramdas, Sigs
IC-56896 Sunil Rawat, Inf	IC-58103 T Ravi Kumar Reddy, EME
IC-56897 Himanshu Kalia, Arty	IC-58105 Rajesh Kumar Agrawal, EME
IC-56898 Genesh V Raghavan, Mech Inf	IC-58106 Prasad Sharad Mahajan, EME
IC-56899 Sandeep Bisht, AOC	IC-58107 Amitabh Anand Kauleshnam, Sigs
IC-56900 Shikhar Jaiswal, Inf	IC-58108 Dharmender Dalal, Engrs
IC-56901 Deepak Anand, AC	IC-58109 Dushyant, EME

IC-58110 Pawandeep Singh, Sigs.  
 IC-58111 Subramanian KS, Engrs  
 IC-58113 Ashok Rana, Sigs  
 IC-58114 Bobby Joseph, EME  
 IC-58115 Verma Madhukar Ajit, Sigs  
 IC-58116 Ashutosh Verma, EME  
 IC-58119 Chirde Gajanan Wasudeo, Sigs  
 IC-58124 Kumar Sanjay, Sigs  
 IC-58125 Muthireddy Chandan Kumar, EME  
 IC-58127 Omendra Chauhan, EME  
 IC-58561 Raghunath Singh Minhas, Sigs  
 IC-58562 Sarabpreet Singh, Sigs  
 IC-58563 Ashish Kumar Rohanker, Engrs  
 IC-58564 MV Sooraj, EME  
 IC-58566 Sandeep Bajaj, Sigs  
 IC-58567 Pankaj Sharma, Sigs  
 IC-58568 More Rahul Kesho Rao, Engrs  
 IC-58569 Harendra Kumar, EME  
 IC-58570 Deven Gopal Lal Makhija, Sigs  
 IC-58571 Manmohan Singh Sidhu, Engrs  
 IC-58572 Janardhanam K, Engrs  
 IC-58574 Sanjeeb Dutta, Engrs  
 IC-58575 Gurjeet Singh, Engrs  
 IC-58577 Siddharth Shankar Patnaik, Engrs  
 IC-58578 Sanjay Pandey, EME  
 IC-58580 Anuj Kumar Singh, EME  
 IC-58581 Sharad Chand Singh, Engrs  
 IC-58582 Sumit Atri, Engrs  
 IC-58583 Syed Faraz Zaidi, EME  
 IC-58584 Rohit Sharma, Sigs  
 IC-58586 Anshu Kumar Gupta, EME  
 IC-58587 S Rajesh Iyer, Engrs  
 IC-58588 Aninder Jit Singh, EME  
 IC-58589 Neeraj Kumar Singh, Sigs

IC-56046 Romi Gupta, Sigs  
 IC-56047 Ajay Sahi, Engrs  
 IC-56048 R Vamsi Mohan, Engrs

—16 Dec 2004—

CHANDER PARKASH  
 Dy. Dir.  
 MS-8C

ARMY BRANCH  
 CORRIGENDUM

No. 496, dated 8th September 2005.—In the Government of India, Ministry of Defence, Notification No. 29 published in the Gazette on 17 Jul 2004, under heading 'Regular Army, Special List, The Punjab Regiment', Sub heading 'To be Subedars' Page No. 952 is hereby amended as under:—

*For :*

Nb Sub Jagdish Chander (JC-429020W), 01 Sep 2003.

*Read :*

Nb Sub Jagdish Chander (JC-429028W), 01 Sep 2003.

In the Government of India, Ministry of Defence, Notification No. 412 dated 15 Jul 2004 published in the Gazette of India Sr. No. 33 dated 14 Aug 2004, under heading 'REGULAR ARMY, Infantry, The Jat Regiment' is hereby amended as under:—

*For :*

Nb Sub Harphool Singh (JC-488698P), 23 Jan 2002\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

*Read :*

Nb Sub Harphool Singh (JC-488698P), 23 Jan 2003\*

\*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Aug 2002 without effect on pay & allowances).

*For :*

Nb Sub Patap Singh (JC-488796P), 01 Aug 2002

*Read :*

Nb Sub Partap Singh (JC-488796P), 01 Aug 2002

JOSE THOMAS  
 Under Secy.